



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2007 (श्रावण 13, 1929)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2007 (SRAVANA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 19 जुलाई 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जून 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

#### सूची "क"

भायखला, मुंबई सर्कल

9% राहत पत्र 1999 (डीमेंट)

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
जी.पी.एच. बी.सी.एन. 026022	रु. 40,000/-	प्रभाकर गजानन जागुस्ते (मृत) प्रभावती प्रभाकर जागुस्ते (कोई या उत्तरजीवी)	8.07.2000	प्रभाकर गजानन जागुस्ते (मृत) प्रभावती प्रभाकर जागुस्ते (कोई या उत्तरजीवी)	06.25.102 11.5.07

## सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

## भायखला मुंबई सर्कल

9% राहत बांड, 1999 (डीमेंट)

जी.पी.एच. बी.सी.एन. 029681 और	रु. 1,00,000/- और	रुस्तुम जहांगीर गगराट, और लिया रुस्तुम गगराट (कोई एक या उत्तरजीवी)	1.11.2000	रुस्तुम जहांगीर गगराट, और लिया रुस्तुम गगराट (कोई या उत्तरजीवी)	06.25.98 04.05.2006
बीसीएन 029920	रु. 1,00,000/-	रुस्तुम जहांगीर गगराट, और लिया रुस्तुम गगराट (कोई या उत्तरजीवी)	17.11.2000		

## नई दिल्ली सर्कल

(गोल्ड बांड 1998)

बीवाई/एसडीएच- 000294	819 ग्राम	अनिल कुमार जैन एवं सरिता जैन	29.05.1993	अनिल कुमार जैन एवं सरिता जैन	पीडीओ/डीटी/एल एन- 1/2006 दिनांक 14.05.2007
-------------------------	-----------	---------------------------------	------------	---------------------------------	---

जे. एम. बावा  
सहायक प्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA  
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS  
Mumbai, the 19th July 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended June, 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"  
BYCULLA MUMBAI CIRCLE  
9% Relief Bonds 1999 (Demat)

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
GPH-BCN- 026022	Rs. 40,000/-	Prabhakar Gajanan Jaguste (Deceased) and Prabhavati Prabhakar Jaguste (Either or Survivor)	08.07.2000	Prabhakar Gajanan Jaguste (Deceased) and Prabhavati Prabhakar Jaguste (Either or Survivor)	<u>06.25.102</u> 11.5.07

List "B"

BYCULLA, MUMBAI CIRCLE  
9% Relief Bonds, 1999 (Demat)

GPH-BCN 029681 & BCN-029920	Rs. 1,00,000/- & Rs. 1,00,000/-	Rustom Jehangir Gagrati & Lia Rustom Gagrati (Either or Survivor)	01.11.2000  17.11.2000	Rustom Jehangir Gagrati & Lia Rustom Gagrati (Either or Survivor)	<u>06.25.98</u> 04.05.2006
-----------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---	-------------------------------

New Delhi Circle  
(Gold Bond 1998)

BY/SDH- 000294	819 Gms.	Anil Kumar Jain & Sarita Jain	29.05.1993	Anil Kumar Jain & Sarita Jain	PDO/DT/LN-1/2006 dt. 14.05.2207
-------------------	----------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------------------------------

J. M. BAVA  
Asstt. Manager

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

मुम्बई-400 005, दिनांक 10 जुलाई 2007

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

३ डब्ल्यू.सी.ए. (४)/१/२००५-२००६:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के अधिनियम १९८८ के विनियम १८ के भाग के अंतर्गत यह सूचित किया जाता है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट १९४९ क्लाज (अ) के विखंड (१) के खंड २० के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी मृत्यु के कारण दी हुई तिथि से रद्द किया जाता है।

क्र. एमआरएन	सदस्य का नाम	रिमुखल ता.	क्र. एमआरएन	सदस्य का नाम	रिमुखल ता.
1	000957 श्री. रादेरिया भगवानदास छगनलाल	27/07/2004	33	016921 श्री. कनोडिया दुर्गा प्रसाद	14/06/2005
2	001134 श्री. मनोरंजन रतिलाल श्रोफ	24/05/2004	34	018856 श्री. भट्ट राधेश्याम	05/02/2005
3	001634 श्री. अमिन योगेन्द्र चुनिभा	14/10/2005	35	020612 श्री. विजय कुमार छामरिय	02/01/2005
4	002062 श्री. शाह कांतिलाल मोहनलाल	02/11/2004	36	021326 श्री. पोहार पी. के.	20/06/2005
5	002401 श्री. फडणीस गंगाधर शंकर	19/10/2005	37	030016 श्री. कन्हारे मिलिंद गजानन	16/02/2005
6	002481 श्री. बराडे मधुकर पुरुषोत्तम	20/04/2005	38	030901 श्री. मांजरेकर अशोक लक्ष्मण	28/04/2005
7	002706 श्री. कृष्ण राव चेंब्रो	13/11/2005	39	032214 श्री. जैन सुभाष ईंद्रचंद	17/12/2005
8	002805 श्री. संपत प्रतापसिंह वसुनजी	26/08/2005	40	032284 श्री. पाटिल श्रीनिवास हरी	22/01/2005
9	003253 श्री. पटेल अरदेशिर एरचशा	21/08/2004	41	032299 श्री. तारापोरवाला नादिर शापूर	11/09/2005
10	003286 श्री. दस्तुर जाल एरच	07/10/2005	42	032705 श्री. संगोराम आनंद श्रीरंग	01/09/2005
11	003317 श्री. वाघळे मनोहर आनंदराव	27/01/2004	43	032890 श्री. कैसारे दिवाकर परशुराम	15/12/2005
12	003791 श्री. पारेख शशीकांत मणिलाल	18/11/2004	44	033090 श्रीमती मेहर एरुव फौजदार	27/12/2004
13	004054 श्री. ताम्हाणे रमेश राजाराम	10/11/2004	45	033861 श्री. शिंदे किसन कृष्णा	16/09/2004
14	004600 श्री. शाँ जमशेद पेस्तनजी	30/10/2004	46	038026 श्री. रामानाथन सुधाकर	31/07/2003
15	004727 श्री. महेता योगेन्द्र भानुप्रसाद	13/02/2006	47	040134 श्री. शेनवाय अभिजीत विनायक	26/09/2005
16	004987 श्री. शाहमनहरलाल ठाकोरलाल	04/05/2005	48	040578 श्री. शालिन इंदुलाल शाह	18/12/2004
17	005182 श्री. मलेशरिया होमी जमशेदजी	28/09/2004	49	045936 श्री. जोशी वसंत बलवंत	13/12/2004
18	005472 श्री. पटेल अरविंद कांतिलाल	23/11/2005	50	048580 श्री. यट्टे हर्षद श्याम	12/09/2001
19	006251 श्री. मैथिया जयंतीलाल भाणजी	08/08/2005	51	054061 श्री. गोयल राज कुमार	11/06/2004
20	006542 श्री. महेता दिनेशकुमार मुलजीभाई	19/11/2004	52	080981 श्री. चतुर्वेदी सुभाष चंद्र	17/07/2005
21	007287 श्री. जोशी सुधाकर दत्तात्रय	21/10/2004	53	081527 श्री. कपाटकर मोहन विश्वनाथ	29/05/2005
22	009049 श्री. अग्रवाल रविदत्ता	20/11/2004	54	104205 श्री. शिंदे दिपक बाबुराव	08/07/2005
23	010445 श्री. सेठ रश्मिकांत प्राणजीवनदास	08/02/2005	55	110153 श्री. यशवंत केशवरावजी माटे	27/12/2004
24	010728 श्री. वैद्यरामचंद्रविश्वास	12/05/2004	56	112686 श्रीमती सुमन नारायण नाईक	12/03/2005
25	011029 श्री. मेलबांकी श्रीमंत धुपाल	13/05/2002	57	116993 श्री. नयन मनुभाई वोरा	04/08/2005
26	011088 श्री. क्रिस्टी संम्युअल रॉबर्ट	25/06/2005			
27	011268 श्री. श्रीनिवासन एम. ए.	16/04/2005			
28	011571 श्री. गुप्ता सुरेंद्र कुमार	22/01/2006			
29	012006 श्री. काबा गोपाल क्रिशन	03/06/2005			
30	012214 श्री. बरलोटा कचरुलाल चंदनमल	07/02/2006			
31	012751 श्री. शाह विनोदराय चंपकलाल	16/12/2004			
32	013515 श्री. ब्रह्मेच्छा चांदमल मोहनलाल	22/01/2006			

डॉ. अशोक हल्दीया  
सचिव

३ डब्ल्यू.सी.ए. (४)/२/२००५-२००६:- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम १९८८ के विनियम १८ के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम १९४९ की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी विनती पर हटा लिये गये हैं।

क्र.	एमआरएन	सदस्य का नाम	रिमुखल ता.
1	001853	श्री. शिंदे बाबुराव गोविंदराव	01/04/2005
2	001905	श्री. शिवाराव बी. के.	01/07/2005
3	003971	श्री. पटेल श्रीकांत चतुरभाई	17/09/2005
4	008382	श्री. कात्रक बहेराम एरचशा	10/05/2005
5	011335	श्री. वरियावा फरुख मन्वेरशा	06/09/2005
6	109958	श्री. अश्विन आनंद बडगेरी	09/01/2006
7	117983	श्रीमती नुपुर सुनिल साठे	01/01/2006

डॉ. अशोक हल्दीया  
सचिव

३ डब्ल्यू.सी.ए. (४)/३/२००५-२००६:- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम १९८८ के विनियम १८ के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम १९४९ की धारा २० (१) (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता से निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण १-१०-२००५ से हटा दिये हैं।

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन.	सदस्य का नाम
1	000798	श्री शाह ईदुलाल हिरालाल	32	008352	श्री शाह नरेशचंद्र नरोत्तमदास
2	000907	श्री शाह साकेरलाल भाईचंद	33	008594	श्री देसाई रोहित रवींद्रलाल
3	001430	श्री बागडये वसंत पांडुरंग	34	008787	श्री आशर विजयसिंह पुरषोत्तम
4	002345	श्री तारे व्यंकटेश रघुनाथ	35	008860	श्री जोशी पिनाकिन गजानन
5	002380	श्री जोधाणी अमृतलाल मगनलाल	36	008988	श्री लुहारीवाला केशरी नंदन
6	002714	श्री मोदी सुरेंद्र साकेरलाल	37	008990	श्री शाह महेश ईन्द्रलाल
7	003106	श्री मराठे विनायक सखाराम	38	009382	श्री पारेख अश्विन रतिलाल
8	003480	श्री पटेल रावजीभाई हरजीभाई	39	009630	श्री पटेल अरविंदकुमार मणिलाल
9	003482	श्री मर्चेंट रमझानअली फकीरमोहम्मद	40	010131	श्री पुष्पवदन कृष्णलाल भट्ट
10	003838	श्री प्रोतीप कुमार चेटर्जी	41	010398	श्री सुशीलचंद्र ठाकोरलाल कापडिया
11	004243	श्री बोयस बोमी जमशेद	42	010699	श्री वेशंपायन श्रीनिवास शिवराम
12	004253	श्री झवेरी जितेंद्र भोगीलाल	43	010912	श्री कृष्णमूर्ति एम.
13	004681	श्री ठाकुर श्रीपद गजानन	44	012241	श्री शाह विजयकुमार हीरालाल
14	004875	श्री प्राण नाथ मित्रा	45	012254	श्री टंडन मनु
15	005068	श्री संकरन जी. एस.	46	012432	श्री बृच अनंतराम हरसुतराय
16	005244	श्री जोशी प्रभाकर विष्णु	47	012599	श्री रवींद्र धोंडीराम अडवंत
17	005600	श्री सदासिवन जी. एस.	48	012620	श्री देसाई प्रणव गिरिराज
18	005711	श्री डब्ल्यूजी सीडीआर त्रिभुवन पाल मेगन	49	013035	श्रीमती बोरकर पी. एस.
19	005790	श्री सुरटे अरविंद बाबुराव	50	013133	श्री दिनकर ए.
20	005979	श्री पटेल जसवंत रेणुमित्रा	51	013314	श्री झवेरी मुकुंद जेठालाल
21	006096	श्री अग्रवाल विनोद कुमार	52	013353	श्री निहाल चंद कोठारी
22	006297	श्री नाईक ईश्वरलाल प्राणलाल	53	013444	श्री महेता झवेरचंद केशरीमल
23	006372	श्री देसाई चंद्रकांत कांतिलाल	54	013800	श्री रायजी अमित रणजित
24	007157	श्री डोंगरे महेश भालचंद्र	55	014062	श्री गोरडिया प्रद्युम्न कल्याणदास
25	007280	श्री कुडिया अबुब अब्दुल गफ्फार	56	014083	श्री देशपांडे अच्युत सदाशिव
26	007337	श्री रोय परितोष	57	014276	श्री ठक्कर विनोद हरीलाल
27	007361	श्री कोठारी सुरेशचंद्र नंदलाल	58	014380	श्रीमती एलीन पी. महेता
28	007728	श्री नवल कुमार जैन	59	014642	श्री बळवतराय कलाभाई महेता
29	008014	श्री बोरकर सुरेशचंद्र रामराव	60	014794	श्री पाई प्रकाश जी.
30	008070	श्री भंडारी पुष्करमल प्रकाशमल	61	014837	श्री योगेंद्र कुमार जमितातराम पंड्या
31	008112	श्री तारमास्टर दिनेशचंद्र रमणलाल	62	014868	श्री रायमागिया विठ्ठलदास रामदास

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
63	014962	श्री शाह अनिल चंपकलाल	108	030432	श्री शेठ चेतन भूपेंद्र
64	015205	श्री रेगे रमेश गजानन	109	030467	श्री शेठ सतीश
65	015453	श्री रामन्ना मूर्ति पी. बी.	110	030495	श्री कदम हरिभाऊ आनंद
66	015469	श्री चतुर्वेदी रामजी श्यामलाल	111	030502	श्री सेलारका अधिनकुमार मोहनलाल
67	015863	श्री शाह रमेश नटवरलाल	112	030522	श्री देसाई हिरेन जयंत
68	016090	श्री सोनी ओमप्रकाश जी.	113	030714	श्री रामजी रंगास्वामी
69	016370	श्री शास्त्री तुलसी सूर्यनारायण	114	030725	श्री जयेशकुमार प्रभाशंकर ठाकर
70	016478	श्री भायेना सेम बोमण	115	030736	श्री देसाई शांताराम कृष्णाजी
71	016819	श्री कार्तिकेयन कावासेरी सुब्रमण्यन	116	030927	श्री सुबोध जोगीन्द्रनाथ भेल
72	017033	श्री सुरेखा मुरलीलाल	117	030947	श्री विमडालाल शरदकुमार विठ्ठलदास
73	017172	श्री कांटावाला मोहम्मदी याह्याभाई	118	031081	श्री रामनाथ जी. के.
74	017236	श्री बंसल विष्णु कुमार	119	031098	श्री पटेल हेमंत रमणलाल
75	017266	श्री नाहर विजयकुमार लालचंद	120	031100	श्री सिगनपोरा परबेश मेहली
76	017394	श्री जोशी धनंजय रघुवीर	121	031134	श्री मुस्तफा याह्याभाई जमाली
77	017577	श्री झवेरी प्रदिप जयराम	122	031167	श्री भानुशाली मंगलदास लक्ष्मीदास
78	017922	श्री कुलकर्णी सुहास शंकर	123	031221	श्री शाह हिरेन चीनुभाई
79	017974	श्री सोमैया ललित जिवराजभाई	124	031235	श्री विजय कुमार गोयल
80	017979	श्री सराफ सज्जन लाल	125	031313	श्री कटारिया अमृतलाल मगनलाल
81	018332	श्री सुकुमार टी. बी.	126	031321	श्री बिपिनचंद्र कांतिलाल ठक्कर
82	018577	श्री रवि शंकर जी. के.	127	031352	श्री होडीवाला ऊर्वेक्स केरसी
83	018681	श्री शिवकुमार र.	128	031611	श्री सांगण्णी अनिल जयंतीलाल
84	018721	श्री रामैयाह कृष्णन	129	031760	श्री सुरेश उद्धवदास राधाकृष्णाणी
85	019216	श्री भट बालकृष्ण यु.	130	031792	श्री मल्लया यशवंत त्रिनिवास
86	020393	श्री गुरुमूर्ति बी. बी.	131	031840	श्री शाह पंकजकुमार रतिलाल
87	020534	श्री रामकृष्णन आर.	132	031885	श्री राकेश शर्मा
88	020575	श्री जैन भंवरलाल	133	032020	श्री मालदे चंद्रकांत झवेरचंद
89	021558	श्री शानभोग जयराम	134	032095	श्री रेगे सुभाष विनायक
90	021838	श्री एस. स्वामिनाथन	135	032111	श्री दिलखुरा राज जैन
91	022089	श्री आर. श्रीराम मूर्ति	136	032217	श्री अग्रवाल अशोककुमार मुल्कराज
92	022304	श्री शेखर ए.	137	032220	श्री तेंडुलकर कृष्ण गजानन
93	023260	श्री श्रीनिवासन ए.	138	032443	श्री रेशमिया प्रवीणचंद्र हरगोविंददास
94	023759	श्री एलिझाबेथ जोशुआ	139	032462	श्री देसाई जवाहर नवीनचंद्र
95	024793	श्री थोमस ओन	140	032630	श्री चौधरी गोपाल दास
96	025612	श्री जगदिश कुमार जी.	141	032650	श्री दिनेश कुमार कांतिलाल शाह
97	026828	श्री मूर्ति एन. टी.	142	032683	श्री डायस मार्क डेरिक
98	027636	श्री चतुर्वेदी गणेश प्रसाद	143	032929	श्री शाह परिमल रसिकलाल
99	029019	श्री सी. श्याम सुंदर	144	032943	श्री बारोट पंकजकुमार धनश्यामभाई
100	029585	श्री रामकृष्णन जी.	145	033128	श्री चाफळकर संजय वसंत
101	030078	श्री हजार सदानंद बाबुराव	146	033209	श्री महारा सुनिलकुमार हरबंसलाल
102	030087	श्री गुप्ता राजेंद्रकुमार मखनलाल	147	033365	श्री शाह प्रशांत धनश्याम लाल
103	030163	श्री कथरिया प्रविणकुमार हरिदास	148	033397	श्री महता गिरिन अनंगभाई
104	030185	श्री अब्बासी जोहर ए.	149	033416	श्री महता अजय कांतिलाल
105	030254	श्री शाह महेंद्रकुमार रसिकलाल	150	033575	श्री सोमण्णी विनोदकुमार गोविंदराम
106	030378	श्रीमती कुंदा शंकर गणु	151	033618	श्री आनंद वसंत देशपांडे
107	030407	श्री संपत अशोक गोपालदास	152	033659	श्री एन्टाव एडवर्ड रोबर्ट

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
153	033785	श्री भट्ट सुरेश श्रीपदराव	198	036709	श्री जैन विजय कुमार
154	033842	श्री पारडीवाला होमी कावस	199	036754	श्री सोहोनी शरज गजानन
155	033975	श्री नायर वेणुगोपाल बालन	200	036949	श्री महेता मनीष गिरीशचंद्र
156	033984	श्री पटेल जय महेंद्रभाई	201	037066	श्री दाउद झाफर सिराज
157	034077	श्री तारा चंद जैन	202	037102	श्री महेता निपुण सुमनलाल
158	034162	श्री असरानी महेश मनोहरलाल	203	037168	श्री नाथाणी प्रकाश मातादिन
159	034193	श्री देसाई यशोधर नटवरलाल	204	037178	श्री शाह संजय गोविंदलाल
160	034223	श्री सुंदरेसन रामनाथ	205	037219	श्री नाईक मंगेश मनोहर
161	034318	श्री पोपट अजयकुमार चिमनलाल	206	037285	श्री काणे प्रशांत परशुराम
162	034331	श्री गोपाल राममूर्ति	207	037417	श्री सारंग भगवान श्रीनिवासजी
163	034343	श्री बखारिया हेमंत कनैयालाल	208	037538	श्री मुछाळा अपूर्व जसवंतलाल
164	034376	श्री हरलालका पवनकुमार देवकीनंदन	209	037580	श्री सिंह अवधेश नारायण छबी नारायण
165	034396	श्री अतुल जितेंद्र अगरवाल	210	037600	श्री झुमखावाला अतुल अवनिधर
166	034560	श्री शेंडे अभिजित वासुदेव	211	037664	श्री चंद्र कुमार छाबरिया
167	034645	श्री पारेख दीपक रसिकलाल	212	037692	श्री ऋषीकेश मारुति चौहाण
168	034836	श्री त्रिवेदी किरण बच्छुभाई	213	037737	श्री चोखरे सुनिल शंकरराव
169	034886	श्री कुमार आर.	214	037786	श्रीमती त्यागराजन विजयालक्ष्मी
170	034911	श्री सिसोदिया भूरा हमीर	215	037925	श्री टोपरानी जनक रणजित
171	035111	श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल	216	038039	श्री पटेल वसंत प्रागजीभाई
172	035188	श्री शर्मा कृष्णकांत वेद	217	038081	श्री कानाबार बीरेन जयंतीलाल
173	035209	श्री पटेल बिमल जयंतकुमार	218	038212	श्री जालन प्रमोद कुमार
174	035290	श्री विवेक सतीश छाबरिया	219	038269	श्री कासलीवाल प्रमोद धनालाल
175	035341	श्री योगेशकुमार गिरीशकुमारजी जाजु	220	038361	श्री राव कीर्ति शंकर
176	035359	श्री साठवे प्रदीप गणेश	221	038373	श्री कडाकया तुषार मनुभाई
177	035413	श्री कापडिया मानसिंह माधवदास	222	038398	श्री सेराव लोरेन्स केजेटन जोन
178	035439	श्री शेखात्रि श्रीकांत	223	038449	श्री गायकवाड बालकृष्ण हरिभानु
179	035622	श्री शाह ललित बाबुलाल	224	038707	श्री पुराणिक अनिल देवेन्द्र
180	035739	श्री नागर बाबुलाल	225	038826	श्री मुथा अनिल देवीचंद
181	035747	श्री अग्रवाल रामदेव रामगोपाल	226	038832	श्री पाटिल अनिल भास्करराव
182	035760	श्री महेता जयेशकुमार लल्लुभाई	227	038883	श्री महेता उपेन्द्र वसंतलाल
183	035773	श्री शेट प्रमोदकुमार व्रजलाल	228	038999	श्री ब्रोचवाला कनैयालाल बाबुलाल
184	035920	श्री बागडिया अजितकुमार शांतिलाल	229	039158	श्री ठाकुर गोकुल सिंह रसाल सिंह
185	035938	श्री अल्मेडा डेरिक ईग्नेशियस	230	039165	श्री टोशीवाल शिव लाल
186	035977	श्री निर्मल सिंह मदन मानसिंह	231	039207	श्री चौधरी ललित नामदेवराव
187	036024	श्री दोशी संजय	232	039225	श्री दहिवलकर विलास उद्धवराव
188	036140	श्रीमती शाह बेला जिगीश	233	039237	श्री देसाई सुधीरकुमार कीर्तिदेव
189	036283	श्री उपाध्याय राम बाबु	234	039267	श्री राघवन कुलशेखर बी.
190	036291	श्री कजरेकर विवेक सदाशिव	235	039274	श्री चाको जोब
191	036310	श्री कोलसावाला महेरनोश एरच	236	039282	श्री परसरामपुरिया संदीप सीताराम
192	036332	श्री नांगिया जयंत रूपलाल	237	039296	श्री शर्मा संदीप कांत
193	036352	श्री श्रीधर वेमुरी एस.	238	039308	श्री केल्लरा बोस्को वेलिंग्टन
194	036367	श्रीमती सिंह नीरू बिजिंदर	239	039339	श्री लिमये भूषण सुहास
195	036506	श्री चौधरी निर्मल कुमार	240	039346	श्री मल्लादी सेवा श्रीनिवास
196	036597	श्री देसाई जयेश ए.	241	039429	श्री महेता केतन बालक्रिशन
197	036601	श्री कटारिया महेश गोविंदजी			



क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
242	039557	श्री खन्ना राजेश मदन	287	041809	श्री श्रीराम पद्मनाभन
243	039928	श्री अजय हिमलाल महता	288	041816	श्री कम्पानी अतुल कृष्णलाल
244	039940	श्री हजारे लक्ष्मीकांत बाबुराव	289	041829	श्री अडवानी दीपक
245	039989	श्री रमेश रामकृष्णन करधदेया	290	041866	श्री दोशी मनिष हसमुखलाल
246	039993	श्री धोंडे भरत किसन	291	041946	श्री जैन विपिन कुमार
247	040001	श्री मिस्किटा जेर्नार्ड फ्रान्सीस	292	041948	श्री दिनाज्ञ रमेश पद्मनाभन
248	040096	श्री भाटिया अनिल चुनीलाल	293	042027	श्री महेश्वरी राजेश तुलसीरामजी
249	040101	श्री रमेश लता के. आर.	294	042067	श्रीमती दिप्ती दीपक अडवानी
250	040185	श्री गोविंदराजन देवनाथन	295	042087	श्री क्रिष्णन एन. जी. गणपति एम. आर.
251	040314	श्री गांधे अनिल वसंत	296	042098	श्री शाह स्नेहल सुभोषचंद्र
252	040326	श्री दोशी राकेश	297	042115	श्री नागराजन श्रीधर
253	040350	श्री स्वामी शिवस्कंदन	298	042128	श्री बोरकर शैलेश दत्तात्रय
254	040352	श्री कोहली हरदीप स्वित्तरसिंह	299	042205	श्रीमती भट्ट संगीता सुंदरलाल
255	040361	श्री अय्यर वेन्कटेश्वरन रामकृष्णन	300	042235	श्रीमती टेकडे शर्मिला नारायण
256	040404	श्री रवि कपूर	301	042242	श्री पंड्या मनोज दुर्गाशंकर
257	040411	श्री भट्ट पंकज हरीलाल	302	042314	श्री छाबरा गुरधर सिंह
258	040439	श्री खानोलकर अरविंद श्रीपाद	303	042327	श्री महाजन मकरंद हरिभाऊ
259	040532	श्री निचाणी नरेंद्र त्रिभुवनदास	304	042350	श्री सदरुद्दीन अब्दुल करीम खेतानी
260	040585	श्रीमती ईरावती नितिन नार्वेकर	305	042366	श्रीमती विजयालक्ष्मी देवराजन
261	040640	श्री गाला नवीन रतनशी	306	042396	श्री कसबेकर महेश श्रीपाद
262	040664	श्री लोया राजेश मोतीलाल	307	042530	श्री लिमये उन्मेश माधव
263	040678	श्री जैन पूरणेन्दु	308	042587	श्रीमती मयकाबाला रशिदा फक्रुद्दीन
264	040939	श्री आहुजा देवीन्दर शामसुंदर	309	042603	श्री रेल्ले चेतन चतुरचंद्र
265	040961	श्री त्रिवेदी धर्मेरा ललितकुमार	310	042616	श्री जिवान कृष्ण अमलेन्दु मुखरजी
266	040994	श्री सेलबी सुनिल हेमी	311	042689	श्री मोडक कौशिक
267	041111	श्री शानबाग केतन गोपाल	312	042721	श्री निखिल मोहनदास गंगोली
268	041153	श्री जैन निर्मल चंद्र भंवरलाल	313	042745	श्री चोपरा राजेश
269	041195	श्री परीख राजेश कुमार	314	042875	श्री शाह सुजल प्रविणचंद्र
270	041211	श्री ठाकर प्रणव ज्योतिन्द्र	315	042884	श्री पटेल स्नेहल महावीर
271	041216	श्री खंडेलवाल मुकेश रामबाबु	316	042938	श्री विरा खुशालचंद हुंगरशी
272	041250	श्री गडा शांतिलाल नरशी	317	042946	श्री सभे समर प्रताप
273	041258	श्री मनसुखाणी विजय लछमनदास	318	043121	श्री कांगले अभय पुरुषोत्तम
274	041373	श्रीमती संजना टीना फरुख	319	043123	श्री कारखानिस संजिव श्रीकृष्ण
275	041428	श्रीमती शाह पूर्णिमा जितेंद्र	320	043142	श्री पागेदार सुनिल अरविंद
276	041447	श्रीमती वैद्यनाथन विजयालक्ष्मी	321	043146	श्री महाजन विनित गजानन
277	041455	श्री सूनावाला शियामक एडुल	322	043234	श्री बालकृष्णन रविशंकर के.
278	041499	श्री सुपेकर रेखिव पांडुरंग	323	043359	श्री काणे विश्वनाथ माधव
279	041524	श्री चतुर्वेदी विनोद कुमार	324	043377	श्रीमती बालिया रविता रमेश
280	041556	श्री पटेल दिपक कुमार इन्द्रवदनभाई	325	043422	श्री शर्मा सुनिल गिरवरनारिन
281	041592	श्री वैद्य प्रमोद बालाकृष्ण	326	043508	श्री राठोड महेंद्र गोविंदभाई
282	041640	श्रीमती शेठ्ठी सीनाळ्सी नागेश	327	043551	श्री कामथ सुरेश वासुदेव
283	041648	श्रीमती शेठ्ठी नयन मनोहर	328	043557	श्री शाह बिमल महेश
284	041684	श्री राजू जी.	329	043563	श्री ठुम्पर मनसुखलाल बच्चुभाई
285	041710	श्री. बालासुब्रमण्यन रंगनाथन अय्यर	330	043832	श्री नेविल सोली कारभारी
286	041725	श्री पारेख अरुणकुमार जयेंद्रकिशोर	331	044014	श्री माडगावकर निखिल विनय

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
332	044017	श्री राणे प्रविण कृष्ण	376	045724	श्री चेतन कुमार
333	044060	श्रीमती संगीता एस.	377	045748	श्रीमती सवायकर सुधा प्रादप
334	044146	श्री मर्चंट मुस्तफा ईस्माईलभाई	378	045825	श्री पाठक रविद्रनाथ देवेन्द्र नाथ
335	044243	श्री जयकृष्ण मूरजमल केलवानी	379	045848	श्री श्रोफ प्रकाश परसोतमदास
336	044244	श्री कामत नितिन नरसिंहा	380	045872	श्री विनय निखिल दिवाडकर
337	044245	श्री नेगी गोविंद सिंह	381	045874	श्री रजनीश कुमार जोशी
338	044253	श्री पल्लयुसेरिल कुरियन चेन्डी	382	045901	श्री महेश्वरी दिनेश कुमार
339	044284	श्री प्रवीण माणिक चंदिरामानी	383	045961	श्री ठाकुर श्रीपद चंद्रकांत
340	044321	श्री कुलकर्णी महेश दिगंबर	384	046006	श्री चोणकर संदेश रविद्रनाथ
341	044342	श्री दलाल परेशकुमार रमणलाल	385	046024	श्री आनंदकुमार गोविंदप्रसाद मुंद्रा
342	044390	श्री छाजड संजय सांचालाल	386	046036	श्री कोठारी चेतन कौशिकलाल
343	044428	श्री ठक्कर अनिलकुमार कांतिलाल	387	046109	श्री वर्गास जेम्स
344	044438	श्री कामाणी सुरम्या नविन	388	046144	श्री अय्यर केदार वेन्कटेश्वरन
345	044459	श्री चिन्नाथम्बी यादवर रवि	389	046151	श्री होन्कन मुकुंद माधव
346	044494	श्री पटेल शशिकांत शंकरलाल	390	046173	श्री बलदेव प्रशांत वसंतलाल
347	044545	श्री जय प्रकाश शर्मा	391	046190	श्री अनिल कुमार अग्रवाल
348	044554	श्री शाह भावेश एच.	392	046191	श्री वैद्य अजित वासुदेव
349	044634	श्री व्यास हितेश पी.	393	046193	श्री अनिल पीटर
350	044642	श्री शाह केयूर बच्चुभाई	394	046244	श्री शाह कल्पेश कांतिलाल
351	044792	श्री जैन प्रदिप कुमार	395	046277	श्री खुराना विपिन सुदर्शन
352	044799	श्री वसुधा एस. कोर्के	396	046289	श्री जसाणी शैलेश कांतिलाल
353	044800	श्री किशाकेपत मुरली संकरनकुट्टी	397	046324	श्री साईराम सुबमण्यन
354	044836	श्री यतिन अविनाश पटवर्धन	398	046400	श्री टिकोटकर हरिश नारायण
355	044864	श्रीमती याशिक विजयश्री विजेन्द्र	399	046430	श्री दीपक शांतिलाल लुनावत
356	044985	श्री मनोज गंगाधरन नायर	400	046435	श्री नौटियाल आलोक
357	045077	श्री दधीच संतोष	401	046471	श्री वाधवानो हिरेश
358	045088	श्री ठक्कर चिंतन अरविदभाई	402	046501	श्री चाक्कोवाला मोईझ सैफुद्दीन
359	045108	श्रीमती नीना जीन मोन्टेरो	403	046576	श्री सालगांवकर वैशाली सुरेश
360	045144	श्री कमलेश अरविंद पारससिस	404	046666	श्री बिल्लिमोरिया बुरझीन अरदेशिर
361	045148	श्री किरण शरद विचारे	405	046679	श्री शाह पराण द्वारकादास
362	045151	श्री वाडेकर महेश गोविंदराव	406	046682	श्रीमती कपूर संगीता राजेन्द्र
363	045171	श्री शैलेशकुमार मदनलाल वोरा	407	046742	श्री लाहाटी अरविंद
364	045174	श्री सुमिल जगन्नाथ सावंत	408	046747	श्री सामंत सुहास शांताराम
365	045184	श्री महादेवन ए.	409	046823	श्रीमती टंकसाली बिना कृष्ण
366	045261	श्री ब्रिज भूषण	410	046883	श्री गगलानी चेतनकुमार मनहरलाल
367	045284	श्रीमती सुगंधी गणेश	411	046997	श्री महेश निमेश रमणिकलाल
368	045323	श्री विर्क अरविंदर जतिंदर	412	047009	श्री सोनी अशोक राधेश्याम
369	045330	श्री सुर्वे आशिष मधुकर	413	047041	श्री गुप्ता सुरेन्द्र भगवती
370	045347	श्री पानगांवकर सुभाष राजकुमार	414	047092	श्री पटेल देवल केशवलाल
371	045445	श्री राजीव कुमार सिधल	415	047099	श्री रुमा चौधरी
372	045471	श्री आनंद रामन	416	047133	श्री दागमा आर्थर वूडरो
373	045524	श्री जरभेया जयेंद्र प्रहलादभी एआई.	417	047139	श्री गुप्ता संजय कुमार
374	045525	श्री करंदीकर नील विठ्ठल	418	047144	श्रीमती मनिषा नैमिश अनारकोट
375	045648	श्री कोटवाल अतुल अरविंद	419	047192	श्री प्रशांत सुभाष स्वादी
			420	047231	श्री उत्तरवार राजीव

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
421	047240	श्रीमती कोमुली सजीता कुमार	466	048979	श्री प्रदीप पुष्करमल गुप्ता
422	047245	श्री अग्रवाल संजय	467	048999	श्री जैन गणेश ब्रिजलाल
423	047263	श्री श्रीधर कस्तुरीरंगन गणपति	468	049016	श्री पटेल हेमंतकुमार चतुरभाई
424	047280	श्री भंडारी दीपक राजविर	469	049034	श्री ताटेड चंद्र प्रकाश
425	047291	श्री ईस्माईल दानिश	470	049078	श्री मुकादम नूरअहमद हसन
426	047358	श्री रंगवाला झुझार मुसुफ	471	049109	श्री शारदा मुकेश ललितशंकर
427	047372	श्री मोती किशनचंद लुधवानी	472	049228	श्री मेहुल जेशताराम सोमैया
428	047514	श्रीमती कापडिया मीना देवेन्द्र	473	049240	श्री मिस्त्री भरत रसिकलाल
429	047641	श्री बादला सुनिल	474	049350	श्रीमती राजलक्ष्मी त्यागराजन
430	047666	श्री शाह प्रणव चंद्रकांतभाई	475	049353	श्री हेम्माडी यादव रामा
431	047680	श्री मनोज नारायण	476	049365	श्री बंसल रवि कैलाश
433	047744	श्री सिराज मोहम्मद अली भावनगरवाला	477	049432	श्री अय्यर पंचपाकेसन सुब्रमण्यन
433	047818	श्री कल्याणी राजेश	478	049457	श्री तायशेट्टे नीता सुरेश
434	047835	श्रीमती आशु सुयश	479	049494	श्री नरेंद्र वितलंगिया
435	047912	श्री बसोपिया हसमुख नाथलाल	480	049520	श्री देवधर सचिन प्रभाकर
436	048037	श्री शाह उपेशकुमार केसरीचंद	481	049521	श्री अरुण मांगीलाल लुहारका
437	048116	श्रीमती मृदुला प्रणय श्रीवास्तव	482	049538	श्रीमती सचवानी कविता बालकृष्ण
438	048140	श्रीमती शेटी लीना कुंजन	483	049584	श्री बंदुकावाला फक्रुद्दिन जाविर
439	048177	श्री शाह निशिय विनोदभाई	484	049603	श्री शैलेषकुमार लालजीभाई प्रजापती
440	048224	श्री नायर शाजी करुणाकरण	485	049696	श्री सुनिल रामचंद्रन
441	048245	श्री महेंद्रसिंह फुलुभा राणा	486	049727	श्री पंड्या हितेश जसवंतराय
442	048292	श्री अग्रवाल राजेश मोतीराम	487	049750	श्रीमती विभूति रविशंकर
443	048310	श्री विराफ धनजीशो कात्रक	488	049753	श्रीमती मेरी ग्रेगरी
444	048329	श्रीमती शैला परेरा	489	049772	श्रीमती दलाल मिताली सुरेश
445	048347	श्री जानी बिलल अनिरुद्ध	490	049793	श्री प्रभुदेसाई आशुतोष विजय
446	048365	श्रीमती अय्यर गायत्री कृष्ण	491	049872	श्री नायर के. राजेश कुमार
447	048370	श्री वेंकटेश गणेशन	492	049899	श्रीमती संगिता विजयचंदजी बारडिया
448	048493	श्री रविंद्र सदानंद कामत	493	049927	श्रीमती हेमल मीरा डिसुझा
449	048499	श्री रूंगटा अतुल परमेश्वर	494	049982	श्रीमती मुक्ती देवांग बाबोसी
450	048505	श्री विचारे शुशील दत्तात्रय	495	050050	श्री वेंकटरामन टी.
451	048623	श्री पारेख जयेश नटवरलाल	496	050091	श्री गौतम दत्ता
452	048635	श्री कासलीवाल सतिष कंबारीलाल	497	050433	श्री दामाणी सुशिल कुमार
453	048728	श्री अय्यर विद्या बालकृष्ण	498	051009	श्री दास विश्वनाथ
454	048735	श्रीमती सिस्वावाला कोशा पराग	499	051889	श्री घटक सुधियो
455	048769	श्री कारखानिस आशिष श्रीकृष्ण	500	052133	श्री गोस्वामी प्रशांता कुमार
456	048790	श्री मुंघरा प्रमोद कुमार	501	052524	श्री भौमिक भास्कर
457	048800	श्री गुप्ता विनय विरेंद्र	502	052864	श्री अनंतन पी.
458	048831	श्री वेमुरी उदयभास्कर	503	053066	श्री यशवंत बी. जोशी
459	048839	श्रीमती जयंति रामदास	504	053644	श्री शैलेष कौशिक
460	048840	श्री करमबेलेकर सुहास राजेंद्र	505	054374	श्री पी. विश्वनाथ
461	048869	श्री शानबाग गंगाधर रघुविर	506	054480	श्री रघुपति एस.
462	048887	श्री एस. रमेश	507	054668	श्रीमती श्यामा मेनन
463	048902	श्री डिंपलकुमार नविनचंद्र शाह	508	054770	श्री नोएल एल्मेडा
464	048917	श्री ओके समिर शशिकांत	509	055477	श्री जोन कोशी
465	048937	श्री गुप्ता अजय मोहिंदरपॉल	510	055506	श्रीमती शोभा टी. एम. स्वामिनाथन

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
511	056057	श्री इंद्रजित बासु	556	075630	श्री संजय डागा
512	056113	श्री नरेन्द्र कुमार पति	557	075680	श्री शर्मा सुनिल कुमार
513	056309	श्री चक्रवर्ती सव्यसाची	558	076923	श्री हिरेन सोमा
514	056344	श्री पार्थ डे	559	077141	श्री अनिल कुमार बाजपेई
515	056355	श्री दत्ता अनुप	560	077315	श्री प्रकाश चंद
516	056654	श्री चक्रवर्ती संजय	561	077323	श्री भंडारी रुपेश
517	057147	श्री संजिव कुमार डुगर	562	077696	श्री लालबानी संजय
518	057737	श्री जैन कपिश	563	077719	श्री जाजोडिया निलेश कुमार
519	057971	श्री जयशवाल दिनेश कुमार	564	077725	श्री शाह हिमांशु कुमार
520	058093	श्रीमती जैन लीना	565	077736	श्री भणसाली बसंत
521	058321	श्री जैन संजीव	566	077790	श्री अनिल कुमार
522	058410	श्री अग्रवाल अशोक कुमार	567	078160	श्री प्रशांत गुप्ता
523	058514	श्री पटवारी निरज	568	078294	श्री पटवा मनोज
524	058951	श्री सेनगुप्ता स्वाधीन	569	078616	श्री भुतरा राजेश कुमार
525	059019	श्री अजय कुमार बैद	570	078706	श्री कासलीवाल ललित कुमार
526	059152	श्री कुंडु मोले	571	078849	श्री दोशी बी. शिखि
527	059193	श्री जॉर्ज लिजु कुरियन	572	078871	श्रीमती मुघरा शिल्पी
528	059291	श्री रूंगटा सुदीप	573	078929	श्री जैन अशिष
529	059442	श्री विकास कुमार जैन	574	079132	श्री भट्टार दिनेश कुमार
530	059622	श्री मोहपात्रा संजिव कुमार	575	079379	श्रीमती बाफना रशमी
531	060211	श्री बहेती पंकज	576	079695	श्री सोनी तरुण
532	060267	श्री जैन अंशुल	577	079780	श्री जैन मनिष
533	060468	श्री पोद्दार विवेक	578	079790	श्री महेश्वरी अक्षय
534	060652	श्री गुप्ता मनोज	579	079922	श्री जैन लोकेश कुमार
535	060870	श्री बालासराय महेंद्र	580	079975	श्री जैन दौलत राज
536	060960	श्री गुप्ता बिकाश चंद्र	581	080214	श्री शर्मा शिव कुमार
537	061403	श्री हरलालका अमित	582	081686	श्री बजाज मनोहर भवानदास
538	061681	श्री अरुण कुमार अग्रवाल	583	084257	श्री असीम राई
539	063808	श्रीमती किशोर कृति	584	084797	श्री श्रीधर बी.
540	063826	श्री ध्रुव कुमार शुक्ला	585	086140	श्री ए. बी. बी. रवि शंकर
541	070803	श्री जैन अशोक कुमार	586	087263	श्री उषल संजीव
542	071896	श्री अनिंद दत्ता	587	087987	श्री अग्रवाल राजीव
543	073125	श्री जयरामन श्रीनारायण	588	088888	श्री शिवरामकृष्ण सी. आर.
544	073132	श्री राजन पुरी	589	089949	श्री सुमित मलिक
545	073342	श्री प्रेमचंद परख	590	090757	श्रीमती गुगनानी आशु
546	073425	श्री भंडारी बलविर राज	591	091079	श्री पंकज धंधारिया
547	074282	श्री कपिल कुमार असेरी	592	091849	श्री भंडारी गौतम
548	074320	श्री माधुर अजय	593	092075	श्री लाल राम शंकर
549	074475	श्री दिपक कुमार	594	092701	श्री कृष्ण विजयशंकर
550	074573	श्री अरोरा विमल	595	093717	श्री मोहन
551	074640	श्री सिंहा राजेश	596	093874	श्री ललित कुमार
552	074939	श्री घटक मलय कुमार	597	094167	श्रीमती नीलू चौधरी
553	074968	श्री मुकेश मिश्रा	598	095583	श्री राहानी अनुज
554	075170	श्री राजेश भंडारी	599	095760	श्री मोहटा नवीन
555	075429	श्री विरेंद्र गर्ग	600	096632	श्री द्विवेदी अमनदीप

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
601	096767	श्री झंवार श्रुति शील	645	101306	श्री अयर रामनाथन वेंकटनायण
602	097183	श्री पेरिवाल श्याम सुंदर	646	101312	श्रीमती मेरानी रेशमा राधाकिशन
603	098586	श्री सिंह दिलीप	647	101314	श्री क्रेस्टो एन्थनी लोरेन्स
604	098803	श्री तिवारी शैलेंद्र कुमार	648	101316	श्री सावला भरत प्रेमचंद
605	099793	श्री गुप्ता अमित	649	101325	श्री मोटा विक्रम कांतिलाल
606	100053	श्रीमती पाठारे आशा पांडुरंग	650	101340	श्री जोशी दिपक हसमुखराई
607	100105	श्री गुप्ता निशिथ देवेंद्र	651	101347	श्री नलावडे विजय गेनुभाऊ
608	100130	श्री शेणोय जगदिश वासुदेव	652	101358	श्रीमती शाह राजवी एल.
609	100161	श्री जोशी मंदार विनायक	653	101378	श्री दिक्षित अतुल विद्याधर
610	100181	श्री भणसाली अतुल	654	101470	श्रीमती ज्योर्जिना कुरियन
611	100198	श्री मोवेदजी होमियार जिम्मी	655	101521	श्री कोठारी कल्पेश कीर्तिकुमार
612	100303	श्रीमती भाई शीला नारायण	656	101534	श्री भाविन एच. शाह
613	100367	श्री रविंद्र गणेश रजवाडे	657	101559	श्री मुर्गन हरिंद्रनाथ त्रिवेदी
614	100382	श्री राजगोपाल अशोक वेल्लुर	658	101595	श्री तुमुलुरी राममोहन
615	100392	श्री समिर दुष्यंत ठक्कर	659	101646	श्रीमती शाह शितलाबेन सेवकभाई
616	100435	श्री चोरा राजीव हंसकुमार	660	101718	श्रीमती सुष्मा नारायणन वरियार
617	100451	श्री दलाल समिर भूपेंद्र	661	101727	श्री अजित अरविंद मेनन
618	100510	श्री दिलिप कुमार सोनी	662	101795	श्री अयर सुंदरम गणपति
619	100523	श्री ईनानी प्रहलाद राई	663	101873	श्री अम्मन्ना सुधाकर क्रिस्टन
620	100562	श्री देव दिनेशकुमार उमेशचंद्र	664	101912	श्री चेतन नवीनचंद्र शाह
621	100566	श्रीमती शिल्पा पाठक	665	101935	श्री वाय. राजागोपाल शर्मा
622	100584	श्री शाह राजन सुरेश	666	101947	श्री मिस्किथ विनय ज्योर्ज
623	100631	श्री सुभाष रंगा कोठारी	667	102018	श्री निमेश महेशकुमार शाह
624	100698	श्री तुकाराम रघुनाथ रासम	668	102049	श्रीमती प्रभु केस्टेलिनो सीमा जोसेफ
625	100711	श्री नरेंद्र सुधाकर बर्वे	669	102086	श्री डायस जोस स्टीफन
626	100735	श्री पेशोतन रस्तम फरामजी	670	102135	श्री पराग हर्षदराय दोशी
627	100767	श्रीमती अजवानी सपना हिरानंद	671	102161	श्री लधा सुमित सुरेश
628	100769	श्री पोद्दार रविकांत विष्णुनाथ	672	102181	श्री बौदु दीपक
629	100772	श्री पाटील दीपक अनंत	673	102190	श्री भिडे मयुरेश श्रीराम
630	100804	श्री विजय पुरुषोत्तमदास अग्रवाल	674	102273	श्रीमती देसाई नयना श्रीधर
631	100822	श्री जैन सुरेश कुमार	675	102286	श्रीमती भिडे आरती शिरीष
632	100912	श्री पंचाल गौरव	676	102290	श्री सिंहा शशि
633	100915	श्री सय्यद अब्दुल अलिम रजबअली	677	102320	श्री खातु राजेंद्र सदानंद
634	100936	श्री अयर श्रीनिवासन गणेशन	678	102338	श्री जाखोरीया धर्मेन्द्र
635	100964	श्रीमती नेहा निशिथ शाह	679	102342	श्री दोशी देवेंद्र पी.
636	100998	श्री अग्रवाल अभिषेक बालकुमार	680	102360	श्री प्रताप राजाराम मोहिते
637	101035	श्री गोसर महेंद्र विसनजी	681	102377	श्री मेथी राजेश हरिलाल
638	101061	श्री सालियन सुजित जनार्दन	682	102410	श्री राहुल विजय
639	101077	श्री दलाल अतित किशोरचंद्र	683	102483	श्री पट्टरकिन मिलींद मनोहर
640	101143	श्री पुजारे विनायक श्रीराम	684	102578	श्रीमती अनिता सुधिर पानगांवकर
641	101154	श्री सुधिर मिनाक्षीसुंदरम	685	102604	श्री अतुल डोलरराय राजाणी
642	101203	श्री ठक्कर राजन विसनजी	686	102631	श्री बंगारी माया देवसिंग
643	101207	श्री देशपांडे गिरीश विष्णुनाथ	687	102636	श्री प्रजित वासुदेवन
644	101228	श्रीमती महदिवाला रफिक हाफिझ	688	102643	श्री सायरस ए. नरीमान

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
689	102660	श्री गुप्ता मनोज सतिष चंद्र	733	104155	श्री पंकज भणशाली
690	102741	श्री ऋषीकेश रमेशचंद्र त्रिवेदी	734	104191	श्री थडानी सितेश लछमन
691	102753	श्री मनसुखानी अजय भगवान	735	104215	श्री शाह रुचिर भद्रेशभाई
692	102777	श्री गुरुस्वामी सत्यनारायण	736	104224	श्री सोलंकी चेतन सिद्धराज
693	102804	श्री अय्यर राजगोपालन रघुपति	737	104244	श्री लोटके सचिन विद्याधर
694	102833	श्री कुमार हर्षद शेट	738	104259	श्री शर्मा संजय सबरमल
695	102843	श्री शितोले विनायक शहाजीराव	739	104301	श्री अग्रवाल आलोक राधे
696	102879	श्रीमती स्वाति सुनिल गाडगिल	740	104307	श्री शर्मा कल्पना सोहनलाल
697	102895	श्री शाह भावेश महेश	741	104347	श्री परिख तिलक हसमुख
698	102908	श्रीमती वेई डिपल मित्रादेव	742	104387	श्री शाह कमलेश नलिन
699	102988	श्री सुनिल कृष्ण वर्तक	743	104508	श्री फणसे संपदा उधय
700	103087	श्रीमती जैन आभा	744	104513	श्री संजय आलोक चक्रवर्ती
701	103105	श्री अजित विसेन्ट आल्फ्रेड सिक्वेरा	745	104517	श्रीमती रशमी के. अग्रवाल
702	103122	श्रीमती सिंह रागिणी राज किशोर	746	104538	श्री दमणिया विरल रजनीकांत
703	103175	श्री बारलोटा प्रमीशकुमार पारसमल	747	104548	श्री विजुल शांतिलाल गाला
704	103249	श्री माणकशाना मुझाश सोहराब	748	104556	श्री अजय अनिल कालरा
705	103300	श्री रोहित रतन टिब्रेवाला	749	104610	श्री शिरिष मनु व्यास
706	103361	श्री शाह हितेश चंद्रकांत	750	104616	श्री संतोष रूपाजी करमबेले
707	103420	श्री ललित कुमार भट्ट	751	104666	श्री निमेश बिपिनचंद्र शाह
708	103445	श्री कोरिया फ्रान्सीस एन्थनी	752	104697	श्री विशाल रामकिशन अग्रवाल
709	103454	श्री कानडे राजेश वामन	753	104716	श्री अल्पेश महेशकुमार दलाल
710	103476	श्री वर्षा नवनीतलाल शाह	754	104728	श्री चिंतन विपुल देसाई
711	103478	श्री गोयीवरेकर प्रसाद प्रभाकर	755	104759	श्री विशाल गिरिशचंद्र छप्पर
712	103482	श्री नायर मुरलिधरन बी.	756	104826	श्रीमती अनुराधा नीलकंठ देशपांडे
713	103549	श्री जैन कल्पेशकुमार एस.	757	104857	श्रीमती रजिता कुमारी
714	103589	श्री सुजित चेरियन	758	104860	श्रीमती स्नेहा संदिप महता
715	103623	श्री संदिप कुमार मणियार	759	104868	श्री चंद्रेश किशोरकुमार भट्ट
716	103713	श्री ढोलकिया निकुंज नितीन	760	104875	श्री तेजस सुमितलाल कोटडिया
717	103714	श्रीमती अमिन स्मिथा नारायण	761	104905	श्री रहिम तजुद्दीन धनानी
718	103718	श्री थेराडे प्रकाश आर.	762	104926	श्रीमती प्रिया दत्तात्रय तेंडोलकर
719	103745	श्री आह्ला चेतन किशोर	763	104943	श्री समीर मधूकर गाडगील
720	103748	श्री शाह देशल नलिनकुमार विरेद्र	764	104945	श्री अतुल हसमुखलाल पटेल
721	103906	श्री नवल किशोर जालन	765	104990	श्री एम. संतोष सुंदरम
722	103907	श्री पटेल सावन जयेन्द्रकुमार	766	105017	श्रीमती कामना राम गोपाल सिंह
723	103924	श्रीमती अग्रवाल श्वेता हरीशंकर	767	105019	श्री ललितकुमार दलसुखभाई गोहिल
724	103935	श्री सोमेश महेंद्र साबु	768	105133	श्री चेतन कृष्ण शेट्टी
725	103954	श्री तन्ना राजेश हिरालाल	769	105172	श्रीमती नादिया असगरअली जसाणी
726	103967	श्रीमती रेखा कांतिलाल शाह	770	105186	श्री धर्मेश जितेंद्र कोठारी
727	103979	श्री टेटनिस रोहन अरविंद	771	105356	श्री अग्रवाल शिल्पा ओमप्रकाश
728	104042	श्रीमती अग्रवाल सुनिता विजय	772	105362	श्री कल्पेश भासकर देसाई
729	104044	श्री गौरव अग्रवाल	773	105365	श्री निखिल घनश्याम दागा
730	104087	श्री हिसरिया संदिप शशिकुमार	774	105379	श्रीमती बसवी रमेशभाई जोशी
731	104123	श्री टेलिस अजय ऑगस्टीन	775	105404	श्रीमती होलिडे विन्नू
732	104127	श्री मजिठिया अपूर्व सुदर्शन	776	105413	श्री चेतन पंकज शाह

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
777	105489	श्री रमेश मुद्गु शेटी	821	106679	श्री. अमित कुमार खान
778	105501	श्री बिरेन हसमुखभाई शाह	822	106682	श्री. नविन सुंदरदास जगेशा
779	105534	श्री नरसिंहा नामदेव लोटलीकर	823	106740	श्री. नविन बजरंगलाल शर्मा
780	105538	श्री पारस केसरीचंद शाह	824	106767	श्रीमती अश्विनी रामचंद्र पाटिल
781	105541	श्री परेश हरिदास शाह	825	106771	श्रीमती वैशाली शांतिकुमार कापडिया
782	105570	श्री अमर अरुण हरोलीकर	826	106772	श्री. यज्ञाद केरसी कूपर
783	105582	श्री समीर रामचंद्र जठार	827	106795	श्री. दिपक दिडवानिया
784	105584	श्री. सतिष कुमार पंचोली	828	106861	श्री. राकेश किशोर भानुशाली
785	105595	श्री. पीयूष कुमार जैन	829	106883	श्रीमती ठकरार पारुल भरत
786	105614	श्री. देवांग हसमुखभाई शाह	830	106921	श्रीमती विद्या वेंकटरामानी
787	105657	श्री. संघवी निमिष चंपक	831	106943	श्री. हर्षवर्धन भवानीशंकर कौशिक
788	105674	श्री. संदिप सुरेश अग्रवाल	832	106950	श्री. चौधरी अनुप
789	105687	श्री. राजकुमार जी. सोमानी	833	106963	श्रीमती पारुल सी. दोशी
790	105689	श्री. विजयन गोविंद चोरिअर	834	106990	श्री. संजा समिर पांडा
791	105717	श्री. महेता हतेश	835	107010	श्री. अविनाश रमेश शेटी
792	105726	श्री. सुकुमार सुरांत जैन	836	107034	श्री. भंडारी अविनाश
793	105745	श्री. नाइक श्रीकृष्ण जयराम	837	107042	श्रीमती सुमित्रा रमेश
794	105760	श्री. दर्शन निरंजन भट्ट	838	107048	श्री. उमेश एस. खुशालानी
795	105857	श्री. चिराग घनश्याम ठक्कर	839	107058	श्री. अग्रवाल मनोज
796	105875	श्री. वाही रोहित	840	107073	श्री. राजेंद्र कुमार जैन
797	105888	श्री. अगल सुशिल	841	107109	श्री. चतुर्वेदी विशाल
798	105917	श्री. शेख नूर मोहम्मद अब्दुल हक	842	107124	श्री. यतिनकुमार डी. डोलिया
799	105922	श्री. योगेश के. म्हासलकर	843	107132	श्री. अतुल सुभाषचंद्र संघवी
800	105927	श्री. जोगिन नलिनभाई शाह	844	107189	श्री. भावेश लीलाधर उडेचा
801	105938	श्री. विक्रम चंद्रकांत महेता	845	107220	श्री. मिलिंद एकनाथ शिंदे
802	105958	श्री. रायचुरा धर्मेन्द्र जितेंद्र	846	107252	श्री. हर्ष रणजित आचार्य
803	105980	श्री. तातीपति सरसेधर राव शास्त्री	847	107284	श्री. चिराग जनार्दन दोशी
804	106062	श्री. परीक राजेश	848	107308	श्री. जगुभाई भावसार परेश
805	106108	श्री. कटारिया पीयूष	849	107365	श्री. अनुपम प्रताप गोरडिया
806	106164	श्री. सिंधु करुणाकरन कारया	850	107441	श्री. चेतना शरदचंद्र शाह
807	106253	श्री. शाह अपूर्व चंद्रकांत	851	107482	श्री. अमित विनय घटनेकर
808	106272	श्री. रोहित कानजीभाई गोहिल	852	107514	श्री. हकानी हितेश
809	106318	श्रीमती प्रतिभा माधवन	853	107580	श्री. शंकर राधाकृष्णन
810	106376	श्री. केतनकुमार सुभाषचंद्र शाह	854	107619	श्री. परेश हेमेंद्रभाई अनाम
811	106382	श्रीमती गीता कृष्णानंद कापरी	855	107649	श्री. गौरांग जितेंद्रभाई चौकसी
812	106399	श्री. समिर शशिकांत हेमाणी	856	107670	श्री. दिक्षीत दिलिप शाह
813	106491	श्री. गिरिशकुमार राधेश्याम फलोेर	857	107709	श्रीमती क्लेरा नीना कवाडोस
814	106543	श्री. सचिन चंपालाल मुधा	858	107736	श्री. जितेंद्र अनिल पंडित
815	106552	श्री. भट्ट सुंदरेश	859	107762	श्री. शैलेश दयालजी पटेल
816	106556	श्री. पुनितकुमार बालकृष्ण शेटी	860	107775	श्रीमती उशा विश्वनाथन
817	106628	श्री. दर्शन अनिल शाह	861	107796	श्री. हितेश फतेहचंद जैन
818	106633	श्रीमती निकिता मथुरादास श्रेष्ठा	862	107835	श्री. अग्रवाल संदिपकुमार
819	106639	श्री. जिज्ञेश घनसुख ठक्कर	863	107841	श्री. ताहेर कुरबानहुसैन सईद
820	106675	श्री. इम्तियाझ ई. नार्गोलिया	864	107847	श्रीमती प्रीती फतेहचंद जैन

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
865	107853	श्री. दिनेश वशदेव शर्मा	909	109183	श्रीमती निता किर्तीकांत शाह
866	107873	श्रीमती योगीता जयवंत साळवी	910	109217	श्री. शिल्पा मधुकर शाह
867	107880	श्री. जयदीप कुमार पी.	911	109226	श्री. शैलेष राम पुत्रन
868	107952	श्री. फैझल निसार कादरी	912	109257	श्री. केतन मोदी
869	108011	श्री. कमलेश वाय. जोशी	913	109261	श्री. सुमाबाला विश्वेश्वरदु कसिनाथुनि
870	108034	श्री. अनिल कुमार अग्रवाल	914	109280	श्री. बी. विजयालक्ष्मी
871	108118	श्री. समीर ज्योतिंद्र शाह	915	109302	श्री. अभिजित मधुकर चौधरी
872	108131	श्री. अमित मनोहर फडके	916	109309	श्रीमती प्राची विनायक नाइक
873	108156	श्री. कल्पेशकुमार अशोकभाई शाह	917	109324	श्री. महेश परमेश्वरन
874	108208	श्री. परीख विपुल बी.	918	109336	श्री. देवदत्त सिद्धार्थ राजाध्यक्ष
875	108247	श्री. यतिन शरद गांधी	919	109370	श्री. निसर्ग पंकज जरीवाला
876	108265	श्री. बलराज हिमतलाल खडखर	920	109407	श्री. गौतम मागो
877	108278	श्री. मेहुल दिलीप शाह	921	109418	श्री. मनिष छाबरा
878	108337	श्री. डांगी महावीर	922	109453	श्री. कल्याणी किशन राठोड
879	108340	श्री. वर्मा प्रेमसिंह	923	109479	श्री. जयसिंह विक्रम सुचक
880	108377	श्री. अभिजित प्रभाकर दांडेकर	924	109521	श्री. बतुल फक्रुद्दीन सावलीवाला
881	108434	श्रीमती शोभा प्रभाकरन नायर	925	109523	श्री. कशीफ याह्या हुसैन
882	108445	श्रीमती मिता अरुण कुमार मोदी	926	109524	श्री. कुंजन राजेशभाई महेता
883	108452	श्री. दर्पण संदिप झवेरी	927	109621	श्री. सचिन प्रविण पटेल
884	108549	श्रीमती निशिता रमेश मोदी	928	109646	श्री. केतन धिरेन्द्र मर्चंट
885	108582	श्री. संतोष कन्हैयालाल व्यास	929	109720	श्री. इंदर जीत
886	108621	श्री. अनिरुद्ध शंकर मुण्गेकर	930	109743	श्री. पीयूष जैन
887	108647	श्री. मोहम्मद असिम ख्वाजा	931	109758	श्री. शिल्पा शामलाल कारवा
888	108659	श्री. मुरारका अनुपम	932	109766	श्रीमती प्राची केतन पेडसे
889	108705	श्रीमती अनघा सूर्यकांत गजरे	933	109769	श्री. श्याम सुंदर द्वारकानी
890	108769	श्री. तेजस सूर्यकांत दोशी	934	109776	श्री. सचिन भरत डीसा
891	108783	श्री. योगेश शरद जाशी	935	109903	श्री. प्रफुल्ल पन्नालाल सोमाणी
892	108789	श्री. विनित लखोटिया	936	109915	श्री. शैलेष मधुकर साठे
893	108790	श्रीमती अदिति वसंत मराठे	937	110038	श्री. मनिष विनोदकुमार लठ
894	108906	श्रीमती मेघना घनश्याम ठाकर	938	110042	श्री. अब्दुल समद पटेल
895	108918	श्री. उमेश ओमप्रकाश बियानी	939	110047	श्री. प्रदिप हस्तुखलाल जैन
896	108922	श्रीमती प्रीया महेश्वरी	940	110083	श्री. हर्षदा प्रदिप शाह
897	108927	श्रीमती प्रज्ञा सुनिल टंकसाळे	941	110101	श्री. योगेश रमेश राजपूत
898	108930	श्री. आशिष विजय जैन	942	110115	श्री. राजेश चंद्रकांत भाटे
899	108948	श्रीमती टीनल कामेश्वर भार्गव	943	110116	श्री. श्रीराम नानासो खोत
900	108962	श्री. श्यामसुंदर मनोहर बालिगा	944	110130	श्री. अमर विकासराव भोसले
901	108980	श्रीमती शर्करी विक्रम दातार	945	110155	श्री. संदिप अरुण नेने
902	109029	श्री. राज ताहैरी	946	110165	श्रीमती राधा श्रीनिवासन अय्यर
903	109030	श्री. गोवर्धन पन्ना सिंह	947	110192	श्री. देवसी डित्री पुष्पुसेरी
904	109042	श्री. सुनिल बोहरा	948	110194	श्री. दुष्यंत दिलीप नवलख
905	109056	श्री. केदार अनंत पटकी	949	110220	श्री. सुमेश सदानंद राव
906	109089	श्रीमती कुमुदिनी प्रमोद हटकर	950	110230	श्री. सिद्धार्थ कर
907	109130	श्री. मनन मोहनबच भंडारी	951	110237	श्री. राधा जे. टिब्रेवाला
908	109149	श्री. जिगर वल्लभजी देडिया	952	110238	श्री. कपिल विजयसिंह सेठिया



क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
953	110243	श्री. शेखर राममूर्ति	997	111607	श्री. वैभव विष्णुदास तोतला
954	110251	श्री. राधिका रामन	998	111608	श्री. जयप्रकाश ओमप्रकाश अग्रवाल
955	110304	श्री. विशाल बी. तोरका	999	111627	श्री. राकेश हेमराज संघवी
956	110351	श्री. निखिल दिलिपकुमार मुता	1000	111643	श्री. निखिल डॉन वाझ
957	110378	श्रीमती अजय छोटेला ल पासो	1001	111681	श्री. दिव्येश चंदुलाल शाह
958	110385	श्री. अभिदा अरुण दक्षिणकर	1002	111709	श्रीमती रश्मी दिनेश राठी
959	110386	श्री. प्रकाश लामसल	1002	111741	श्री. अशोक लखमशी छेडा
960	110389	श्री. मोतिराम श्रीचंद मोहनानी	1004	111830	श्री. गौतम रवि नारायण
961	110470	श्रीमती कविता पाई	1005	111847	श्री. मुकुंदा श्रीराम मानकर
962	110501	श्री. जिज्ञेश दिनेश ठक्कर	1006	111862	श्री. विनय जैन
963	110518	श्री. मनिष उत्तमचंद जैन	1007	111863	श्री. सम्राट अशोक चौधरी
964	110540	श्री. महेंद्र कृष्ण सोलार	1008	111865	श्री. थोमस जोस पल्लीथानम
965	110544	श्री. अलिफिया जुझर मामाजी	1009	111935	श्री. हिरेश सोधालिया
966	110613	श्रीमती सिम्सन के. बी. देवसी	1010	111944	श्री. संजय महेंद्रकुमार थडेकर
967	110632	श्री. राजेश वसनजी गलिया	1011	111949	श्री. गगनकुमार कन्हैयालाल लालबानी
968	110659	श्री. मिहिर मोहन वैद्य	1012	111986	श्री. सज्जादहुसैन मोहम्मद सारंगपुरवाला
969	110663	श्री. सुमित तुलजाराम सिरनानी	1013	112031	श्री. इंद्रनिल मलयकुमार इंद्रानी घोष
970	110716	श्री. उत्कर्ष नियोगी पटेल	1014	112041	श्रीमती सारिका केतन जोगलेकर
971	110825	श्रीमती श्रुती आनंद कचोले	1015	112065	श्री. चेतन सिताराम आहिर
972	110844	श्री. कैलाश कुमार कतरुवा	1016	112067	श्री. मितेश जितेंद्रकुमार रामानी
973	110883	श्री. कौस्तुभ सतिष चौबल	1017	112127	श्री. अमित जयंतिलाल शाह
974	110903	श्री. अमितकुमार लल्लुभाई मिस्त्री	1018	112219	श्री. राजेंद्र बलदेव सोलंकी
975	110919	श्रीमती दिप्ती देवेन्द्र दोशी	1019	112241	श्री. विकास सुभाष चतुर्वेदी
976	110964	श्री. विकास पिट्टी	1020	112245	श्री. प्रमोद गर्ग
977	110989	श्री. अम्मासी नोमानभाई रंगवाला	1021	112284	श्रीमती मिता केयूर शाह
978	111012	श्री. जोसेफ थोमस कुरामनिल	1022	112362	श्री. नितिन प्रभाकर कबाडी
979	111015	श्रीमती वृषाली विभास खोपडे	1023	112455	श्री. अंकित रश्मिकांत किनारीवाला
980	111039	श्री. मोहम्मद रज़ा सुलतानअली धीवाला	1024	112459	श्री. मयुर दत्तात्रय तेरेदेसाई
981	111084	श्रीमती पूर्वी अशुमन दुतिया	1025	112460	श्री. पुनित सिंघवी
982	111095	श्री. निखिल दिपक जापे	1026	112472	श्री. विजय अर्जुनदास घाबला
983	111164	श्री. संजय विश्वनाथ चौधरी	1027	112491	श्री. आनंद अरुण लघा
984	111170	श्री. हेमल प्रविणभाई दवे	1028	112522	श्री. नम्रता नरेश कांबा
985	111242	श्री. जगदिश कुमार जयस्वाल	1029	112678	श्री. आनंद सुरेश गुप्ता
986	111278	श्री. विरल जितेंद्र ठक्कर	1030	112692	श्री. साई सुनिल वेंगुगोपाल पानगनामामुला
987	111323	श्री. पायल अग्रवाल	1031	112712	श्री. आशिष चतुर्वेदी
988	111338	श्री. मिनाझ मोहम्मद खातिव	1032	112773	श्री. अभिषेक अग्रवाल
989	111419	श्री. हुसैनअली अमीरअली छारणिया	1033	112774	श्री. रजनीश सत्यनारायण शर्मा
990	111515	श्रीमती रेखा कुंजन शेठो	1034	112878	श्री. राजीव सूरज शाह
991	111522	श्रीमती शिल्पी रतनलाल अग्रवाल	1035	112882	श्रीमती श्रीलेखा मणियन
992	111542	श्रीमती सुधा हेमंत प्रजापती	1036	112893	श्री. नविन कुमार जैन
993	111549	श्रीमती दीपा विश्वनाथन	1037	112902	श्री. नीरव किरीट पुजारा
994	111550	श्री. रिशी बोब्रा	1038	112957	श्रीमती शीलु एन्टो
995	111567	श्री. कश्यप रजनिकांत पारेख	1039	113058	श्री. प्रशांत कान्ति पूजाणी
996	111580	श्री. स्वस्तिक जैन	1040	113081	श्रीमती कोमल विमलेश मितल

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
1041	113114	श्री. जगदिश रमेश मेघनानी	1084	113739	श्री. निलेश जयंतिलाल शाह
1042	113120	श्री. योगेश सोहनलाल कोठारी	1085	113790	श्री. वैभव कुमार अग्रवाल
1043	113121	श्री. मनिष कुमार रांका	1086	113847	श्री. निखिल विनोद माथुर
1044	113130	श्री. राजेशकुमार शितला प्रसाद सिंह	1087	113916	श्रीमती निलुफर तेहमतान जुंगलवाला
1045	113148	श्री. चिराग चंद्रकांत संपत	1088	113950	श्री. अनिलकुमार इश्वरलाल ठक्कर
1046	113165	श्री. स्नेहित सीताराम शेट्टी	1089	113985	श्री. सागर सुरेश दाणी
1047	113168	श्री. शिरीष अजितभाई रुपारेल	1090	114015	श्री. निलेश अरविंद ठक्कर
1048	113171	श्री. दिनकर दत्तात्रय माने	1091	114056	श्री. संदिप बिपिनभाई वसावडा
1049	113177	श्री. संदेश गोपाल पोटकर	1092	114119	श्री. सोमेश देविदीन चौरसिया
1050	113196	श्री. मनजित जितेंद्रभाई कोठारी	1093	114122	श्री. आशिष गोयल
1051	113205	श्री. संदिप कुमार राठी	1094	114147	श्री. रोहितवशा
1052	113231	श्री. पुष्पक मुकेशकुमार गांधी	1095	114151	श्री. सतिष कुमार जैन
1053	113244	श्री. रोहन रविंद्र शिवडेकर	1096	114159	श्री. अनुप विजयकुमार अग्रवाल
1054	113258	श्री. हिरेन कन्हैयालाल सुथार	1097	114163	श्री. सोनाली शंकर उन्नीकोचन
1055	113299	श्री. राणु राजेश भंडारी	1098	114214	श्री. आनंद रामचंद्र यादव
1056	113326	श्री. मयुर प्रभु मेलानातुरु	1099	114230	श्री. सरोज कुमार खुटिया
1057	113334	श्री. सचिन सोडानी	1100	114266	श्री. कैलाश सन्मुखदास आहुजा
1058	113345	श्री. दर्शक प्रदिप भगत	1101	114276	श्री. अब्बास हातिम गिलिटवाला
1059	113395	श्री. ऋषभ सुमनिलाल गांधी	1102	114297	श्री. संजय सत्यपाल अरोरा
1060	113446	श्री. मनिष मनु व्यास	1103	114327	श्री. मिलिंद प्रमोद वाईरकर
1061	113486	श्रीमती नयना विजयकुमार चावला	1104	114411	श्री. एच. ए. आर. केशरवानी
1062	113503	श्रीमती किर्ती आनंद सावंत	1105	114414	श्री. विनोद रामअवतार सोडानी
1063	113508	श्रीमती राजालक्ष्मी डी.	1106	114508	श्री. मंगेश उदेसिंग यादव
1064	113546	श्री. अमित ओमपकाश गुप्ता	1107	114546	श्री. दर्शन हसमुख शाह
1065	113584	श्री. जिज्ञेश मुकुलकुमार याज्ञिक	1108	114576	श्री. दिलिप लालचंद मोहनानी
1066	113587	श्री. प्रमोद पी. डांगी	1109	114587	श्री. अश्वनीकुमार सुशिलकुमार लधा
1067	113593	श्री. उदय अरुण नंदा	1110	114672	श्री. विशाल विजय सराफ
1068	113605	श्री. अजय जैन	1111	114678	श्री. राजेश ब्रिजलाल धिरवानी
1069	113613	श्री. शितल कुमार अग्रवाल	1112	114725	श्री. आकाश कंवरलाल बाफना
1070	113627	श्री. पूजा कन्हैयालाल पोपली	1113	114747	श्री. भावेशकुमार रतिलाल छेडा
1071	113632	श्री. मनिष अग्रवाल	1114	114800	श्री. निलेश हरि कुटे
1072	113639	श्री. दिनेश द्वारकादास भायाणी	1115	114859	श्री. नसरीन मोहम्मद ईस्माईल शेख
1073	113644	श्री. रितेश भारतिया	1116	114904	श्री. गौरव रजनिकांत शास्त्री
1074	113650	श्री. देविदास कृष्ण शेट्टी	1117	114938	श्री. सत्येन सुरेश जैन
1075	113651	श्री. बसंतकुमार किशनगोपाल पोरवाल	1118	114944	श्री. जितेंद्र कुमार बारोला
1076	113654	श्रीमती. प्रिती विजय शर्मा	1119	114963	श्री. शरद एस. मोहनोत
1077	113662	श्री. प्रशांत प्रेम जोशी	1120	115006	श्रीमती झोहरा एस. लोखंडवाला
1078	113664	श्रीमती सुषमा केसरदेव पानसरी	1121	115040	श्री. मुर्तुजाभाई अब्बास भाई जावडवाला
1079	113668	श्री. आलेख जगन्नाथजी गांधी	1122	115094	श्री. भाविनकुमार छगनलाल कंतारिया
1080	113676	श्री. मयुरी दिपक पोतदार	1123	115095	श्रीमती रितु रामेश्वर लाल स्वामी
1081	113678	श्री. विरल भरतकुमार त्रिवेदी	1124	115108	श्री. सुमंता कुमार नायक
1082	113704	श्रीमती प्रिती चेतनकुमार बोरकर	1125	115110	श्री. भरत एस्सान रामनानी
1083	113708	श्री. राहुल रत्नाकर पुंडे			

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
1126	115124	श्री. मंदार उदय गौरी वाढवकर	1169	116147	श्री. राघव सुरेंद्र कुमार राशि खुल्लर
1127	115150	श्री. नीरज नवीनकुमार जैन	1170	116159	श्री. अभिषेक अशोक अग्रवाल
1128	115161	श्री. अंकुर खेतावत	1171	116191	श्री. जिगर ललित वाघे
1129	115226	श्री. दिव्यांग दिनेश देसाई	1172	116234	श्री. कल्पेश रतिलाल चावडा
1130	115231	श्री. रिनाल्डो लुडो चेष्टियार	1173	116244	श्री. अनिल चोरा
1131	115237	श्रीमती खालिद मेहमूद अहेमद शेख	1174	116292	श्री. अरुण लघुराम पुरोहित
1132	115241	श्री. ऋषीकेश श्रीवल्लभ मंत्री	1175	116346	श्री. गौतम चिनिवर्ध
1133	115288	श्री. विनित उमेश गुप्ता	1176	116368	श्रीमती प्रियंका मांगिलाल जैन
1134	115337	श्री. आदित्य जितेंद्र गांधी	1177	116372	श्री. मिलिंद बाबाजी वाडेकर
1135	115344	श्रीमती क्षितिज गणेश रेलकर	1178	116468	श्री. रवि शिवणदास खुबचंदानी
1136	115382	श्री. अंकितकुमार विनोदभाई शाह	1179	116485	श्रीमती लक्ष्मी नटराजन
1137	115386	श्री. मनोज कुमार भानावत	1180	116493	श्री. विक्रम अशोक अलका बम्बर
1138	115393	श्री. राहुल धनसुखभाई देसाई	1181	116500	श्रीमती माधवी जयंत मार्कडे
1139	115399	श्री. कपिल पानसरी	1182	116503	श्री. कुमार सुरेशकुमार शाह
1140	115403	श्री. पंकज हरेश माणिक	1183	116505	श्री. मितेश अर्जन गडा
1141	115405	श्रीमती ज्योति संजय चौधरी	1184	116520	श्री. विनय स्वामिनाथ अय्यर
1142	115424	श्री. उज्जवल कुमार जैन	1185	116540	श्री. अमोल भालचंद्र वरांगे
1143	115456	श्री. नरेशकुमार सत्यपाल मिश्र	1186	116562	श्री. आनंद सुकलाल जैन
1144	115470	श्रीमती भिति कमलाकर थोपटे	1187	116563	श्री. शिव कुमार तोशनीवाल
1145	115495	श्री. कृष्ण कुमार डारगर	1188	116564	श्री. मुक्ती बम
1146	115500	श्री. आशिष नासा	1189	116580	श्री. पीयूष खेराडा
1147	115539	श्री. कार्तिक सुब्रमण्यन अय्यर	1190	116602	श्री. दर्पण जगदिश महेता
1148	115587	श्री. सागर अनिल धर्माधिकारी	1191	116697	श्री. भरत किशनचंद लालजानी
1149	115595	श्री. जतिकुमार किरिटकुमार दोशी	1192	116843	श्री. प्रतिक कन्हैयालाल बंसल
1150	115601	श्री. मिलन वासुदेव देसाई	1193	116888	श्री. सुमित कुमार सिंघाणिया
1151	115622	श्री. अजय दामोदर उपाध्याय	1194	116905	श्रीमती पूजा मुरारीलाल राशि झुनझुनवाला
1152	115666	श्रीमती शेता नरेंद्रकुमार सिबल	1195	116943	श्रीमती नेहा क्षितिज गुप्ता
1153	115683	श्री. नितेश सुरेशचंद्र शर्मा	1196	116946	श्री. संकेत शिरिष मोकाशी
1154	115734	श्री. धिरज अमरतभाई एटेल	1197	117016	श्रीमती श्रद्धा मुकुंद आंबर्डेकर
1155	115804	श्री. पंकज बलदुआ	1198	117028	श्री. अमेय प्रमोद साखलकर
1156	115831	श्री. संतोष कुमार अग्रवाल	1199	117040	श्री. करमजीत सिंह
1157	115865	श्री. मानस प्रमोद केतकर	1200	117066	श्री. तसवी पंकज शाह
1158	115873	श्री. नितिश सहाय पांडे	1201	117104	श्रीमती सुरेखा धनंजय शेट्टी
1159	115882	श्री. सचिन जनार्दन करमकर	1202	117106	श्री. जितेश रामकृष्ण मिरजोलकर
1160	115887	श्री. शिल्पी आलोककुमार सिंहा	1203	117110	श्री. चंद्र शेखर सोमनाथम एस. मंथा
1161	115901	श्री. प्राची रमेश बडजाते	1204	117243	श्री. गौरांग मनहर गांधी
1162	115907	श्री. विनिश महेशरी	1205	117272	श्री. अखिल रुडोल्फ डिसुझा
1163	115971	श्री. भर्देन्द्र मोहनलाल मनबाना	1206	117314	श्री. मनन शरद जैन
1164	116041	श्री. हिरल परिमल देसाई	1207	117318	श्री. फिरोज़ आलम खान
1165	116043	श्रीमती जुली आईसेक	1208	117438	श्री. गौतम बालकृष्ण तारकुंडे
1166	116048	श्री. रागुन बिजेंद्र अहलुवालिया	1209	117447	श्री. राधिका संजिव आपटे
1167	116061	श्री. प्रणव सुरेश संघवी	1210	117495	श्री. अमित राधा किशन खंडेलवाल
1168	116126	श्री. निखिल कुमार रूपचंद जैन	1211	117567	श्री. अर्शद अली

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
1212	117576	श्री. मेहुलकुमार महेन्द्रकुमार शाह	1255	119089	श्री. राकेश रामलाल जगोतिया
1213	117594	श्री. सुजाता क्रिष्णन	1256	119116	श्रीमती श्रुती शिरिष व्यास
1214	117628	श्री. सावरमल अग्रवाल	1257	119215	श्री. हरिप्रसाद शांताराम भट
1215	117635	श्री. दिपेन रमेश शाह	1258	119220	श्री. राहुल चंदर मोहन वीना खन्ना
1216	117637	श्री. अंकुर विनोद कंवर	1259	119233	श्री. विवेक प्रेम प्रकाश मिश्रा
1217	117700	श्री. अभिजित अनिल सोनटक्के	1260	119258	श्री. दिलिप किशोरकुमार ममता पंजवानी
1218	117731	श्री. सुमित नविनचंद्र महेता	1261	119277	श्री. विरेश कन्हैयालाल भागचंदानी
1219	117744	श्री. अब्बास असगरअली मस्कती	1262	119278	श्री. ललितकुमार विठ्ठलदास रायथाथा
1220	117864	श्री. अनुराग भंडारी	1263	119306	श्रीमती सोमया जे.जे.
1221	117909	श्री. योगेंद्र भाईलाल शाह	1264	119376	श्री. संजय जमनभाई मंजुलाबेन सावलिया
1222	118168	श्री. आलाप नरेशकुमार कोन्द्रेक्टर	1265	119397	श्री. प्रणव रजनिकांत ठक्कर
1223	118169	श्री. देवाशिष बिधान चंद्र रोय	1266	119416	श्रीमती पायल अरुण कानिटकर
1224	118187	श्रीमती शितल नारायण सारंग	1267	119524	श्री. नारायण भायेर
1225	118191	श्री. प्रियांक जगमोहन झालानी	1268	119561	श्री. यश विजयसिंह सेठिया
1226	118281	श्री. अंकुर जैन	1269	119581	श्रीमती. दीप्ती गोपीनाथन हिल्डा मेनन
1227	118286	श्री. स्मिता रत्नाकर दंतकाले	1270	119591	श्रीमती श्वेता अमित महेता
1228	118306	श्री. अंकुर मुंद्रा	1271	119614	श्री. सतचित मुकुंद सागडे
1229	118350	श्री. विनय कुमार इनानी	1272	119637	श्री. राहुल महेता
1230	118356	श्री. अचल बच्चुका	1273	119661	श्री. तनुज मिश्रा
1231	118362	श्री. सोनु रमेश शर्मा	1274	119709	श्री. जतिन दिनेश मर्चंट
1232	118384	श्री. परिंदकुमार जयेशकुमार शाह	1275	119723	श्री. केतन गंभीरदास शाह
1233	118446	श्री. पराग कमल शाह	1276	119750	श्रीमती डिपल निखिल खेतान
1234	118451	श्री. कौशल चंद्रकांत शाह	1277	119755	श्री. नितिन मदनलाल झंवर
1235	118540	श्री. नीरव लक्ष्मीचंद मामणिया	1278	119787	श्रीमती सिंधिया वालेरी लुईस परेरा
1236	118548	श्री. मनिष नाथमल जैन	1279	119797	श्री. धवल दिनेशचंद्र राडिया
1237	118561	श्री. रोहित मारू	1280	119971	श्रीमती आकांक्षा अभिजित देशपांडे
1238	118586	श्री. संजय कुमार शाह	1281	120003	श्री. अंकुर पवन कुसुम अग्रवाल
1239	118606	श्रीमती हमिदा सुलतानअली चरणिया	1282	120112	श्रीमती हरिता आश्वान सोहनी शाह
1240	118645	श्री. मिहिर प्रेमचंद गुप्ता	1283	200952	श्री. जयप्रकाश एन.
1241	118676	श्री. कपिल गुप्ता	1284	201145	श्री. ललित कुमार तापडिया
1242	118724	श्री. विकास सुरेश पानसरी	1285	201641	श्री. बोनी जोसेफ
1243	118757	श्री. रिशी राठी	1286	202062	श्री. जी. एस. लक्ष्मी नारायणन
1244	118764	श्री. चेतक शेषमल लालबानी	1287	202817	श्री. पराग अश्वीन कापडिया
1245	118818	श्री. विशाल श्यामप्रसाद मिश्रा	1288	203918	श्री. पी. के. सदागोपन
1246	118839	श्री. ख्याति अशोक दत्तानी	1289	204590	श्री. के. सेविल वेल
1247	118850	श्रीमती पूजा ओमप्रकाश शर्मा	1290	204791	श्री. शोधर रेड्डी बी. सी.
1248	118904	श्री. कौशिक क्रिष्णन	1291	204908	श्री. सोनाली बलसे
1249	118906	श्री. अमोल रमेश घोगे	1292	204969	श्री. चालुवाडी नारायण राव
1250	118910	श्रीमती झेहरा सदरुद्दीनभाई धमाणी	1293	205149	श्री. वरालक्ष्मी बी.
1251	118944	श्री. सुजेश जगदिश शर्मा	1294	205344	श्री. सिवरामक्रिष्णन आर.
1252	119030	श्री. विकास झुनझुनवाला	1295	205358	श्री. सुरेश जे.
1253	119036	श्रीमती नेहा अशोक अरोरा	1296	205373	श्री. कामेश्वर राव कोडावती
1254	119061	श्री. हर्षल निरंजन तलाटी			

क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्रमांक	एमआरएन	सदस्य का नाम
1297	205788	श्री. अजित कुमार भंडारी	1316	211069	श्री. हरि पी. एन.
1298	206145	श्रीमती आशा जी.	1317	211327	श्रीमती प्रिया नागराजन
1299	206560	श्री. अनिल कुमार ओ. एम.	1318	212278	श्री. कौशिक सिक्कुमार
1300	206686	श्री. राजीव गोविंद	1319	213922	श्रीमती निशा रमेश
1301	206762	श्री. शंकर जे.	1320	214231	श्री. जोसेफ लुई डेवियर जे. एस. पी.
1302	207497	श्री. सारंगी राजेंद्र कुमार	1321	400563	श्री. मालू मनिष
1303	208007	श्री. अजय जे. जोसेफ	1322	401126	श्री. धनुका गुंजन
1304	208169	श्री. कविता श्रीनिवासन	1323	401204	श्री. शाह रजेंद्र
1305	208186	श्री. समेर अग्रवाल	1324	402037	श्री. विजयवर्गिया नितिन
1306	208280	श्री. आदित्य नटराज	1325	402232	श्री. मंत्री रिशी प्रकाश
1307	208457	श्री. श्रीराम नटराजन	1326	402877	श्री. ऋषभ कुमार
1308	209041	श्री. रमाकांत पोन्नापल्ली	1327	500232	श्री. झा धिरेन्द्र कुमार
1309	209084	श्री. आनंद के.	1328	500738	श्री. शर्मा एरिक
1310	209577	श्री. बाबु के.	1329	501087	श्री. दोशी गौतम
1311	209741	श्री. जितेश जी.	1330	502084	श्री. दत्त जया
1312	210305	श्री. साधिया नारायणन पी.	1331	502653	श्री. सहदेव अभित
1312	210644	श्री. अल्लुरैया सोलेटी	1332	502829	श्री. रयामाझी सुमन
1314	210898	श्री. रुचिता संचवी	1333	504693	श्री. खंडेलवाल श्वेता
1315	210958	श्री. संदिप महेता			
					डॉ. अशोक हल्दिया (सचिव)

कोलकाता-700 071, दिनांक 25 जून 2007

3 इसिए/4/2/2005-2006: चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा (A) उप-धारा (1) विभाग 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के मृत्यु के कारण उनका नाम अपने सदस्यता रजिस्टर में से दिनांक (जो दिनांक सदस्यों के नाम के साथ लिखा गया) से हटा दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	रिमुखल दिनांक
1.	002191	मि. दासगुप्ता रंजन कुमार कोलकाता	24/11/2004
2.	002462	मि. सिंही जय सि कोलकाता	14/08/2005
3.	003278	गांगुली निखीलेश कोलकाता	05/07/2005
4.	004656	मि. चन्दा अर्धेन्दु शेखर कोलकाता	04/10/2005
5.	005669	मि. भट्टाचार्य ज्ञान रंजन कोलकाता	24/06/2005

6.	006040	मि. दास दीनबन्धु कोलकाता	22/04/2005
7.	007264	मि. गुप्ता कपूर चन्द कोलकाता	31/05/2005
8.	010934	मि. मुखोपाध्याय शुशान्त पद कोलकाता	12/08/2005
9.	013715	मि. राय सुशीत कोलकाता	28/09/2005
10.	052303	मि. चट्टोपाध्याय आशिस कोलकाता	23/05/2005
11.	053111	मि. बन्थीया राजेन्द्र कुमार कोलकाता	12/05/2005
12.	055632	मि. जैन प्रमोद कुमार दुर्गापुर	05/06/2005
13.	059075	मि. सिकन्दर शान्तनु कोलकाता	21/06/2005

डॉ. अशोक हल्दीया  
सचिव

3 इसिए/4/4/2005-2006: चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा (A) उप-धारा (1) विभाग 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के मृत्यु के कारण उनका नाम अपने सदस्यता रजिस्टर में से दिनांक (जो दिनांक सदस्यों के नाम के साथ लिखा गया) से हटा दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	रिमुवल दिनांक
1.	001875	मि. अरुन कुमार दास कोलकाता	15/11/2004
2.	002576	मि. दास समिर कुमार कोलकाता	21/12/2005
3.	004881	मि. बेनाजी सरोज कुमार कोलकाता	01/01/2006
4.	008453	मि. मजुमदार निखील मोहन कोलकाता	03/12/2005
5.	008459	मि. दासगुप्ता प्रनव कुमार कोलकाता	29/11/2005
6.	008814	मिस. दत्त पूरवी कोलकाता	20/01/2006

7.	010013	मि. प्रवीन कपूर कोलकाता	16/03/2005
8.	012752	मि. मल्लिक अनिरुद्ध कोलकाता	04/10/2005
9.	015764	मि. मोहता सूरजमल कोलकाता	18/02/2006
10.	015768	मि. मुखोपाध्याय बिप्लब बिहारी कोलकाता	06/02/2006
11.	050130	मि. अटल रघुनाथ जोरहाट	19/02/2006
12.	050256	मि. अग्रवाल मोहनलाल कोलकाता	11/12/2005
13.	051068	मि. द्रोलिया जुगल किशोर कोलकाता	27/01/2005
14.	051352	मि. गांगुली रमेन्दु कोलकाता	30/11/2005
15.	052425	मि. अमल कुमार घोष कोलकाता	09/02/2005
16.	063701	मि. दुकानीया विवेक कोलकाता	28/07/2005

डॉ. अशोक हल्दीया  
सचिव

3 ईसीए/4/5/2005-2006 : चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है की चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा 20 उप धारा (1) (C) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम फिस न देने के कारण दिनांक 01/10/2005 से हटा दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
1.	001743	मि. बैनार्जी किशोरी मोहन कोलकाता
2.	001967	मि. बासु अरुन कुमार कोलकाता
3.	002126	मि. गांगुली गंगाधर कोलकाता
4.	002812	मि. नियोगी शलिल कुमार कोलकाता
5.	003502	मि. भौमिक राम प्रसाद कोलकाता
6.	003840	मि. बासु बिमल कुमार कोलकाता
7.	004145	मि. राय चौधुरी धीरेन्द्र नाथ कोलकाता
8.	004282	मि. नन्दी भुदेब चन्द्र कोलकाता
9.	004284	मि. दास दुर्गेश चन्द्र कोलकाता
10.	004521	मि. घोष शौरांशु मोहन कोलकाता

11.	005036	मि. जैन मंगीलाल कोलकाता
12.	006153	मि. गंगोपाध्याय रामकानाइ कोलकाता
13.	007038	मि. चन्द्र अनिल वरन न्यु इयंक
14.	007115	मि. धर शशांक शंखर कोलकाता
15.	007298	मि. खालेद मोर महम्मद कोलकाता
16.	007936	मि. विश्वास अधीप कुमार कोलकाता
17.	008432	मि. शर्मा रवीन्द्र चन्द्र न्यु जर्सी
18.	008577	मि. बन्दोपाध्याय उल्लाश कोलकाता
19.	009215	मि. पाठक समरेन्द्र नाथ कोलकाता
20.	009307	मि. भाट्टाचार्य दिलीप कोलकाता
21.	011174	मि. शाह प्रफुल्ल चन्द्र शान्तिलाल कोलकाता
22.	013426	मि. चौधुरी अशोक कुमार कोलकाता



23.	014392	मि. बैनार्जी आदित्य मोहन कोलकाता	37.	050382	मिस बासु अलकानन्दा कोलकाता
24.	014816	मि. मुखोपाध्याय मिलन कुमार उत्तरपाड़ा	38.	050412	मि. भारतीया अशोक कुमार गुयाहाटि
25.	015254	मि. मुखार्जी मानस मोहन कोलकाता	39.	050415	मि. हायात आबुल कोलकाता
26.	015367	मि. घोष सुब्रत कोलकाता	40.	050475	मि. तरुन कुमार बैनार्जी नायेडा
27.	016218	मि. चक्रवर्ती आशिस कोलकाता	41.	050532	मि. घोष सुदीप कोलकाता
28.	016539	मि. खन्डेलवाल शुभास चन्द्र कोलकाता	42.	050567	मि. बाफना मदन लाल कोलकाता
29.	016877	मि. आयाय सीतारान गणेश कोलकाता	43.	050606	मि. राय पार्थ प्रतीम कोलकाता
30.	017153	मि. चोपड़ा मनोज नाईरोबी	44.	050623	मि. दासगुप्ता अशोक कुमार कोलकाता
31.	017286	मि. मुखोपाध्याय पीयूष कुमार उत्तरपाड़ा	45.	050716	मि. प्रत्युश कीरण मित्र कोलकाता
32.	017636	मि. बारिक सुकुमार कोलकाता ७०० ०६४.	46.	050807	मि. शुब्रमनीयम के कोलकाता
33.	021037	मि. आब्बास बली जी विशाखापत्तनम	47.	050935	मि. मुखार्जी पबीत्र कुमार कोलकाता
34.	021953	मि. टेंक्टेस्वर राओ के कोलकाता	48.	050952	मि. बोस समर कोलकाता
35.	050082	मि. आड्डी गौतम कोलकाता	49.	051057	मि. दास सुशिल कोलकाता
36.	050249	मि. चट्टोपाध्याय देब कीशोर कोलकाता	50.	051095	मि. घोष सरोजीत कुमार कोलकाता

51.	051335	मि. मल्लीक प्रदीप कुमार कोलकाता	65.	05202 3	मि. चक्रवर्ती सिद्धार्थ कोलकाता
52.	051425	मि. अजितसारिया शंकर लाल कोलकाता	66.	052024	मि. राय प्रशान्त कुमार कोलकाता
53.	051460	मि. सेनगुप्ता शिबाजी कोलकाता	67.	052040	मि. बैनार्जी प्रदीप कुमार कोलकाता
54.	051467	मि. बासु स्वपन दुर्गापुर	68.	052078	मि. कोठारी बिनोद कुमार कोलकाता
55.	051534	मि. बांका मोहन लाल भुवनेश्वर	69.	052146	मि. सरकार भाष्कर कोलकाता
56.	051552	मि. अग्रवाल बिनोद कुमार कोलकाता	70.	052188	मि. माल अजय कुमार कोलकाता
57.	051561	मि. सिन्हाराय कमलाकान्त कोलकाता	71.	052219	मि. गंगोपाध्याय एन कोलकाता
58.	051681	मि. तिवारी सोमनाथ आसानसोल	72.	052375	मि. गुप्ता चांगुलाल कोलकाता ७०० ०१९.
59.	051718	मि. बियानी बिजय कुमार कोलकाता	73.	052391	मि. जालान पवन कुमार कोलकाता
60.	051761	मि. पुरोहित अशोक कोलकाता	74.	052498	मि. विश्वास कल्याण कोलकाता
61.	051787	मि. श्रीनिवासन एन आर कोलकाता	75.	052549	मि. मेहता शेखर कोलकाता
62.	051844	मि. घोष आशिस कुमार कोलकाता	76.	052570	मि. गंगोपाध्याय पार्थ कोलकाता
63.	051913	मि. पान्डा विमल चन्द्र भुवनेश्वर	77.	052679	मि. राय अमित कुमार कोलकाता
64.	052013	मि. टिब्रेवाल प्रेमप्रकाश कोलकाता	78.	052697	मि. मिश्रा भिकम चंद कोलकाता

79.	052711	मि. बालाशुब्रामनियम जे कोलकाता	93.	053576	मि. जैन बिजय राज कोलकाता
80.	052717	मि. मोहित कृष्ण कुमार कोलकाता	94.	053668	मि. बासु तापष सुलतानेट ऑफ ओमान
81.	052738	मि. काठोटिया दीपक कुमार कोलकाता	95.	053892	मि. सेन बिश्वरूप कोलकाता
82.	052825	मि. मित्र आशिस कुमार कोलकाता	96.	054021	मि. बान्थीया बजरंग लाल कोलकाता
83.	052840	मि. सिंह प्रभात कुमार कोलकाता	97.	054025	मि. शाहा अशोक कोलकाता
84.	052904	मि. सोपानी दिलीप कुमार शीलघर	98.	054032	मि. बैद संग्राम सिंह कोलकाता
85.	053017	मि. चक्रवर्ती आशिस कानाडा	99.	054051	मि. सथपथी मुक्तिकान्त कोलकाता
86.	053101	मि. कपुर अनुप कोलकाता	100.	054148	मि. बरुया प्रद्युत कुमार गोलाधाटा
87.	053129	मि. सेन पार्थ कमल कोलकाता	101.	054180	मि. मुखार्जी गौरा कोलकाता
88.	053167	मि. दत्त बिश्वजीत कोलकाता	102.	054185	मि. दास प्रकाश चन्द्र बैंगालोर
89.	053337	मि. कजरीया अजय कोलकाता	103.	054231	मि. जुलसराई अरुन कुमार कोलकाता
90.	053374	मि. मेमानी रमेश कोलकाता	104.	054233	मि. अग्रवाल अजय हावड़ा
91.	053434	मि. दत्त गौतम बालुरघाट	105.	054277	मि. दास आशिस कुमार शीलघर
92.	053539	मि. लुनावत निर्मल कुमार हावड़ा	106.	054291	मि. अग्रवाल अरुन कुमार कोलकाता

135. 055547	मि. दागा संजय कुमार कोलकाता	149. 056372	मि. साहु शन्तोष कुमार अंगुल
136. 055562	मि. दास जयदीप कोलकाता	150. 056382	मि. मनोज कुमार शर्मा कोलकाता
137. 055724	मि. चौधुरी सुब्रत कोलकाता	151. 056508	मि. घोष भाष्कर कोलकाता
138. 055770	मि. दागा देबेन्द्र कुमार कोलकाता	152. 056518	मि. संवाई अजित कुमार भुवनेश्वर
139. 055782	मि. लहारुका प्रदीप कुमार कोलकाता	153. 056523	मि. बीहारी हरीहर बंहरामपुर
140. 055848	मिस दत्त सुष्मिता कोलकाता	154. 056536	मि. गाथानी सर्वनन्दा कोलकाता
141. 055866	मि. सेन सन्जय कोलकाता	155. 056576	मि. सराफ बिकाश कुमार कोलकाता
142. 055968	मि. डाकालिया इन्दर चन्द हावड़ा	156. 056591	मि. प्रसाद ईश्वर दयाल कोलकाता
143. 056083	मि. दिनेश चौधुरी कोलकाता	157. 056598	मि. अग्रवाल अभय कुमार कोलकाता
144. 056213	मि. महापात्र धीमान भुवनेश्वर	158. 056700	मि. सरकार कौशिक कोलकाता
145. 056321	मिस मुखर्जी काकलि कोलकाता	159. 056714	मि. शर्मा संजय मुम्बई
146. 056335	मि. ठाकुर अरुण कोलकाता	160. 056723	मिस सिंह सीमा कोलकाता
147. 056361	मि. कर सुमीत कोलकाता	161. 056741	मि. महाराज पंकज कुमार कोलकाता
148. 056370	मि. साहु राजेश कुमार भुवनेश्वर	162. 056830	मि. कुन्दु पुर्णन्दु कोलकाता

191. 057766	मि. जलान आनन्द कोलकाता	205. 058073	मि. सिंह देव नृपादित्य कोलकाता
192. 057775	मि. चड्ढा तरुन कुमार कोलकाता	206. 058237	मि. भोतिका शम्भु कुमार कोलकाता
193. 057792	मि. अग्रवाल दिनेश कुमार कोलकाता	207. 058282	मि. नायक बिबेकानन्द भुबनेश्वर
194. 057806	मि. अग्रवाल रंजन कोलकाता	208. 058315	मि. मित्र सैकत कोलकाता
195. 057828	मि. बासु दीपन कोलकाता	209. 058353	मि. घोष शुद्धसत्त्व कोलकाता
196. 057898	मि. मंडल अश्रुजीत कोलकाता	210. 058440	मिस. वीद्या पद्मणाभन कोलकाता - ७०० ०४५.
197. 057951	मिस सेनगुप्ता देवी कोलकाता	211. 058456	मि. पटवारी सुनील कुमार कोलकाता - ७०० ०८९.
198. 057960	मि. सईकिया प्रतुल कुमार नुमालीगड़	212. 058518	मि. जान मोहम्मद तनवीर कोलकाता
199. 057961	मि. जाजोदीया सुशील कुमार कोलकाता	213. 058529	मि. सातनालीवाला मनोज कुमार कोलकाता
200. 057978	मिस चौधुरी रशमी कोलकाता	214. 058583	मि. केजरीवाल निधीष कोलकाता
201. 058015	मि. आर्स द्वीप सिंग बीन्द्रा वारश	215. 058590	मि. खैरुल्ला होजायेफ टो कोलकाता
202. 058046	मि. अग्रवाल संदीप कोलकाता	216. 058591	मि. जैन जीतेन्द्र कोलकाता
203. 058053	मि. दाशगुप्ता इन्द्रजीत मुम्बई	217. 058668	मिस. आग्रवाल वीभा कोलकाता
204. 058071	मिस सराफ सुची हावड़ा	218. 058669	मि. पटनी मधुप कुमार कोलकाता

219.	058752	मि. अरोड़ा पंकज कोलकाता	233.	059274	मि. स्वीड कपीलेन्द्र भुवनेश्वर
220.	058888	मिस. तुलशान रंजीता कोलकाता	234.	059298	मि. राय चौधुरी प्रोसेन्जीत कोलकाता
221.	058897	मि. जाजोदिया प्रतीक कालीयागंज	235.	059317	मि. धनुका बीनय कोलकाता
222.	058904	मि. गुप्ता अभीक लनडन	236.	059362	मि. मुखार्जो अर्ध कोलकाता
223.	058958	मि. पाटी दिलीप कुमार बेरहमपुर	237.	059365	मि. पाटवारो वीनित कोलकाता
224.	058987	मि. डालमिया बिकाश कुमार कोलकाता	238.	059406	मि. अनिल कृष्ण प्रसाद दोशंगगढ़
225.	059024	मि. सुभो आग्रवाल बैंगलोर	239.	059418	मि. शरण अमरेन्द्र कोलकाता
226.	059080	मि. सेनगुप्ता शुभोदीप मुम्बई	240.	059496	मि. घोष सुदीप रंजन कोलकाता
227.	059098	मिस दासगुप्ता स्वाती कोलकाता	241.	059518	मिस. चित्र अपर्णा वाई लॉस आलामोस - ०
228.	059099	मि. मल्लिक राजश्री चरण कटक	242.	059529	मि. दत्त संजीव कोलकाता
229.	059115	मि. जाजु सुनील कुमार रीषड़ा	243.	059557	मि. मोश्र संजीव कुमार कोलकाता
230.	059123	मि. मंडल उज्ज्वल कुमार कोलकाता	244.	059566	मि. झुनझुनवाला उत्तम कुमार कोलकाता
231.	059210	मि. चामारीया महेश कोलकाता	245.	059581	मि. रहानी सुनील कुमार कोलकाता
232.	059244	मि. जैन वीनित कोलकाता	246.	059592	मि. वर्जांतीया अलोक गुयाहाटी

247.	059644	मि. सीवता अश्वीनि कुमार मानामा	261.	060247	मि. पोद्दार अमित कोलकाता
248.	059651	मि. पन्डा प्रमानन्द समबलपुर	262.	060258	मि. धावान राजेश कुमार कोलकाता
249.	059722	मि. मोदक सुमन कोलकाता	263.	060279	मि. तेली अनीश कोलकाता
250.	059763	मि. मुखार्जी नीलान्जन कोलकाता	264.	060293	मिस. सुब्रामनीयन अरूणा कोलकाता
251.	059870	मि. के मुरोली प्रसाद रायदाडा	265.	060311	मि. तुलशियान विवेक कुमार कोलकाता
252.	059887	मि. महीपाल गौतम मैनचेस्टर	266.	060327	मि. आग्रवाल कृष्ण कुमार कोलकाता
253.	060000	मि. संजय कुमार आग्रवाल रानीगंज	267.	060389	मि. राय चौधुरी संजय कोलकाता
254.	060018	मि. चन्दक कृष्णन कोलकाता	268.	060419	मिस. पटवारी सुषमा कोलकाता
255.	060031	मि. सारदा वीनित कुमार कोलकाता	269.	060427	मि. जैन वीनित कोलकाता
256.	060087	मि. सरकार ध्रुव नारायण कोलकाता	270.	060432	मिस. आग्रवाल प्रीति हावड़ा
257.	060129	मि. मित्तल अमित कोलकाता	271.	060444	मिस. खेत्रवाल वीनिता सालकिया
258.	060174	मि. बीयानि समिर कोलकाता	272.	060447	मि. सिन्हा विक्रम कोलकाता
259.	060226	मि. शाह अजय कुमार हावड़ा	273.	060449	मि. सिंह शिवेन्द्र कोलकाता -
260.	060237	मि. पानीग्राहि ज्योति रंजन कोलकाता	274.	060463	मि. गुप्ता अमित कोलकाता

275. 060464	मिस. गोयेंका सुषमा कोलकाता	289. 060874	मि. घटक बिक्रमजीत कोलकाता
276. 060548	मि. एम भी सुनील मास्काट	290. 060884	मि. बागारिया मुकेश कुमार दिसैरगड़
277. 060584	मि. लोधा मनीष कुमार पुरुलिया	291. 060932	मि. जैन विकास कोलकाता
278. 060619	मि. अर्नब पाल बेंगालोर	292. 060942	मि. महेश्वरी नभनीत कोलकाता
279. 60626.	मि. गोलछा मनिष कुमार कोलकाता	293. 60 943	मि. राठी पवन कुमार हावड़ा
280. 060636	मि. सरोगी ईश्वरी कोलकाता	294. 060944	मि. राय शुद्धसत्त्व कोलकाता
281. 060655	मिस. मेहता नीन कोलकाता	295. 060985	मि. मोहान्ति विधु भुषण कोलकाता
282. 060696	मि. गुप्ता राजीव कुमार कोलकाता	296. 061017	मि. कोठारी राधे श्याम रिपड़ा
283. 060716	मि. मीतल अजय कोलकाता	297. 061028	मि. पोद्दार जय कीशन कोलकाता
284. 060748	मि. गुप्ता अमित कोलकाता	298. 061051	मि. शर्मा राकेश गुवाहाटि
285. 060790	मि. राठी राकेश हावड़ा	299. 061130	मि. बहेति मनोज कुमार कोलकाता
286. 060827	मि. बन्धोपाध्याय सुप्रिय सुलतानेट ऑफ ओमान	300. 061179	मि. सारदा विकास भोपाल
287. 060832	मि. शाहाल जय प्रकाश कोलकाता	301. 061193	मि. हुसैन हातिम मोईज दुबई (यु. ए. ई.)
288. 060846	मि. मित्र फाल्गुनी कोलकाता	302. 061198	मि. ठाकुर नीलेश कुमार कोलकाता



303. 061226	मिस. झलारीया प्रेरणा कोलकाता	317. 061484	मि. खन्डेलवाल गौरभ शौलजूर
304. 061266	मि. चक्रवर्ती नीलांजन कोलकाता	318. 061500	मि. दोनेष कुमार आग्रवाल बरबोल
305. 061293	मि. सोनी ललीत कोलकाता	319. 061574	मि. आग्रवाल रवी कान्त शिलिगुड़ी
306. 061311	मि. मिश्र अमिताभ भुवनेश्वर	320. 061625	मि. मालिक समन्त कोलकाता
307. 061319	मि. सेन सौभिक कोलकाता	321. 061626	मिस मुखोपाध्याय कोबारि कोलकाता
308. 061329	मि. कवीता कुमारी कोलकाता	322. 061634	मिस. आग्रवाल रीतु हावड़ा
309. 061338	मि. खैतान वीक्रम हावड़ा	323. 061760	मि. पान्डे अरवीन्द कुमार आसानसोल
310. 061366	मि. जैन मनोज हावड़ा	324. 061774	मि. दुग्गर अलोक कोलकाता
311. 061372	मि. शर्मा वीकाश गुयाहाटि	325. 061789	मि. गुप्ता आनन्द कोलकाता
312. 061394	मि. माहालीक अतुल्य कुमार भुवनेश्वर	326. 061817	मि. सुराना पंकज कोलकाता
313. 061405	मि. सेन आशिस कोलकाता	327. 061878	मि. पन्डा रघुनाथ भुवनेश्वर
314. 061417	मि. आग्रवाला संजय आसानसोल	328. 061890	मि. रजत गोयेंका कोलकाता
315. 061434	मि. तुलशियान वीनित कोलकाता	329. 061891	मि. सराफ बिनीत कोलकाता
316. 061469	मि. सराफ अनीष कुमार रानीगंज	330. 061921	मि. बाजोरीया सचीन कोलकाता

331. 061956	मि. दुग्गर रभि कोलकाता	345. 062122	मिस. सान्याल बीपाशा कोलकाता
332. 061957	मि. मुखार्जी अमित कोलकाता	346. 062138	मि. साहु मनीशंकर प्रसाद रीघड़ा
333. 061960	मिस. दुग्गर रेखा हावड़ा	347. 062163	मि. सीद्धेश्वर पानी कोलकाता
334. 061961	मि. प्रधान हरीहर पुरी	348. 062169	मिस. राय चौधुरी श्रावनी कोलकाता
335. 062032	मि. माखारीया नवीन आसानसोल	349. 062247	मि. राय अरिजित कोलकाता
336. 062048	मि. दुग्गर पवन कुमार हावड़ा	350. 062252	मि. राउतराय अशोक कुमार मुम्बई
337. 062055	मिस जैन संगीता कोलकाता	351. 062299	मि. झुनझुनवाला वीकाश कोलकाता
338. 062056	मि. आग्रवाला अमन कोलकाता	352. 062137	मि. चौधुरी प्रीतम कोलकाता
339. 062059	मि. फतेहपुरिया राहुल कोलकाता	353. 062319	मि. मेहरा कबीर कोलकाता
340. 062078	मि. बनसली पवन कुमार कोलकाता	354. 062324	मि. शव रीटेश आसानसोल
341. 062080	मि. चटर्जी कोशिक काठमान्डु	355. 062336	मि. प्रधान रमेश चन्द्र भुवनेश्वर
342. 062094	मिस. कृष्णन अपर्णा कोलकाता	356. 062343	मि. अभीषेक कोलकाता
343. 062110	मि. शर्मा अनुराग कोलकाता	357. 062346	मि. जैशवाल संजय कुमार कोलकाता
344. 062113	मि. हासमी हासान आफरोज कोलकाता	358. 062362	मि. राय अमित कुमार हिन्दमोंटर

359. 062374	मि. जैन नरायण कुमार टीटलागढ़	373. 062818	मि. महावार प्रवीण कोलकाता
360. 062448	मि. खोवाला ललीत कुमार कोलकाता	374. 062865	मि. आग्रवाल पिन्दु कुमार कोलकाता
361. 062466	मि. आग्रवाल मुकेश कोलकाता	375. 062869	मि. आचार्य शैलेश कोलकाता
362. 062496	मि. बन्धोपाध्याय सुदिप्त कोलकाता	376. 062872	मि. लोसालका राहुल रानीगंज
363. 062498	मिस. चौधुरी रशमी कोलकाता	377. 062890	मि. पोद्दार विकास कोलकाता
364. 062518	मि. बीश्वास प्रकाश चन्द्र कोलकाता	378. 062962	मि. वाराणसी राजेश जैयपुर
365. 062522	मिस. तिवारी कुमकुम कोलकाता	379. 063003	मि. आग्रवाला विकास कुमार कोलकाता
366. 062573	मि. भर्मा राजीव कुमार कोलकाता	380. 063014	मिस. कोठारी डली कोलकाता
367. 062589	मि. जैशवाल सुनील न्यू दिल्ली	381. 063057	मि. जसोपारा नीसान्त हावड़ा
368. 062632	मि. बेर्लीया सीद्धार्थ कोलकाता	382. 063082	मि. भर्मा कमलेश कुमार हावड़ा
369. 062646	मि. पानीग्राही मिहिर रंजन भुवनेश्वर	383. 063086	मि. मोहान्ति सत्यव्रत भुवनेश्वर
370. 062787	मि. सोमानी वीकाश रानीगंज	384. 063131	मि. नाहाता नीरज कोलकाता
371. 062801	मि. आग्रवाल विष्णु प्रसाद मयूरभंज	385. 063140	मि. मनपुरीया संजय कोलकाता
372. 062806	मि. मीश्र बिजन कुमार ढेंकानल	386. 063153	मि. पटनायक अमीय कुमार बेरहमपुर

387. 063157	मि. आग्रवाल धीराज गुयाहाटी	401. 063371	मि. कल्याण उमा शंकर कोलकाता
388. 063186	मि. गोयेंका सुमित कोलकाता	402. 063418	मि. सिंह राम नाथ कोलकाता
389. 063256	मि. उपाध्याय अनिल कुमार कोलकाता	403. 0632427	मि. जेशवाल अनुप कुमार झारसुगुडा
390. 063266	मि. राव एन फानी किशोर कोलकाता	404. 063458	मि. मात्रा आनन्द कुमार हुगली
391. 063267	मि. दास सन्तोष कुमार कोलकाता	405. 063471	मि. सेंट आर्भषेक कोलकाता
392. 063269	मिस. मोदि मेघा गुरगांव	406. 063567	मि. जांषी बलवन्त कोलकाता
393. 063274	मि. पाचिसिया वीशाल कोलकाता	407. 063568	मि. भानु कुमार कोलकाता
394. 063287	मि. आग्रवाल गोपाल कोलकाता	408. 063590	मि. आग्रवाल नीतेश वीजय कोलकाता
395. 063296	मि. नन्दा उदय नारायण भुवनेश्वर	409. 063600	मि. प्रधान सुधांशु रंजन भुवनेश्वर
396. 063327	मिस बाहेति सुगन्धा कोलकाता	410. 063627	मिस. पूर्णोमा छात्रीया कोलकाता
397. 063342	मि. आग्रवाल राजेश बराकर	411. 063631	मिस. मुखर्जी इन्दनी हावड़ा
398. 063343	मि. चोबे नवीन कुमार हावड़ा	412. 063642	मि. लयालका मनीष मरानीगंज
399. 063344	मि. बाजोरिया मनीष कोलकाता	413. 063645	मि. आग्रवाल अमित कुमार कोलकाता - 7300 0079
400. 063352	मि. खैतान वोकाश कुमार दुर्गापुर	414. 063648	मि. जैन प्रमोद कोलकाता

415.	063696	मि. यागनिक रोहीत भद्रकाली	429.	090885	मि. बालाजी एम कोलकाता
416.	063708	मि. दत्त पार्थ बुण्गे-बुण्गे	430.	090952	मि. महेश्वरी सुधीर रायगाडा
417.	063807	मि. आग्रवाल आशिस कोलकाता	431.	091194	मि. जैन वीनोद कोलकाता
418.	063861	मि. सराफ पंकज कोलकाता	432.	092236	मि. चोपड़ा रुपेश न्यू दिल्ली
419.	063868	मिस. गुप्ता सुनिता कोलकाता	433.	093665	मि. झुनझुनवाला आदित्य कोलकाता
420.	063869	मिस. गर्ग नेहा राउरकेल्ला	434.	095652	मि. दास बीरेश भुवनेश्वर
421.	063877	मि. आग्रवाल वीकाश कोलकाता	435.	096627	मि. ग्यानेन्द्र कुमार पन्डा कटक
422.	063903	मि. मित्तल राकेश हावड़ा	436.	098526	मि. गुप्ता अशोक कुमार शिलिगुड़ी
423.	070042	मि. चौधुरी सुरेश कुमार कोलकाता	437.	099307	मि. महापात्र प्रकाश चन्द्र भुवनेश्वर
424.	070986	मि. शर्मा रमेश चन्द्र कोलकाता	438.	103628	मि. चौधुरी सुरेश कुमार दुबई
425.	075637	मि. मोदी दीपक कुमार कोलकाता	439.	105800	मि. साहू राजेन्द्र कुमार भुवनेश्वर
426.	080430	मि. भुतोरीया विमल सिंह कोलकाता	440.	109861	मि. पन्डा मनोज कुमार भुवनेश्वर
427.	084565	मि. सुब्रामनीयन ए सपी के एन तालचेर	441.	110874	मि. दाश मानस नयागड़
428.	086242	मि. पन्डा त्रीलोचन भुवनेश्वर	442.	116639	मि. मंडल सबोजीत रूई - ०
			443.	201879	मि. भान्डावत वीनोद कोलकाता

444. 204986	मि. कौषिक एन कोलकाता	449. 213826	मि. झुनझुनवाला अभिषेक कोलकाता
445. 206286	मि. जगदेशन के कार निकोबर	450. 215244	मि. वीकाश लाल पटेल पोर्ट ब्लेयर
446. 208856	मि. मुखोपाध्याय देबाशिस कोलकाता	451. 401903	मि. गुप्ता मनीष बनगाईगांव
447. 210621	मि. रमेश एम जोरहाट	452. 500031	मि. जैन प्रवीन सुजानगढ़
448. 212511	मि. त्रिपाठी गणेश्वर भुवनेश्वर		

डॉ. अशोक हल्दीया  
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2007

संख्या : यू.16/53/2000 चि.2(म.प्र.) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (म.प्र.) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम

डॉ. के.पी.शुक्ला

अवधि

1.9.07 से 31.8.08

केन्द्र का नामभोपाल, सागर,  
मण्डीदीप, इटारसीडॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400 005, the 10th July 2007

(Chartered Accountants)

3WCA(4)/1/2005-06 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name	Date	S.No.	MRN	Member Name	Date
	000957	MR. RANDERIA BHAGWANDAS CHHAGANLAL	27/07/2004	30	012214	MR. BARLOTA KACHRULAL CHANDANMAL	07/02/2006
	001134	MR. MANORANJAN RATILAL SHROFF	24/05/2004	31	012751	MR. SHAH VINODRAY CHAMPAKLAL	16/12/2004
	001634	MR. AMIN YOGENDRA CHUNIBHAI	14/10/2005	32	013515	MR. BRAMHECHA CHANDMAL MOHANLAL	22/01/2006
	002062	MR. SHAH KANTILAL MOHANLAL	02/11/2004	33	016921	MR. KANODIA DURGA PRASHAD	14/06/2005
	002401	MR. PHADNIS GANGADHAR SHANKAR	19/10/2005	34	018856	MR. BHATTAD RADHESHYAM	05/02/2005
	002481	MR. WARDE MADHUKAR PURUSHOTTAM	20/04/2005	35	020612	MR. VIJAY KUMARCHAMARIYA	02/01/2005
	002706	MR. KRISHNA RAO CHEMBROL	13/11/2005	36	021326	MR. PODDAR P K	20/06/2005
	002805	MR. SAMPAT PRATAP SINHA VASANJ	26/08/2005	37	030016	MR. KANHERE MILIND GAJANAN	16/02/2005
	003253	MR. PATEL ARDESHIR ERACHSHAW	21/03/2004	38	030901	MR. MANJREKAR ASHOK LAXMAN	28/04/2005
0	003286	MR. DASTUR JAL ERACH	07/10/2005	39	032214	MR. JAIN SUBHASH INDARCHAND	17/12/2005
1	003317	MR. WAGLE MANOHAR ANANDRAO	27/01/2004	40	032284	MR. PATIL SHRINIVAS HARI	22/01/2005
2	003791	MR. PAREKH SHASIKANT MANILAL	18/11/2004	41	032299	MR. TARAPOREWALA NADIR SHAPOOR	11/09/2005
3	004054	MR. TAMHANE RAMESH RAJARAM	10/11/2004	42	032705	MR. SANGORAM ANAND SHREERANG	01/09/2005
4	004600	MR. SHAW JAMSHED PESTONJI	30/10/2004	43	032890	MR. KAISARE DIWAKER PARASHURAM	15/12/2005
5	004727	MR. MEHTA YOGENDRA BHANUPRASAD	13/02/2006	44	033090	MS. MEHER ERUCH FOUZDAR	27/12/2004
6	004987	MR. SHAH MANHERLAL THAKORLAL	04/05/2005	45	033861	MR. SHINDE KISAN KRISHNA	16/09/2004
7	005182	MR. MALESARIA HOMI JAMSHEDJI	28/09/2004	46	038026	MR. RAMANATHAN SUDHAKAR	31/07/2003
8	005472	MR. PATEL ARVIND KANTILAL	23/11/2005	47	040134	MR. SHENWAI ABHIJEET VINAYAK	26/09/2005
9	006251	MR. MAINTHIA JAYANTILAL BHANJI	08/08/2005	48	040578	MR. SHALIN INDULAL SHAH	18/12/2004
0	006542	MR. MEHTA DINESHKUMAR MULAJIBHAI	19/11/2004	49	045936	MR. JOSHI VASANT BALWANT	13/12/2004
1	007287	MR. JOSHI SUDHAKAR DATTATRAYA	21/10/2004	50	048580	MR. THATTE HARSHAD SHAM	12/09/2001
2	009049	MR. AGARWAL RAVIDATTA	20/11/2004	51	054061	MR. GOEL RAJ KUMAR	11/06/2004
3	010445	MR. SHETH RASHMIKANT PRANJIVANDAS	08/02/2005	52	080981	MR. CHATURVEDI SUBHASH CHANDRA	17/07/2005
4	010728	MR. VAIDYA RAMCHANDRA VISHWAS	12/05/2004	53	081527	MR. KAPATKER MOHAN VISHWANATH	29/05/2005
5	011029	MR. MELWANKI SHRIMANT BHUPAL	13/05/2002	54	104205	MR. SHINDE DEEPAK BABURAO	08/07/2005
6	011038	MR. CHRISTIE SAMUEL ROBERT	25/06/2005	55	110153	MR. YESHAWANT KESHAORAOJI MATE	27/12/2004
7	011268	MR. SRINIVASAN M A	16/04/2005	56	112686	MS. SUMAN NARAYAN NAIK	12/03/2005
8	011571	MR. GUPTA SURENDRA KUMAR	22/01/2006	57	116993	MR. NAYAN MANUBHAI VORA	04/05/2005
9	012006	MR. KABRA GOPAL KRISHAN	03/06/2005				

DR. ASHOK HALDIA  
Secretary



3WCA(4)/2/2005-06 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name	
1	001853	MR. SHINDE BABURAO GOVINDRAO	01/04/2005
2	001905	MR. SHIVARAO B K	01/07/2005
3	003971	MR. PATEL SHRIKANT CHATURBHAI	17/09/2005
4	008382	MR. KATRAK BEHRAM ERUCHSHA	10/05/2005
5	011335	MR. VARIAVA FURROKH MUNCHERSHAW	06/09/2005
6	109958	MR. ASHWIN ANAND BADGERI	09/01/2006
7	117983	MRS. NUPUR SUNIL SATHE	01/01/2006

**DR. ASHOK HALDIA**  
Secretary

## (Chartered Accountants)

3WCA(4)/3/2005-06 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01/10/2005 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1	000798	MR. SHAH INDULAL HIRALAL	31	008112	MR. TARMASER DINESHCHANDRA RAMANLAL
2	000907	MR. SHAH SAKERLAL BHAICHAND	32	008352	MR. SHAH NARESHCHANDRA NAROTTAMDAS
3	001430	MR. BAGADTHEY VASANT PANDURANG	33	008594	MR. DESAI ROHIT RAVINDRALAL
4	002345	MR. TARE VYANKATESH RAGHUNATH	34	008787	MR. ASHAR VIJAYSINH PURSHOTTAM
5	002380	MR. JODHANI AMRITLAL MAGANLAL	35	008860	MR. JOSHI PINAKIN GAJANAN
6	002714	MR. MODY SURENDRA SAKERLAL	36	008988	MR. LUHARIWALA KESHARI NANDAN
7	003106	MR. MARATHE VINAYAK SAKHARAM	37	008990	MR. SHAH MAHESH INDRALAL
8	003480	MR. PATEL RAOJIBHAI HARJIBHAI	38	009382	MR. PAREKH ASHWIN RATILAL
9	003482	MR. MERCHANT RAMZANALI FAKIRMOHAMED	39	009630	MR. PATEL ARVIND KUMAR MANILAL
10	003838	MR. PROTIP KUMAR CHATTERJEA	40	010131	MR. PUSHPAVADAN KRUSHNALAL BHATT
11	004243	MR. BOYCE BOMY JAMSHED	41	010398	MR. SUSHILCHANDRA THAKORLAL KAPADIA
12	004253	MR. JHAVERI JITENDRA BHOGILAL	42	010699	MR. VAISHAMPAYAN SHRINIVAS SHIVRAM
13	004681	MR. THAKUR SHRIPAD GAJANAN	43	010912	MR. KRISHNAMURTHY M
14	004875	MR. PRAN NATH MITRA	44	012241	MR. SHAH VIJAYKUMAR HIRALAL
15	005068	MR. SANKARAN G S	45	012254	MR. TANDON MANU
16	005244	MR. JOSHI PRABHAKAR VISHNU	46	012432	MR. BUCH ANANTRAM HARSUTRAI
17	005600	MR. SADHASIVAN G S	47	012599	MR. RAVINDRA DHONDIRAM ADVANT
18	005711	MR. WG CDR TRIBHUWAN PAL MAGON	48	012620	MR. DESAI PRANAV GIRIRAJ
19	005790	MR. SURTE ARVIND BABURAO	49	013035	MS. BORKAR P S
20	005979	MR. PATEL JASWANT RENJUMITRA	50	013133	MR. DINAKAR A
21	006096	MR. AGARWAL VINOD KUMAR	51	013314	MR. JHAVERI MUKUND JETHALAL
22	006297	MR. NAIK ISHVARLAL PRANLAL	52	013353	MR. NIHAL CHANDKOTHARI
23	006372	MR. DESAI CHANDRAKANT KANTILAL	53	013444	MR. MEHTA JAWERCHAND KESHIRMAL
24	007157	MR. DONGRE MAHESH BHALCHANDRA	54	013800	MR. RAJJI AMIT RANJIT
25	007280	MR. KUDIA AYOOB ABDUL GAFFAR	55	014062	MR. GORACIA PRADYUMAN KALYANDAS
26	007337	MR. ROY PARITOSH	56	014083	MR. DESHPANDE ACHYUT SADASHIV
27	007361	MR. KOTHARI SURESHCHANDRA NANDLAL	57	014276	MR. THAKKAR VINOD HARILAL
28	007728	MR. NAWAL KUMAR JAIN	58	014380	MRS. AILEEN P MEHTA
29	008014	MR. BORKAR SURESHCHANDRA RAMRAO	59	014642	MR. BALVANTRAY KALABHAI MEHTA
30	008070	MR. BHANDARI PUSHKARMAL PRAKASHMAL	60	014794	MR. PAI PRAKASH G

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
61	014837	MR. YOGENDRA KUMAR JAMITATRAM PANDYA	100	029585	MR. RAMAKRISHNAN J
62	014868	MR. RAIMAGIA VITHALDAS RAMDAS	101	030078	MR. HAJARE SADANAND BABURAO
63	014962	MR. SHAH ANIL CHAMPAKLAL	102	030087	MR. GUPTA RAJENDRAKUMAR MAKHANLAL
64	015205	MR. REGE RAMESH GAJANAN	103	030163	MR. KANTARIA PRAVINKUMAR HARIDAS
65	015453	MR. RAMANA MURTHY P V	104	030185	MR. ABBASI JOHAR A
66	015469	MR. CHATURVEDI RAMJI SHYAMLAL	105	030254	MR. SHAH MAHENDRAKUMAR RASIKLAL
67	015863	MR. SHAH RAMESH NATAVERLAL	106	030378	MRS. KUNDA SHANKAR GANU
68	016090	MR. SONI OMPRAKASH G	107	030407	MR. SAMPAT ASHOK GOPALDAS
69	016370	MR. SASTRI TULASI SURYANARAYAN	108	030432	MR. SHETH CHETAN BHUPENDRA
70	016478	MR. BHATHENA SAM BOMAN	109	030467	MR. SHETTY SATHEESH
71	016819	MR. KARTIKEYAN KAVASSERRI SUBRAMANIAN	110	030495	MR. KADAM HARIBHAU ANAND
72	017033	MR. SUREKA MURARI LAL	111	030502	MR. SELARKA ASHVINKUMAR MOHANLAL
73	017172	MR. KANTAWALA MOHAMEDI YAHYABHAI	112	030522	MR. DESAI HIREN JAYANT
74	017236	MR. BANSAL VISHNU KUMAR	113	030714	MR. RAMJI RANGASWAMY
75	017266	MR. NAHAR VIJAYKUMAR LALCHAND	114	030725	MR. JAYESHKUMAR PRABHASHANKAR THAKER
76	017394	MR. JOSHI DHANANJAY RAGHUVIR	115	030736	MR. DESAI SHANTARAM KRISHNAJI
77	017577	MR. ZAVERI PRADIP JAYRAJ	116	030927	MR. SUBODH JOGINDERNATH BHEL
78	017922	MR. KULKARNI SUHAS SHANKAR	117	030947	MR. VIMADALAL SHARADKUMAR VITHALDAS
79	017974	MR. SOMAIYA LALIT JIVRAJBHAI	118	031081	MR. RAMNATH G K
80	017979	MR. SARAF SAJJAN LAL	119	031098	MR. PATEL HEMANT RAMANLAL
81	018332	MR. SUKUMAR T V	120	031100	MR. SIGANPORIA PARVEZ MEHLI
82	018577	MR. RAVI SHANKAR G K	121	031134	MR. MUSTAFA YAHYABHAI JAMALI
83	018661	MR. SIVAKUMAR R	122	031167	MR. BHANUSALI MANGALDAS LAXMIDAS
84	018721	MR. RAMAIAH KRISHNAN	123	031221	MR. SHAH HIREN CHINUBHAI
85	019216	MR. BHAT BALAKRISHNA U	124	031235	MR. VIJAY KUMAR GOYAL
86	020393	MR. GURUMURTHY V V	125	031313	MR. KATARIA AMRUTLAL MAGANLAL
87	020534	MR. RAMAKRISHNAN R	126	031321	MR. BIPINCHANDRA KANTILAL THAKKAR
88	020575	MR. JAIN BHAVARLAL	127	031352	MR. HODIWALA OORVAX KERSI
89	021558	MR. SHANBHOG JAYARAM	128	031611	MR. SANGANI ANIL JAYANTILAL
90	021838	MR. SSWAMINATHAN	129	031760	MR. SURESH UDHAWDAS RADHAKRISHNANI
91	022089	MR. R SREERAMAMURTHY	130	031792	MR. MALLYA YESHWANT SRINIVAS
92	022304	MR. SEKAR A	131	031840	MR. SHAH PANKAJKUMAR RATILAL
93	023260	MR. SRINIVASAN A	132	031885	MR. RAKESHSHARMA
94	023759	MS. ELIZABETHJOSHUA	133	032020	MR. MALDE CHANDRAKANT,ZAVERCHAND
95	024793	MR. THOMAS JOHN	134	032095	MR. REGE SUBHASH VINAYAK
96	025612	MR. JAGDISH KUMAR G	135	032111	MR. DILKHUSH RAJ JAIN
97	026823	MR. MURTHY N T	136	032217	MR. AGARWAL ASHOKKUMAR MULKRAJ
98	027636	MR. CHATURVEDI GANESH PRASAD	137	032220	MR. TENDULKAR KRISHNA GAJANAN
99	029019	MR. C SHYAM SUNDER	138	032443	MR. RESHAMIYA PRAVINCHANDRA HARGOVINDDAS

S.No.	MRN	Member Name & Address
139	032462	MR. DESAI JAWAHAR NAVINCHANDRA
140	032630	MR. CHOUDHARY GOPAL DAS
141	032650	MR. DINESHKUMAR KANTILAL SHAH
142	032683	MR. DIAS MARK DERRICK
143	032929	MR. SHAH PARIMAL RASIKLAL
144	032943	MR. BAROT PANKAJKUMAR GHANSHYAMBHAI
145	033128	MR. CHAPHALKAR SANJAY VASANT
146	033209	MR. MEHRA SUNILKUMAR HARBANSLAL
147	033365	MR. SHAH PRASHANT GHANSHYAMLAL
148	033397	MR. MEHTA GIRIN ANANGBHAI
149	033416	MR. MEHTA AJAY KANTILAL
150	033575	MR. SOMANI VINODKUMAR GOVINDRAM
151	033618	MR. ANAND VASANT DESHPANDE
152	033659	MR. ANTAO EDWARD ROBERT
153	033785	MR. BHATTU SURESH SHRIPADRAO
154	033842	MR. PARDIWALA HOMI CAVAS
155	033975	MR. NAIR VENUGOPAL BALAN
156	033984	MR. PATEL JAI MAHENDRABHAI
157	034077	MR. TARA CHANDJAIN
158	034162	MR. ASRANI MAHESH MANOHARLAL
159	034193	MR. DESAI YASHODHAR NATVARLAL
160	034223	MR. SUNDERESAN RAMNATH
161	034318	MR. POPAT AJAYKUMAR CHIMANLAL
162	034331	MR. GOPALRAMOURTI
163	034343	MR. VAKHARIA HEMANT KANAIALAL
164	034376	MR. HARLALKA PAVANKUMAR DEOKINANDAN
165	034396	MR. ATUL JITENDRA AGARWAL
166	034560	MR. SHENDE ABHIJIT VASUDEO
167	034645	MR. PAREKH DIPAK RASIKLAL
168	034836	MR. TRIVEDI KIRAN BACHUBHAI
169	034886	MR. KUMAR R
170	034911	MR. SHISHODIA BHURA HAMIR
171	035111	MR. MAHENDRA KUMARAGARWAL
172	035188	MR. SHARMA KRISHANKANT VED
173	035209	MR. PATEL BIMAL JAYANTKUMAR
174	035290	MR. VIVEK SATISH CHHABRA
175	035341	MR. YOGESHKUMAR GIRISHKUMARJIJAJOO
176	035359	MR. SATHYE PRADEEP GANESH
177	035413	MR. KAPADIA MANSINH MADHAVDAS

S.No.	MRN	Member Name & Address
178	035439	MR. SHESHADRI SRIKANTH
179	035622	MR. SHAH LALIT BABULAL
180	035739	MR. NAGAR BABULAL
181	035747	MR. AGRAWAL RAMDEO RAMGOPAL
182	035760	MR. MEHTA JAYESHKUMAR LALLUBHAI
183	035773	MR. SHETH PRAMODKUMAR VRAJILAL
184	035920	MR. BAGADIA AJITKUMAR SHANTILAL
185	035938	MR. ALMEIDA DERRYCK IGNATIUS
186	035977	MR. NIRMAL SINGH MADAN MANSINGH
187	036024	MR. DOSI SANJAY
188	036140	MS. SHAH BELA JIGISH
189	036283	MR. UPADHYAY RAM BABOO
190	036291	MR. KAJREKAR VIVEK SADASHIV
191	036310	MR. COLSAWALA MEHERNOSH ERACH
192	036332	MR. NANGIA JAYANT RUPLAL
193	036352	MR. SRIDHAR VEMURI S
194	036367	MS. SINGH NEERU BRIJINDER
195	036506	MR. CHOUDHARI NIRMAL KUMAR
196	036597	MR. DESAI JAYESH A
197	036601	MR. KATARIA MAHESH GOVINDJI
198	036709	MR. JAIN VIJAY KUMAR
199	036754	MR. SOHONI SHARAD GAJANAN
200	036949	MR. MEHTA MANISH GIRISHCHANDRA
201	037066	MR. DAUD ZAFAR SIRAJ
202	037102	MR. MEHTA NIPUN SUMANLAL
203	037168	MR. NATHANI PRAKASH MATADIN
204	037178	MR. SHAH SANJAY GOVINDLAL
205	037219	MR. NAIK MANGESH MANOHAR
206	037285	MR. KANE PRASHANT PARSHURAM
207	037417	MR. SARDA BHAGWAN SHRINIVASJEE
208	037538	MR. MUCHHALA, APURVA JASWANTLA
209	037580	MR. SINGH AWADHESH NARAYAN CHHABI NARAYAN
210	037600	MR. JI-UMKHALAATUL AVNIDHER
211	037664	MR. CHANDRA KUMAR CHHABRA
212	037692	MR. HRISHIKESH MARUTI CHAVHAN
213	037737	MR. CHOKHARE SUNIL SHANKARRAO
214	037786	MS. TYAGARAJAN VIJAYALAKSHMI
215	037925	MR. TOPRANI JANAK RANJIT
216	038039	MR. PATEL VASANT PRAGJIBHAI

S.No.	MRN	Member Name & Address
217	038081	MR. KANABAR DHIREN JAYANTILAL
218	038212	MR. JALAN PRAMOD KUMAR
219	038269	MR. KASLIWAL PRAMOD DHANALAL
220	038361	MR. RAO KIRTI SHANKAR
221	038373	MR. KADAKIA TUSHAR MANUBHAI
222	038398	MR. SERRAO LAWRENCE CAJETAN JOHN
223	038449	MR. GAIKWAD BALKRISHNA HARIBHANL
224	038707	MR. PURANIK ANIL DEVENDRA
225	038826	MR. MUTHA ANIL DEVICHAND
226	038832	MR. PATIL ANIL BHASKARRAO
227	038883	MR. MEHTA UPENDRA VASANTLAL
228	038999	MR. BROACHWALA KANAYALAL BABULAL
229	039158	MR. THAKUR GOKUL SINGH RASAL SINGH
230	039165	MR. TOSHIWAL SHIV LAL
231	039207	MR. CHAUDHARI LALIT NAMDEORAO
232	039225	MR. DAHIVALKAR VILAS UDHAVRAO
233	039237	MR. DESAI SUDHIRKUMAR KIRTIDEV
234	039267	MR. RAGHAVAN KULASHEKAR V
235	039274	MR. CHACKO JOB
236	039282	MR. PARASRAMPURIA SANDEEP SITARAM
237	039296	MR. SHARMA SANDEEP KANT
238	039308	MR. CALDEIRA BOSCO WELLINGTON
239	039339	MR. LIMAYE BHUSHAN SUHAS
240	039346	MR. MALLADI SESA SRINIVAS
241	039429	MR. MEHTA KETAN BALKRISHAN
242	039557	MR. KHANNA RAJESH MADAN
243	039928	MR. AJAY HIMMATLAL MEHTA
244	039940	MR. HAJARE LAXMIKANT BABURAO
245	039989	MR. RAMESH RAMAKRISHNAN KARATH-ADETHA
246	039993	MR. DHONDE BHARAT KISAN
247	040001	MR. MISQUITTA GERARD FRANCIS
248	040096	MR. BHATIA ANIL CHUNILAL
249	040101	MS. RAMESH LATA K R
250	040185	MR. GOVINDARAJAN DEVANATHAN
251	040314	MR. GABHE ANIL VASANT
252	040326	MR. DOSHI RAKESH
253	040350	MR. SWAMY SIVASKANDAN
254	040352	MS. KOHLIHARDEEP SWINDARSINGH
255	040361	MR. IYER VENKATESHWARAN RAMAKRISHNAN

S.No.	MRN	Member Name & Address
256	040404	MR. RAVIKAPOOR
257	040411	MR. BHATT PANKAJ HARI LAL
258	040439	MR. KHANOLKAR ARAVIND SRIPAD
259	040532	MR. NICHANI NARENDRA TRIBHAVANDAS
260	040585	MRS. IRAVATI NITIN NARVEKAR
261	040640	MR. GALA NAVIN RATANSHI
262	040664	MR. LOYA RAJESH MOTILAL
263	040678	MR. JAIN PURNANDU
264	040939	MR. AHUJA DEVINDER SHAMSUNDER
265	040961	MR. TRIVEDI DHARMESH LALITKUMAR
266	040994	MR. SELBY SUNIL HENRY
267	041111	MR. SHANBHAG KETAN GOPAL
268	041153	MR. JAIN NIRMAL CHANDRA BHANWARLAL
269	041195	MR. PAREEK RAJESH KUMAR
270	041211	MR. THACKER PRANAV JYOTINDRA
271	041216	MR. KHANDELWAL MUKESH RAMBABU
272	041250	MR. GADA SHANTILALNARSHI
273	041258	MR. MANSUKHANI VIJAY LACHMANDAS
274	041373	MS. SANJANA TINA FURROKH
275	041428	MS. SHAH PURNIMA JITENDRA
276	041447	MS. VAIDYANATHAN VIJAYALAKSHMI
277	041455	MR. SOONAWALLA SHIAMAK EDUL
278	041499	MR. SUPEKAR REKHIV PANDURANG
279	041524	MR. CHATURVEDI VINOD KUMAR
280	041556	MR. PATEL DIPAKKUMAR INDRAVADANBHAI
281	041592	MR. VAIDYA PRAMOD BALKRISHNA
282	041640	MS. SHETTY MEENAKSHI NAGESH
283	041648	MS. SHETTY NAYAN MANOHAR
284	041684	MR. RAJU V
285	041710	MR. BALASUBRAMANIAN RANGANATHAN IYER
286	041725	MR. PAREKH ARUNKUMAR JAYENDRAKISHOR
287	041809	MR. SRIRAM PADMANABHAN
288	041816	MR. KAMPANI ATUL KRISHANLAL
289	041829	MR. ADVANI DEEPAK
290	041866	MR. DOSHI MANISH HASMUKHLAL
291	041946	MR. JAIN VIPIN KUMAR
292	041948	MS. DINAZ RAMESH PADMANABHAN
293	042027	MR. MAHESHWARI RAJESH TULSIRAMJI
294	042067	MRS. DIPTI DEEPAK ADVANI

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
295	042087	MR. KRISHNAN N G GANAPATHY M R	331	044014	MR. MADGAVKAR NIKHIL VINAY
296	042098	MR. SHAH SNEHAL SUBODHCHANDRA	332	044017	MR. RANE PRAVIN KRISHNA
297	042115	MR. NAGARAJAN SRIDHAR	333	044060	MRS. SANGTA S
298	042128	MR. BORKAR SHAILESH DATTATRAYA	334	044146	MR. MERCHANT MUSTAFA ISMAILBHAI
299	042205	MS. BHATT SANGEETA SUNDARLAL	335	044243	MR. JAIKRISHNA MOORAJMAL KELVANI
300	042235	MS. TEKADE SHARMILA NARAYAN	336	044244	MR. KAMAT NITIN NARSINHA
301	042242	MR. PANDYA MANOJ DURGASHANKAR	337	044245	MR. NEGI GOVIND SINGH
302	042314	MR. CHHABRA GURCHARAN SINGH	338	044253	MR. PALLATHUSERIL KURIAN CHANDY
303	042327	MR. MAHAJAN MAKARAND HARIBHAU	339	044284	MR. PRAVEEN MANIKCHANDIRAMANI
304	042350	MR. SADRUDDIN ABDULKARIMKHETANI	340	044321	MR. KULKARNI MAHESH DIGAMBAR
305	042366	MS. VIJAYALAKSHMI DEVARAJAN	341	044342	MR. DALAL PARESHKUMAR RAMANLAL
306	042396	MR. KASBEKAR MAHESH SHRIPAD	342	044390	MR. CHHAJED SANJAY SANCHALAL
307	042530	MR. LIMAYE UNMESH MADHAV	343	044428	MR. THAKKAR ANILKUMAR KANTILAL
308	042587	MS. MACCAWALA RASHIDA FAKHRUDDIN	344	044438	MR. KAMANI SURAMYA NAVIN
309	042603	MR. RELE CHETAN CHATURCHANDRA	345	044459	MR. CHINNATHAMBI YADAVAR RAVI
310	042616	MR. JIBAN KRISHNA AMALENDU MUKHERJEE	346	044494	MR. PATEL SHASHIKANT SHANKERLAL
311	042689	MR. MODAK KAUSHIK	347	044545	MR. JAI PRAKASH SHARMA
312	042721	MR. NIKHIL MOHANDAS GANGOLI	348	044554	MR. SHAH BHAVESH H
313	042745	MR. CHOPRA RAJESH	349	044634	MR. VYAS HITESH P
314	042875	MR. SHAH SUJAL PRAVINCHANDRA	350	044642	MR. SHAH KEYUR BACHUBHAI
315	042884	MR. PATEL SNEHAL MAHAVIR	351	044792	MR. JAINPRADEEP KUMAR
316	042938	MR. VIRA KHUSHALCHAND DUNGARSHI	352	044799	MS. WASUDHA SKORKE
317	042946	MR. SAPRE SAMAR PRATAP	353	044800	MR. KIZHAKEPAT MURALI SANKARANKUTTY
318	043121	MR. KANGLE ABHAY PURUSHOTTAM	354	044836	MR. YATIN AVINASH PATWARDHAN
319	043123	MR. KARKHANIS SANJEEV SHRIKRISHNA	355	044864	MS. YAJNIK VIJAYSHREE VIJENDRA
320	043142	MR. PAGEDAR SUNIL ARVIND	356	044985	MR. MANOJ GANGADHARAN NAIR
321	043146	MR. MAHAJAN VINIT GAJANAN	357	045077	MR. DADHEECH SANTOSH
322	043234	MR. BALAKRISHNAN RAVISHANKAR K	358	045088	MR. THAKKAR CHINTAN ARVINDBHAI
323	043359	MR. KANE VISHWANATH MADHAV	359	045108	MS. NEENA JEANMONTEIRO
324	043377	MS. VALIA RAVITA RAMESH	360	045144	MR. KAMLESH ARVINDPARASNIS
325	043422	MR. SHARMA SUNIL GIRWARNARIN	361	045148	MR. KIRAN SHARAD VICHARE
326	043508	MR. RATHOD MAHENDRA GOVINDBHAI	362	045151	MR. WADEKAR MAHESH GOVINDRAO
327	043551	MR. KAMATH SURESH VASUDEV	363	045171	MR. SHAILESHKUMAR MADANLAL VORA
328	043557	MR. SHAH BIMAL MAHESH	364	045174	MR. SUNIL JAGANNATH SAWANT
329	043563	MR. THUMMAR MANSUKHLAL BACHUBHAI	365	045184	MR. MAHADEVAN A
330	043832	MR. NEVILLE SOLIKARBHARI	366	045261	MR. BRIJ BHUSHAN

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
367	045284	MS. SUGANTHI GANESH	401	046471	MR. WADHWANI HIRESH
368	045323	MR. VIRK ARVINDER JATINDER	402	046501	MR. CHAKKIWALA MOIZ SAIFUDDIN
369	045330	MR. SURVE ASHISH MADHUKAR	403	046576	MS. SALGAONKAR VAISHALI SURESH
370	045347	MR. PANGAONKAR SUBHASH RAJKUMAR	404	046666	MR. BILLIMORIA BURZIN ARDESHIR
371	045445	MR. RAJEEV KUMAR SINGHAL	405	046679	MR. SHAH PARAG DWARKADAS
372	045471	MR. ANAND RAMAN	406	046682	MS. KAPUR SANGEETA RAJENDRA
373	045524	MR. BARBHAIIYA JAYENDRA PRAHLADBHI AI	407	046742	MR. LAHOTY ARVIND
374	045525	MR. KARANDIKAR NEIL VITHAL	408	046747	MR. SAMANT SUHAS SHANTARAM
375	045648	MR. KOTWAL ATUL ARVIND	409	046823	MS. TANKSALI BINA KRISHNA
376	045724	MR. CHETAN KUMAR	410	046883	MR. GAGLANI CHETANKUMAR MANHARLAL
377	045748	MS. SAWAIKAR SUDHA PRADIP	411	046997	MR. MEHTA NIMESH RAMNIKLAL
378	045825	MR. PATHAK RAVINDRANATH DEVENDRA NATH	412	047009	MR. SONI ASHOK RADHESHYAM
379	045848	MR. SHROFF PRAKASH PARSHOTAMDAS	413	047041	MR. GUPTA SURENDRA BHAGWATI
380	045872	MS. VINAYA NIKHIL DIWADKAR	414	047092	MS. PATEL DEVAL KESHAVAL
381	045874	MR. RAJNEESH KUMAR JOSHI	415	047099	MS. RUMACHOUDHARY
382	045901	MR. MAHESHWARI DINESH KUMAR	416	047133	MR. DAGAMA ARTHUR WOODROW
383	045961	MR. THAKUR SHRIPAD CHANDRAKANT	417	047139	MR. GUPTA SANJAY KUMAR
384	046006	MR. CHONKAR SANDESH RAVINDRANATH	418	047144	MRS. MANISHA NAIMISH ANARKOT
385	046024	MR. ANANDKUMAR GOVINDPRASAD MUNDRA	419	047192	MR. PRASHANT SUBHASH SWADI
386	046036	MR. KOTHARI CHETAN KAUSHIKLAL	420	047231	MR. UTTARWAR RAJIV
387	046109	MR. VARGHESE JAMES	421	047240	MS. KOPPULY SAJITA KUMARAN
388	046144	MR. IYER KEDAR VENKATESWARAN	422	047245	MR. AGARWAL SANJAY
389	046151	MR. HONKAN MUKUND MADHAV	423	047263	MR. SREEDHAR KASTURIRENGAN GANAPATHY
390	046173	MR. BALDEV PRASHANT VASANTLAL	424	047280	MR. BHANDARI DEEPAK RAJVEER
391	046190	MR. ANIL KUMARAGARWAL	425	047291	MR. ISMAIL DANISH
392	046191	MR. VAIDYA AJIT VASUDEO	426	047358	MR. RANGWALLA ZUZAR YUSUF
393	046193	MR. ANIL PETER	427	047372	MR. MOTI KISHINCHAND LUDHWANI
394	046244	MR. SHAH KALPESH KANTILAL	428	047514	MS. KAPADIA MEENA DEVENDRA
395	046277	MR. KHURANA VIPIN SUDERSHAN	429	047641	MR. BADALA SUNIL
396	046289	MR. JASANI SHAILESH KANTILAL	430	047666	MR. SHAH PRANAV CHANDRAKANTBHAI
397	046324	MR. SAIRAM SUBRAMANIAN	431	047680	MR. MANOJ NARAYAN
398	046400	MR. TIKOTKAR HARISH NARAYAN	432	047744	MR. SIRAJ MOHAMEDALIBHAVNAGARWALLA
399	046430	MR. DEEPAK SHANTILAL LUNAVAT	433	047818	MR. KALYANI RAJESH
400	046435	MR. NAUTIYAL ALOK	434	047835	MS. ASHU SUYASH

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
435	047912	MR. BASOPIA HASMUKH NATHALAL	469	049034	MR. TATED CHANDRA PRAKASH
436	048037	MR. SHAH UPESHKUMAR KESARICHAND	470	049078	MR. MUQADAM NOORAHMAD HASAN
437	048116	MS. MRIDULA PRANAY SRIVASTAVA	471	049109	MR. SHARDA MUKESH LALITSHANKER
438	048140	MS. SHETTY LEENA KUNJAN	472	049228	MR. MEHUL JESHTARAM SOMAIYA
439	048177	MR. SHAH NISHITH VINODBHAI	473	049240	MR. MISTRY BHARAT RASIKLAL
440	048224	MR. NAIR SHAJI KARUNAKARAN	474	049350	MS. RAJALAKSHMI THIAGARAJAN
441	048245	MR. MAHENDRASINH FULUBHA RANA	475	049353	MR. HEMMADY YADAVRAMA
442	048292	MR. AGARWAL RAJESH MOTIRAM	476	049365	MR. BANSAL RAVI KAILASH
443	048310	MR. VIRAF DHUNJISHAWKATRAK	477	049432	MR. IYER PANCHAPAKESAN SUBRAMANIAN
444	048329	MS. SHAILAPEREIRA	478	049457	MS. TAYSHETYE NEETA SURESH
445	048347	MR. JANI BIMAL ANIRUDHA	479	049494	MR. NARENDRACHITLANGIA
446	048365	MS. IYER GAYATRI KRISHNAN	480	049520	MR. DEODHAR SACHIN PRABHAKAR
447	048370	MR. VENKATESH GANESAN	481	049521	MR. ARUN MANGILAL LUHARUKA
448	048493	MR. RAVINDRA SADANAND KAMAT	482	049538	MS. SACHWANI KAVITA BALKRISHIN
449	048499	MR. ROONGTA ATUL PARMESHWAR	483	049584	MR. BANDUKWALA FAKHRUDDIN JABIR
450	048505	MR. VICHARE SUSHIL DATTATRAY	484	049603	MR. SHAILESHKUMAR LALJIBHAI PRAJAPATI
451	048623	MR. PAREKH JAYESH NATWARLAL	485	049696	MR. SUNIL RAMACHANDRAN
452	048635	MR. KASLIWAL SATISH KANWARILAL	486	049727	MR. PANDYA HITESH JASWANTRAI
453	048728	MS. IYER VIDYA BALAKRISHNAN	487	049750	MRS. VIBHUTIRAVISHANKAR
454	048735	MS. SHISWAWALA KOSHA PARAG	488	049753	MRS. MARY GREGORY
455	048769	MR. KARKHANIS ASHISH SHRIKRISHNA	489	049772	MS. DALAL MITALI SURESH
456	048790	MR. MUNDHRA PRAMOD KUMAR	490	049793	MR. PRABHUDESAI ASHUTOSH VIJAY
457	048800	MR. GUPTA VINAY VIRENDRA	491	049872	MR. NAIR K RAJESH KUMAR
458	048831	MR. VEMURI UDAYBHASKAR	492	049899	MS. SANGITA VIJAYCHANDJI BARDIA
459	048839	MS. JAYANTI RAMDAS	493	049927	MS. HAZEL MEERA D'SOUZA
460	048840	MR. KARAMBELKAR SUHAS RAJENDRA	494	049982	MRS. MUKTI DEVANG BAVISI
461	048869	MR. SHANBHAG GANGADHAR RAGHUVIR	495	050050	MR. VENKATARAMAN T
462	048887	MR. SRAMESH	496	050091	MR. GAUTAMDATTA
463	048902	MR. DIMPLEKUMAR NAVINCHANDRA SHAH	497	050433	MR. DAMANI SUSHIL KUMAR
464	048917	MR. OKE SAMIR SHASHIKANT	498	051009	MR. DAS BISWANATH
465	048937	MR. GUPTA AJAY MOHINDERPAUL	499	051889	MR. GHATAK SUPRIO
466	048979	MR. PRADEEP PUSHKARMAL GUPTA	500	052133	MR. GOSWAMI PRASANTA KUMAR
467	048999	MR. JAIN GANESH BRIJLAL	501	052524	MR. BHOWMICK BHASKAR
468	049016	MR. PATEL HEMANTKUMAR CHATURBHAI	502	052864	MR. ANANTHAN P



S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
503	053066	MR. YESHAWANT V. JOSHI	535	060870	MR. BALASARIA MAHENDRA
504	053644	MR. SAILESHCOUSIK	536	060960	MR. GUPTA BIKASH CHANDRA
505	054374	MR. PVISWANATH	537	061403	MR. HARLAKA AMIT
506	054480	MR. RAGHUPATHY S	538	061681	MR. ARUN KUMAR AGARWAL
507	054668	MS. SHYAMAMENON	539	063808	MS. KISHORE KRITI
508	054770	MR. NOELALMEIDA	540	063826	MR. DHURVA KUMAR SHUKLA
509	055477	MR. JOHN KOSHI	541	070803	MR. JAIN ASHOK KUMAR
510	055506	MS. SHOBHA T M SWAMINATHAN	542	071896	MR. ANINDYADATTA
511	056057	MR. INDRAJIT BASU	543	073125	MR. JAYARAMAN SRINAGESH
512	056113	MR. NARENDRA KUMAR PATI	544	073132	MR. RAJAN PURI
513	056309	MR. CHAKRAVARTY SABYASACHI	545	073342	MR. PREMCHANDPARAKH
514	056344	MR. PARTHA DE	546	073425	MR. BHANDARI BALVEER RAJ
515	056355	MR. DUTTA ANUP	547	074282	MR. KAPIL KUMARASERI
516	056654	MR. CHAKRAVARTI SANJAY	548	074320	MR. MATHUR AJAY
517	057147	MR. SANJEEV KUMARDUGAR	549	074475	MR. DIPAK KUMAR
518	057737	MR. JAIN KAPISH	550	074573	MR. ARORA VIMAL
519	057971	MR. JAISWAL DINESH KUMAR	551	074640	MR. SINHA RAJESH
520	058093	MS. JAIN LEENA	552	074939	MR. GHATAK MALAY KUMAR
521	058321	MR. JAIN SANJEEV	553	074968	MR. MUKESHMISHRA
522	058410	MR. AGRAWAL ASHOK KUMAR	554	075170	MR. RAJESH BHANDARI
523	058514	MR. PATWARI NIRAJ	555	075429	MR. VIRENDRA GARG
524	058951	MR. SENGUPTA SWADHIN	556	075630	MR. SANJAYDAGA
525	059019	MR. AJAY KUMAR BAID	557	075680	MR. SHARMA SUNIL KUMAR
526	059152	MR. KUNDU PROLAY	558	076923	MS. HIRAN SEEMA
527	059193	MR. GEORGE LIJU KURIAN	559	077141	MR. ANIL KUMARBAJPAI
528	059291	MR. RUNGTA SUDIP	560	077315	MR. PRAKASH CHAND
529	059442	MR. VIKASH KUMARJAIN	561	077323	MR. BHANDARI RUPESH
530	059622	MR. MOHAPATRA SANJIB KUMAR	562	077696	MR. LALWANI SANJAY
531	060211	MR. BAHETI PANKAJ	563	077719	MR. JAJODIA NILESH KUMAR
532	060267	MR. JAIN ANSHUL	564	077725	MR. SHAH HIMANSHU KUMAR
533	060468	MR. PODDAR VIVEK	565	077736	MR. BHANSALI BASANT
534	060652	MR. GUPTA MANOJ	566	077790	MR. ANIL KUMAR

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
567	078160	MR. PRASHANT GUPTA	601	096767	MR. JHANWAR SHRUTI SHEEL
568	078294	MR. PATWA MANOJ	602	097183	MR. PERIWAL SHYAM SUNDER
569	078616	MR. BHUTRA RAJESH KUMAR	603	098586	MR. SINGH DILIP
570	078706	MR. KASLIWAL LALIT KUMAR	604	098803	MR. TIWARI SHAILENDRA KUMAR
571	078849	MR. DOSHI B. SHIRISH	605	099793	MR. GUPTA AMIT
572	078871	MS. MOONDHRA SHILPI	606	100053	MS. PATHARE ASHA PANDURANG
573	078929	MR. JAIN ASHISH	607	100105	MR. GUPTA NISHITH DEVENDRA
574	079132	MR. BHATTAR DINESH KUMAR	608	100130	MR. SHENOY JAGDISH VASUDEV
575	079379	MS. BAFNA RASHMI	608	100161	MR. JOSHI MANDAR VINAYAK
576	079695	MR. SONI TARUN	610	100181	MR. BHANSALI ATUL
577	079780	MR. JAIN MANISH	611	100198	MR. MOBEDJI HOMEYAR JIMMY
578	079790	MR. MAHESHWARIAKSHAY	612	100303	MS. PAI SHEELA NARAYAN
579	079922	MR. JAIN LOKESH KUMAR	613	100367	MR. RAVINDRA GANESH RAJWADE
580	079975	MR. JAIN DAULAT RAJ	614	100382	MR. RAJGOPAL ASHOK VELLUR
581	080214	MR. SHARMA SHIV KUMAR	615	100392	MR. SAMIR DUSHYANT THAKKAR
582	081686	MR. BAJAJ MANOHAR BHAWANDAS	616	100435	MR. VORA RAJEEV HANSKUMAR
583	084257	MR. ASEEMRAI	617	100451	MR. DALAL SAMIR BHUPENDRA
584	084797	MR. SRIDHAR V	618	100510	MR. DILIP KUMARSONI
585	086140	MR. A V VRAVI SANKAR	619	100523	MR. INANI PRAHLAD RAI
586	087263	MR. UPPAL SANJEEV	620	100562	MR. DEO DINESHKUMAR UMESHCHANDRA
587	087987	MR. AGRAWAL RAJEEV	621	100566	MRS. SHILPAPATHAK
588	088888	MR. SIVARAMAKRISHNAN C R	622	100584	MR. SHAH RAJAN SURESH
589	089949	MR. SUMIT MALIK	623	100631	MR. SUBHASH RANGA KOTHARI
590	090757	MS. GUGNANI ASHU	624	100698	MR. TUKARAM RAGHUNATH RASAM
591	091079	MR. PANKAJ DHANDHARIA	625	100711	MR. NARENDRA SUDHAKAR BARVE
592	091849	MR. BHANDARI GAUTAM	626	100735	MR. PESHOTAN RUSTOM FRAMJEE
593	092075	MR. LAL RAM SHANKER	627	100767	MS. AJWANI SAPNA HIRANAND
594	092701	MR. KRISHNAN VIJAYSHANKAR	628	100769	MR. PODDAR RAVIKANT VISHWANATH
595	093717	MR. MOHAN	629	100772	MR. PATIL DEEPAK ANANT
596	093874	MR. LALIT KUMAR	630	100804	MR. VIJAY PURUSHOTTAMDAS AGRAWAL
597	094167	MRS. NEELUCHOWDHARY	631	100822	MR. JAIN SURESH KUMAR
598	095583	MR. SHAHANI ANUJ	632	100912	MR. PANCHAL GAURAV
599	095760	MR. MOHTA NAVEEN	633	100915	MR. SAYED ABDUL ALIM RAJABALI
600	096632	MR. DWIVEDI AMANDEEP	634	100936	MR. IYER SRIN VASAN GANESAN

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
635	100964	MRS. NEHANISHITHSHAH	669	102086	MR. DIAS JOSE STEPHEN
636	100998	MR. AGARWAL ABHISHEK BALKUMAR	670	102135	MR. PARAG HARSHADRAI DOSHI
637	101035	MR. GOSAR MAHENDRA VISANJI	671	102161	MR. LADDHA SUMIT SURESH
638	101061	MR. SALIAN SUJIT JANARDHAN	672	102181	MR. BEEDU DEEPAK
639	101077	MR. DALAL ATIT KISHORECHANDRA	673	102190	MR. BHIDE MAYURESH SHRIRAM
640	101143	MR. PUJARE VINAYAK SHRIRAM	674	102273	MS. DESAI NAYANA SHRIDHAR
641	101154	MR. SUDHIRMEENAKSHISUNDARAM	675	102286	MS. BHIDE AARTI SHIRISH
642	101203	MR. THAKKAR RAJAN VISANJI	676	102290	MR. SINHA SHASHI
643	101207	MR. DESHPANDE GIRISH VISHWANATH	677	102320	MR. KHATU RAJENDRA SADANAND
644	101228	MS. MAHADIWALA RAFIQA HAFIZ	678	102338	MR. JAKHORIA DHARMENDRA
645	101306	MR. IYER RAMANATHAN VENKAT NARAYAN	679	102342	MR. DOSI DEVENDRA P
646	101312	MS. MERANI RESHMA RADHAKISHIN	680	102360	MR. PRATAP RAJARAM MOHITE
647	101314	MR. CRASTO ANTHONY LAWRENCE	681	102377	MR. METHI RAJESH HARILAL
648	101316	MR. SAVLA BHARAT PREMCHAND	682	102410	MR. RAHUL VIJAY
649	101325	MR. MOTA VIKRAM KANTILAL	683	102483	MR. PATTARKINE MILIND MANOHAR
650	101340	MR. JOSHI DIPAK HASMUKHRAI	684	102578	MRS. ANITASUDHIRPANGAONKAR
651	101347	MR. NALAWADE VIJAY GENUBHAI	685	102604	MR. ATUL DOLARRAI RAJANI
652	101358	MS. SHAH RAJVI L	686	102631	MS. BANGARI MAYA DEVSINGH
653	101378	MR. DIXIT ATUL VIDYADHAR	687	102636	MR. PRAJIT VASUDEVAN
654	101470	MS. GEORGINA KURIAN	688	102643	MR. CYRUS A NARIMAN
655	101521	MR. KOTHARI KALPESH KIRTIKUMAR	689	102660	MR. GUPTA MANOJ SATISH CHANDRA
656	101534	MR. BHAVIN H SHAH	690	102741	MR. RISHIKESH RAMESHCHANDRA TRIVEDI
657	101559	MR. MRUGEN HARINDRANATH TRIVEDI	691	102753	MR. MANSUKHANI AJAY BHAGWAN
658	101595	MR. TUMULURI RAMMOHAN	692	102777	MR. GURUSWAMY SATHYANARAYAN
659	101646	MS. SHAH SHITALBEN SEVAKBHAJ	693	102804	MR. IYER RAJAGOPALAN REGHUPATHY
660	101718	MS. SUSHMA NARAYANANVARIYAR	694	102833	MR. KUMAR HARSHAD SHETH
661	101727	MR. AJIT ARAVIND MENON	695	102843	MR. SHITOLE VINAYAK SHAHAJIRAO
662	101795	MR. IYER SUNDARAM GANAPATHY	696	102879	MRS. SWATI SUNIL GADGIL
663	101873	MR. AMMANNA SUDHAKAR CHRRISTAN	697	102895	MR. SHAH BHAVESH MAHESH
664	101912	MR. CHETAN NAVINCHANDRA SHAH	698	102908	MS. GHEI DIMPLE MITRADEV
665	101935	MR. Y RAJHAGOPALASHARMA	699	102988	MR. SUNIL KRISHNA VARTAK
666	101947	MR. MISQUITH VINAY GEORGE	700	103087	MS. JAIN ABHA
667	102018	MR. NIMESH MAHESHKUMAR SHAH	701	103105	MR. AJIT VINCENT ALFRED SEQUEIRA
668	102049	MS. PRABHU CASTELINO SEEMA JOSEPH	702	103122	MS. SINGH RAGINI RAJ KISHORE

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
703	103175	MR. BARLOTA PRAMEESHKUMAR PARASMAL	738	104259	MR. SHARMA SANJAY SABARMAL
704	103249	MR. MANEKSHANA MURZASH SOHRAB	739	104301	MR. AGRAWAL ALOK RADHE
705	103300	MR. ROHIT RATAN TIBREWALA	740	104307	MS. SHARMA KALPANA SOHANLAL
706	103361	MR. SHAH HITESH CHANDRAKANT	741	104347	MR. PARIKH TILAK HASMUKH
707	103420	MR. LALIT KUMARBHATT	742	104387	MR. SHAH KAMLESH NALIN
708	103445	MR. CORREIA FRANCIS ANTHONY	743	104508	MS. PHANSE SAMPADA UDAY
709	103454	MR. KANADE RAJESH WAMAN	744	104513	MR. SANJAY ALOKE CHAKRABARTI
710	103476	MS. VARSHA NAVANITLAL SHAH	745	104517	MS. RASHMI K AGRAWAL
711	103478	MR. GOTHIVAREKAR PRASAD PRABHAKAR	746	104538	MR. DAMANIA VIRAL RAJNIKANT
712	103482	MR. NAIR MURALIDHARAN B.	747	104548	MR. VIPUL SHANTILAL GALA
713	103549	MR. JAIN KALPESHKUMAR S.	748	104556	MR. AJAY ANIL KALRA
714	103589	MR. SUJITCHERIAN	749	104610	MR. SHIRISH MANU VYAS
715	103623	MR. SANDEEP KUMARMANIYAR	750	104616	MR. SANTOSH RUPAJI KARAMBELE
716	103713	MR. DHOLAKIA NIKUNJ NITIN	751	104666	MR. NIMESH B PINCHANDRA SHAH
717	103714	MS. AMIN SMITHA NARAYAN	752	104697	MR. VISHAL RAMKISHAN AGARWAL
718	103718	MR. THERADE PRAKASH R.	753	104716	MR. ALPESH MAHESHKUMAR DALAL
719	103745	MR. AHYA CHETAN KISHORE	754	104728	MR. CHINTAN VIPUL DESAI
720	103748	MR. SHAH DESHAL NALINKUMAR	755	104759	MR. VISHAL GIRISHCHANDRA CHAPPER
721	103906	MR. NAWAL KISHOREJALAN	756	104826	MS. ANURADHA NEELKANTH DESHPANDE
722	103907	MR. PATEL SAVAN JAYENDRAKUMAR	757	104857	MS. RANJITA KJMARI
723	103924	MS. AGARWAL SHWETA HARISHANKER	758	104860	MRS. SNEHA SANDIP MEHTA
724	103935	MR. SOMESH MAHENDRA SABOO	759	104868	MR. CHANDRESH KISHORKUMAR BHATT.
725	103954	MR. TANNA RAJESH HIRALAL	760	104875	MR. TEJAS SUMATILAL KOTADIA
726	103967	MS. REKHA KANTILAL SHAH	761	104905	MR. RAHIM TAJUDDIN DHANANI
727	103979	MR. TATNIS ROHAN ARVIND	762	104926	MS. PRIYA DATTATRAYA TENDOLKAR
728	104042	MS. AGRAWAL SUNITA VIJAY	763	104943	MR. SAMEER MADHUKAR GADGIL
729	104044	MR. GAURAVAGARWAL	764	104945	MR. ATULKUMAR HASMUKHLAL PATEL
730	104087	MR. HISARIA SANDEEP SHASHIKUMAR	765	104990	MR. MSANTOSH SUNDARAM
731	104123	MR. TELLIS AJAY AUGUSTINE	766	105017	MS. KAMANA RAM GOPAL SINGH
732	104127	MR. MAJITHIA APURVA SUDARSHAN	767	105019	MR. LALITKUMAR DALSUKHBHAI GOHIL
733	104155	MR. PANKAJBHANSALI	768	105133	MR. CHETAN KRISHNA SHETTY
734	104191	MR. THADHANI SITESH LACHMAN	769	105172	MS. NADYA ASGARALI JASSANI
735	104215	MR. SHAH RUCHIR BHADRESHBHAI	770	105186	MR. DHARMESH JITENDRA KOTHARI
736	104224	MR. SOLANKI CHETAN SIDDHARAJ	771	105356	MS. AGGARWAL SHILPA OMPRAKASH
737	104244	MR. LOTKE SACHIN VIDYADHAR	772	105362	MR. KALPESH BHASKAR DESAI

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
773	105365	MR. NIKHIL GHANSHYAM DAGA	807	106253	MR. SHAH APURVA CHANDRAKANT
774	105379	MS. VASVI RAMESHBHAI JOSHI	808	106272	MR. ROHIT KANJIBHAI GOHIL
775	105404	MS. HOLLIDAY VINNU	809	106318	MS. PRATHIBHA MADHAVAN
776	105413	MR. CHETAN PANKAJ SHAH	810	106376	MR. KETANKUMAR SUBHASHCHANDRA SHAH
777	105489	MR. RAMESH MUDDU SHETTY	811	106382	MS. GEETA KRISHNANAND KAPRI
778	105501	MR. BIREN HASMUKHBHAI SHAH	812	106399	MR. SAMIR SHASHIKANT HEMANI
779	105534	MR. NARSINVA NAMDEV LOTLIKAR	813	106491	MR. GIRISHKUMAR RADHEYSHYAM PHALORH
780	105538	MR. PARAS KESHARICHAND SHAH	814	106543	MR. SACHIN CHAMPALAL MUTHA
781	105541	MR. PARESH HARIDAS SHAH	815	106552	MR. BHAT SUNDARESH
782	105570	MR. AMAR ARUN HAROLIKAR	816	106556	MR. PUNITKUMAR BALKRISHNA SHETTY
783	105582	MR. SAMEER RAMCHANDRA JATHAR	817	106628	MR. DARSHAN ANIL SHAH
784	105584	MR. SATISH KUMAR PANCHOLI	818	106633	MS. NIKITA MATHURADAS SHRESTHA
785	105595	MR. PEEYUSH KUMAR JAIN	819	106639	MR. JIGNESH DHANSUKH THAKKAR
786	105614	MR. DEVANG HASMUKHBHAI SHAH	820	106675	MR. IMTIAZ E NARGOLIA
787	105657	MR. SANGHAVI NIMISH CHAMPAK	821	106679	MR. AMIT KUMAR KHAN
788	105674	MR. SANDEEP SURESH AGRAWAL	822	106682	MR. NAVIN SUNDERDAS JAGESHA
789	105687	MR. RAJKUMAR G SOMANI	823	106740	MR. NAVIN BAJRANGLAL SHARMA
790	105689	MR. VIJAYAN GOVIND WARRIER	824	106767	MS. ASHVINI RAMCHANDRA PATIL
791	105717	MR. MEHTA HRITESH	825	106771	MS. VAISHALI SHANTIKUMAR KAPADIA
792	105726	MR. SUKUMAR SUSHANTA JAIN	826	106772	MR. YAZAD KERSI COOPER
793	105745	MR. NAIK SHRIKRISHNA JAIRAM	827	106795	MR. DEEPAKIDWANIA
794	105760	MR. DARSHAN NIRANJAN BHATT	828	106861	MR. RAKESH KISHORE BHANUSHALI
795	105857	MR. CHIRAG GHANSHYAM THAKKAR	829	106883	MRS. THAKRAR PARULBHARAT
796	105875	MR. WAHI ROHIT	830	106921	MS. VIDYA VENKATARAMANI
797	105888	MR. AGAL SUSHEEL	831	106943	MR. HARSHVARDHAN BHAWANISHANKAR KAUSHIK
798	105917	MR. SHAIKH NOOR MOHAMMED ABDUL HAK	832	106950	MR. CHOUDHURY ANUP
799	105922	MR. YOGESH K MHALASKAR	833	106963	MRS. PARUL C DOSHI
800	105927	MR. JOGIN NALINBHAI SHAH	834	106990	MR. SANJA SAMIR PANDA
801	105938	MR. VIKRAM CHANDRAKANT MEHTA	835	107010	MR. AVINASH RAMESH SHETTY
802	105958	MR. RAICHURA DHARMENDRA JITENDRA	836	107034	MR. BHANDARI AVINASH
803	105980	MR. TATIPARTI SARVESWARA RAO SASTRY	837	107042	MRS. SUMITHRA RAMESH
804	106062	MR. PAREEK RAJESH	838	107048	MR. UMESH S KHUSHALANI
805	106108	MR. KATARIYA PIYUSH	839	107058	MR. AGARWAL MANOJ
806	106164	MS. SINDHU KARUNAKARAN KARTHA	840	107073	MR. RAJENDRA KUMAR JAIN

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
841	107109	MR. CHATURVEDI VISHAL	875	108247	MR. YATIN SHARAD GANDHI
842	107124	MR. YATINKUMAR DDOLIA	876	108265	MR. BALRAJ HIMATLAL KHAKHAR
843	107132	MR. ATUL SUBHASHCHANDRA SANGHAVI	877	108278	MR. MEHUL DILIP SHAH
844	107189	MR. BHAVESH LILADHER UDECHA	878	108337	MR. DANGI MAHAVIR
845	107220	MR. MILIND EKNATH SHINDE	879	108340	MR. VARMA PREMSINGH
846	107252	MR. HARSH RANJIT ACHARYA	880	108377	MR. ABHIJEET PRABHAKAR DANDEKAR
847	107284	MR. CHIRAG JANARDAN DOSHI	881	108434	MS. SHOBHA PRABHAKARAN NAIR
848	107308	MR. JAGUBHAI BHAVSAR PARESH	882	108445	MS. MITA ARUN KUMAR MODI
849	107365	MR. ANUPAM PRATAP GORADIA	883	108452	MR. DARPAN SANDIP JHAVERI
850	107441	MS. CHETNA SHARADCHANDRA SHAH	884	108549	MS. NISHITA RAMESH MODI
851	107482	MR. AMIT VINAY GHATNEKAR	885	108582	MR. SANTOSH KANHAIYALAL VYAS
852	107514	MR. HAKANI HITESH	886	108621	MR. ANIRUDDHA SHANKAR MUNAGEKAR
853	107580	MR. SHANKAR RADHAKRISHNAN	887	108647	MR. MOHAMMED AASIM KHWAJA
854	107619	MR. PARESH HEMENDRABHAI ANAM	888	108659	MR. MURARKA ANUPAM
855	107649	MR. GAURANG JITENDRABHAI CHOKSHI	889	108705	MS. ANAGHA SURYAKANT GAJARE
856	107670	MR. DIKSHIT DILIP SHAH	890	108769	MR. TEJAS SURYAKANT DOSHI
857	107709	MS. CLARA NEENA QUODRAS	891	108783	MR. YOGESH SHARAD JOSHI
858	107736	MR. JITENDRA ANIL PANDIT	892	108789	MR. VINEETLAKHOTIA
859	107762	MR. SHAILESH DAYALJI PATEL	893	108790	MS. ADITI VASANT MARATHE
860	107775	MS. USHA VISWANATHAN	894	108906	MS. MEGHANA GHANSHYAM THAKKAR
861	107796	MR. HITESH FATEHCHAND JAIN	895	108918	MR. UMESH OMPRAKASH BIYANI
862	107835	MR. AGRAWAL SANDIPKUMAR	896	108922	MRS. PRIYAMAHESHWARI
863	107841	MR. TAHER QURBANHUSEIN SAEED	897	108927	MRS. PRADNYA SUNIL TANKSALE
864	107847	MS. PREETI FATEHCHAND JAIN	898	108930	MR. ASHISH V'JAY JAIN
865	107853	MR. DINESH VASHDEV SHARMA	899	108948	MS. TEENAL KAMESHWAR BHARGAVA
866	107873	MS. YOGITA JAIWANT SALVI	900	108962	MR. SHYAMSUNDAR MANOHAR BALIGA
867	107880	MR. JAIDEEP KUMAR P	901	108980	MS. SHARVARI VIKRAM DATAR
868	107952	MR. FAISAL NISAR KADIRI	902	109029	MR. RAJ TAHERI
869	108011	MR. KAMLESH Y JOSHI	903	109030	MR. GOVARDHAN PANNA SINGH
870	108034	MR. ANIL KUMAR AGRAWAL	904	109042	MR. SUNILBOHRA
871	108118	MR. SAMEER JYOTINDRA SHAH	905	109056	MR. KEDAR ANANT PATKI
872	108131	MR. AMIT MANOHAR PHADKE	906	109089	MRS. KUMUDINI PRAMOD HATKAR
873	108156	MR. KALPESHKUMAR ASHOKBHAI SHAH	907	109130	MR. MANAN MOHABBAT BHANDARI
874	108208	MR. PARIKH VIPUL B	908	109149	MR. JIGAR VALABHAJI DEDHIA

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
909	109183	MS. NITA KIRTIKANT SHAH	943	110116	MR. SHRIRAM NANASO KHOT
910	109217	MS. SHILPA MADHUKAR SHAH	944	110130	MR. AMAR VIKASRAO BHOSALE
911	109226	MR. SHAILESH RAMA PUTHRAN	945	110155	MR. SANDEEP ARUN NENE
912	109257	MR. KETANMODY	946	110165	MS. RADHA SRINIVASAN IYER
913	109261	MS. SUMABALA VISWESWARUDU KASINADHUNI	947	110192	MR. DEVASSY DINNYPUTHUSSEY
914	109280	MS. BVIJAYALAXMI	948	110194	MR. DUSHYANT DILIP NAVLAKHA
915	109302	MR. ABHIJIT MADHUKAR CHOUDHARY	949	110220	MR. SUMESH SADANAND RAO
916	109309	MS. PRACHI VINAYAK NAIK	950	110230	MR. SIDDHARTHAKAR
917	109324	MR. MAHESH PARAMESWARAN	951	110237	MS. RADHA J TIBREWALA
918	109336	MR. DEVADATTA SIDDHARTHA RAJADHYAKSHA	952	110238	MR. KAPIL VIJAYSINGH SETHIA
919	109370	MR. NISARG PANKAJ JARIWALA	953	110243	MR. SHEKAR RAMAMURTHY
920	109407	MR. GAUTAMMAGO	954	110251	MS. RADHIKA RAMAN
921	109418	MR. MANISHCHHABRA	955	110304	MR. VISHAL B TORKA
922	109453	MR. KALYANI KISHAN RATHOD	956	110351	MR. NIKHIL DILIPKUMAR BHUTA
923	109479	MR. JAISINH VIKRAM SUCHAK	957	110378	MR. AJAY CHHOTELAL PASI
924	109521	MS. BATUL FAKHRUDDIN SAVLIWALA	958	110385	MS. ABHIDA ARUN DAKSHINKAR
925	109523	MR. KASHIF YAHYA HUSEIN	959	110386	MR. PRAKASHLAMSAL
926	109524	MR. KUNJAN RAJESHBHAI MEHTA	960	110389	MR. MOTIRAM SHRICHAND MOHNANI
927	109621	MR. SACHIN PRAVIN PATEL	961	110470	MS. KAVITHAPAI
928	109646	MR. KETAN DHIRENDRA MERCHANT	962	110501	MR. JIGNESH DINESH THAKKAR
929	109720	MR. INDER JEET	963	110518	MR. MANISH UTTAMCHAND JAIN
930	109743	MR. PIYUSHJAIN	964	110540	MR. MAHENDRA KRISHNA SHELAR
931	109758	MS. SHILPA SHAMLAL KARVA	965	110544	MS. ALIFIYA JUZAR MAMAJI
932	109766	MRS. PRACHI KETAN PENDSE	966	110613	MR. SIMSON K V DEVASSY
933	109769	MR. SHYAM SUNDERDWARKANI	967	110632	MR. RAJESH VASANJI GALIA
934	109776	MR. SACHIN BHARAT DISA	968	110659	MR. MIHIR MOHAN VAIDYA
935	109903	MR. PRAFULLA PANNALAL SOMANI	969	110663	MR. SUMEET TULJARAM SIRONI
936	109915	MR. SHAILESH MADHUKAR SATHE	970	110716	MR. UTKARSH NIYOGI PATEL
937	110038	MR. MANISH VINODKUMAR LATH	971	110825	MS. SHRUTI ANAND KACHOLE
938	110042	MR. ABDUL SAMADPATEL	972	110844	MR. KAILASH KUMAR KATARUKA
939	110047	MR. PRADEEP HASMUKHLAL JAIN	973	110883	MR. KAUSTUBH SATISH CHAUBAL
940	110083	MS. HARSHADA PRADEEP SHAH	974	110903	MR. AMITKUMAR LALLUBHAI MISTRY
941	110101	MR. YOGESH RAMESH RAJPUT	975	110919	MS. DIPTI DEVENDRA DOSHI
942	110115	MR. RAJESH CHANDRAKANT BHATE	976	110964	MR. VIKASPITTI

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
977	110989	MR. ABBASI NOMANBHAI RANGWALA	1011	111949	MR. GAGANKUMAR KANHIYALAL LALWANI
978	111012	MR. JOSEPH THOMAS KURAMANNIL	1012	111986	MR. SAJJADHUSSAIN MOHAMMED SARANGPURWALA
979	111015	MRS. VRUSHALI VIBHAS KHOPADE	1013	112031	MR. INDRANIL MALAYKUMAR INDRANI GHOSH
980	111039	MR. MOHAMMED RAZA SULTANALI GHEEWALA	1014	112041	MRS. SARIKA KETAN JOGALEKAR
981	111084	MS. PURVI ANSHUMAN DUTIA	1015	112065	MR. CHETAN SITARAM AHER
982	111095	MR. NIKHIL DEEPAK JAPE	1016	112067	MR. MITESH JITENDRAKUMAR RAMANI
983	111164	MR. SANJAY VISHWANATH CHOUDHARY	1017	112127	MR. AMIT JAYANTILAL SHAH
984	111170	MR. HEMAL PRAVINBHAI DAVE	1018	112219	MR. RAJENDRA BALDEV SOLANKI
985	111242	MR. JAGDISH KUMAR JAISWAL	1019	112241	MR. VIKAS SUBHASH CHATURVEDI
986	111278	MR. VIRAL JITENDRA THAKKER	1020	112245	MR. PRAMODGARG
987	111323	MS. PAYALAGARWAL	1021	112284	MRS. MITA KEYUR SHAH
988	111338	MS. MINAZ MOHAMMEDKHATIB	1022	112362	MR. NITIN PRABHAKAR KABADI
989	111419	MR. HUSSAINALI AMIRALI CHARANIYA	1023	112455	MR. ANKIT RASHMIKANT KINARIWALA
990	111515	MS. REKHA KUNJAN SHETTY	1024	112459	MR. MAYUR DATTATRAY TEREDESAI
991	111522	MS. SHILPI RATANLAL AGRAWAL	1025	112460	MR. PUNEETSINGHVI
992	111542	MRS. SUDHA HEMANT PRAJAPATI	1026	112472	MR. VIJAY ARJUNDAS CHAWLA
993	111549	MS. DEEPA VISWANATHAN	1027	112491	MR. ANAND ARUN LADDHA
994	111550	MR. RISHIBOBRA	1028	112522	MS. NAMRATA NARESH KABRA
995	111567	MR. KASHYAP RAJNIKANT PAREKH	1029	112678	MR. ANAND SURESH GUPTA
996	111580	MR. SWASTIKJAIN	1030	112692	MR. SAI SUNIL VENUGOPAL PANGANAMAMULA
997	111607	MR. VAIBHAV VISHNUDAS TOTLA	1031	112712	MR. ASHISHCHATURVEDI
998	111608	MR. JAIPRAKASH OMPRAKASH AGRAWAL	1032	112773	MR. ABHISHEKAGARWAL
999	111627	MR. RAKESH HEMRAJ SANGHVI	1033	112774	MR. RAJANISH SATYANARAYAN SHARMA
1000	111643	MR. NIKHIL DON VAZ	1034	112878	MR. RAJIV SURAJ SHAH
1001	111681	MR. DIVYESH CHANDULAL SHAH	1035	112882	MS. SREELEKHAMANIYAN
1002	111709	MRS. RASHMI DINESH RATHI	1036	112893	MR. NAVIN KUMARJAIN
1003	111741	MR. ASHOK LAKHAMSHI CHHEDA	1037	112902	MR. NIRAV KIRIT PUJARA
1004	111830	MR. GAUTAM RAVI NARAYAN	1038	112957	MS. SHEELUANTO
1005	111847	MR. MUKUNDA SHRIRAM MANKAR	1039	113058	MR. PRASHANT KANTI PUNJANI
1006	111862	MR. VINAY JAIN	1040	113081	MRS. KOMAL VIMLESH MITTAL
1007	111863	MR. SAMRAT ASHOK CHAUDHURI	1041	113114	MR. JAGDISH RAMESH MEGHNANI
1008	111865	MR. THOMAS JOSE PALLITHANAM	1042	113120	MR. YOGESH SOHANLAL KOTHARI
1009	111935	MR. HIRESHSONTHALIA	1043	113121	MR. MANISH KUVARRANKA
1010	111944	MR. SANJAY MAHENDRAKUMAR THADESHWAR	1044	113130	MR. RAJESHKUMAR SHITALA PRASAD SINGH



S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1045	113148	MR. CHIRAG CHANDRAKANT SAMPAT	1081	113678	MR. VIRAL BHARATKUMAR TRIVEDI
1046	113165	MR. SNEHIT SEETHARAM SHETTY	1082	113704	MRS. PRITI CHETANKUMAR BORKAR
1047	113168	MR. SHIRISH AJITBHAI RUPAREL	1083	113708	MR. RAHUL RATNAKAR PUNDE
1048	113171	MR. DINKAR DATTATRAY MANE	1084	113739	MR. NILESH JAYANTILAL SHAH
1049	113177	MR. SANDESH GOPAL POTKAR	1085	113790	MR. VAIBHAV KUMAR AGARWAL
1050	113196	MR. MANJIT JITENDRABHAI KOTHARI	1086	113847	MR. NIKHIL VINOD MATHUR
1051	113205	MR. SANDEEP KUMAR RATHI	1087	113916	MS. NILUFER TEHMTAN JUNGALWALA
1052	113231	MR. PUSHPAK MUKESHKUMAR GANDHI	1088	113950	MR. ANILKUMAR ISHVARLAL THAKKAR
1053	113244	MR. ROHAN RAVINDRA SHIVADEKAR	1089	113985	MR. SAGAR SURESH DANI
1054	113258	MR. HIREN KANAIYALAL SUTHAR	1090	114015	MR. NILESH ARVIND THAKKAR
1055	113299	MR. RANU RAJESH BHANDARI	1091	114056	MR. SANDEEP BIPINBHAI VASAVADA
1056	113326	MR. MAYUR PRABHUMELANATURU	1092	114119	MR. SOMESH DEVIDEEN CHAURASIA
1057	113334	MR. SACHINSODANI	1093	114122	MR. ASHISHGOYAL
1058	113345	MR. DARSHAK PRADIP BHAGAT	1094	114147	MR. ROHITHAKSHA
1059	113395	MR. RISHABH SUMATILAL GANDHI	1095	114151	MR. SATISH KUMARJAIN
1060	113446	MR. MANISH MANU VYAS	1096	114159	MR. ANUP VIJAYKUMAR AGARWAL
1061	113486	MRS. NAYANA VIJAYKUMAR CHAWLA	1097	114163	MS. SONALI SHANKAR UNNIKOCHAN
1062	113503	MRS. KIRTI ANAND SAWANT	1098	114214	MR. ANAND RAMCHANDRA YADAV
1063	113508	MS. RAJALAKSHMID	1099	114230	MR. SAROJ KUMARKHUNTIA
1064	113546	MR. AMIT OMPRAKASH GUPTA	1100	114266	MR. KAILASH SANMUKHDAS AHUJA
1065	113584	MR. JIGNESH MUKULKUMAR YAGNIK	1101	114276	MR. ABBAS HATIM GILLITWALLA
1066	113587	MR. PRAMOD P DANGI	1102	114297	MR. SANJAY SATYAPPAUL ARORA
1067	113593	MR. UDAY ARUN NANDA	1103	114327	MR. MILIND PRAMOD WAIRKAR
1068	113605	MR. AJAYJAIN	1104	114411	MR. HARISH KUMAR ASHOK KUMAR R KESHARWANI
1069	113613	MR. SHEETAL KUMARAGARWAL	1105	114414	MR. VINOD RAMAVTAR SODHANI
1070	113627	MS. POOJA KANHAYALAL POPLI	1106	114508	MR. MANGESH UDESING YADAV
1071	113632	MR. MANISHAGARWAL	1107	114546	MR. DARSHAN HASMUKH SHAH
1072	113639	MR. DINESH DWARKADASH BHAYANI	1108	114576	MR. DILIP LALCHAND MOHNANI
1073	113644	MR. RITESHBHARTIYA	1109	114587	MR. ASHWANIKUMAR SUSHILKUMAR LADHA
1074	113650	MR. DEVIDAS KRISHNA SHETTY	1110	114672	MR. VISHAL VIJAY SARAF
1075	113651	MR. BASANTKUMAR KISHANGOPAL PORWAL	1111	114678	MR. RAJESH BIRIJLAL DHIRWANI
1076	113654	MS. PREETI VIJAY SHARMA	1112	114725	MR. AKASH KANWARLAL BAFNA
1077	113662	MR. PRASHANT PREM JOSHI	1113	114747	MR. BHAVESHKUMAR RATILAL CHHEDA
1078	113664	MS. SUSHMA KESHARDEO PANSARI	1114	114800	MR. NILESH HARI KUNTE
1079	113668	MR. ALEKH JAGANNATHJI GANDHI	1115	114859	MS. NASREEN MOHOMED ISMAIL SHAIKH
1080	113676	MS. MAYURI DEEPAK POTDAR	1116	114904	MR. GAURAV RAJNIKANT SHASTRI

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1117	114938	MR. SATYEN SURESH JAIN	1151	115622	MR. AJAY DAMODAR UPADHYAY
1118	114944	MR. JITENDRA KUMARBAROLA	1152	115666	MS. SHWETA NARENDRAKUMAR SIBAL
1119	114963	MR. SHARAD S MOHNOT	1153	115683	MR. NITESH SURESHCHAND SHARMA
1120	115006	MS. ZOHRA S LOKHANDWALA	1154	115734	MR. DHIRAJ AMARATBHAI PATEL
1121	115040	MR. MURTUZABHAI ABBAS BHAI JAWADWALA	1155	115804	MR. PANKAJBALDUA
1122	115094	MR. BHAVINKUMAR CHHAGANLAL KANTARIA	1156	115831	MR. SANTOSH KUMAR AGARWAL
1123	115095	MS. RITU RAMESHWAR LAL SWAMI	1157	115865	MR. MANAS PRAMOD KETKAR
1124	115108	MR. SUMANTA KUMAR NAYAK	1158	115873	MR. NITISH SAHAY PANDEY
1125	115110	MR. BHARAT ASSAN RAMNANI	1159	115882	MR. SACHIN JANARDAN KARMARKAR
1126	115124	MR. MANDAR UDAY GAURI VADHAVKAR	1160	115887	MS. SHILPI ALOKEKUMAR SINHA
1127	115150	MR. NEERAJ NAVEENKUMAR JAIN	1161	115901	MS. PRACHI RAMESH BADJATE
1128	115161	MR. ANKURKHETAWAT	1162	115907	MR. VINISHMAHESHWARI
1129	115226	MR. DIVYANG DINESH DESAI	1163	115971	MR. MAHENDRA MOHANLAL MANDHANA
1130	115231	MR. RINALDO LOURDU CHETTIAR	1164	116041	MR. HIRAL PARIMAL DESAI
1131	115237	MS. KHALIDA MEHMOOD AHMED SHAIKH	1165	116043	MS. JULIE ISAAC
1132	115241	MR. RISHIKESH SHREEVALLABH MANTRI	1166	116048	MS. SHAGUN BIJENDRA AHLUWALIA
1133	115288	MR. VINEET UMESH GUPTA	1167	116061	MR. PRANAV SURESH SANGHANI
1134	115337	MR. ADITYA JITENDRA GANDHI	1168	116126	MR. NIKHIL KUMAR ROOPCHAND JAIN
1135	115344	MRS. KSHITIJA GANESH RELEKAR	1169	116147	MR. RAGHAV SURENDRA KUMAR SHASHI KHULLAR
1136	115382	MR. ANKITKUMAR VINODBHAI SHAH	1170	116159	MR. ABHISHEK ASHOK AGRAWAL
1137	115386	MR. MANOJ KUMARBHANAWAT	1171	116191	MR. JIGAR LALIT VADHER
1138	115393	MR. RAHUL DHANSUKHBHAI DESAI	1172	116234	MR. KALPESH RATILAL CHAVDA
1139	115399	MR. KAPILPANSARI	1173	116244	MR. ANILVORA
1140	115403	MR. PANKAJ HARESH MANIK	1174	116292	MR. ARUN LADHURAM PUROHIT
1141	115405	MRS. JYOTI SANJAY CHAUDHARY	1175	116346	MR. GAUTAM CHINIVARDHA
1142	115424	MR. UJJWAL KUMARJAIN	1176	116368	MS. PRIYANKA MANGILAL JAIN
1143	115456	MR. NARESHKUMAR SATYAPAL MITTAL	1177	116372	MR. MILIND BABAJI WADEKAR
1144	115470	MS. PRITI KAMLAKAR THOPTE	1178	116468	MR. RAVI SHIVANDAS KHUBCHANDANI
1145	115495	MR. KRISHNA KUMAR DARGAR	1179	116485	MS. LAKSHMI NATRAJAN
1146	115500	MR. ASHISHNASA	1180	116493	MR. VIKRAM ASHOK ALKA BABBAR
1147	115539	MR. KARTHIK SUBRAMANIAN IYER	1181	116500	MS. MADHAVI JAYANT MARKANDEY
1148	115587	MR. SAGAR ANIL DHARMADHIKARI	1182	116503	MR. KUMAR SURESHKUMAR SHAH
1149	115595	MR. JATINKUMAR KIRITKUMAR DOSHI	1183	116505	MR. MITESH ARJAN GADA
1150	115601	MR. MILAN VASUDEV DESAI	1184	116520	MR. VINEETH SWAMINATH IYER

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1185	116540	MR. AMOL BHALCHANDRA WARANGE	1221	117909	MR. YOGENDRA BHAILAL SHAH
1186	116562	MR. ANAND SUKLAL JAIN	1222	118168	MR. ALAP NARESHKUMAR CONTRACTOR
1187	116563	MR. SHIV KUMAR TOSHNIWAL	1223	118169	MR. DEVASHISH BIDHAN CHANDRA ROY
1188	116564	MS. MUKTIBUM	1224	118187	MS. SHITAL NARAYAN SARANG
1189	116580	MR. PIYUSHKHERADA	1225	118191	MR. PRIYANK JAGMOHAN ZALANI
1190	116602	MR. DARPAN JAGDISH MEHTA	1226	118281	MR. ANKURJAIN
1191	116697	MR. BHARAT KISHANCHAND LALJANI	1227	118286	MS. SMITA RATNAKAR DANTKALE
1192	116843	MR. PRATIK KANHAIYALAL BANSAL	1228	118306	MR. ANKURMUNDRA
1193	116888	MR. SUMEET KUMAR SINGHANIA	1229	118350	MR. VINAY KUMARINANI
1194	116905	MS. POOJA MURARILAL SHASHI JHUNJHUNWALA	1230	118356	MR. ACHALBACHHUKA
1195	116943	MRS. NEHA KSHITIJ GUPTA	1231	118362	MR. SONU RAMESH SHARMA
1196	116946	MR. SANKET SHIRISH MOKASHI	1232	118384	MR. PARINDKUMAR JAYESHKUMAR SHAH
1197	117016	MRS. SHRADDHA MUKUND AMBARDEKAR	1233	118446	MR. PARAG KAMAL SHAH
1198	117028	MR. AMEYA PRAMOD SAKHALKAR	1234	118451	MR. KAUSHAL CHANDRAKANT SHAH
1199	117040	MR. KARAMJEETSINGH	1235	118540	MR. NIRAV LAXMICHAND MAMNIYA
1200	117066	MS. TASVI PANKAJ SHAH	1236	118548	MR. MANISH NATHMAL JAIN
1201	117104	MRS. SUREKHA DHANANJAY SHETTY	1237	118561	MR. ROHITMAROO
1202	117106	MR. JITESH RAMKRISHNA MIRJOLKAR	1238	118586	MR. SANJAY KUMARSHAH
1203	117110	MR. CHANDRA SHEKHAR SOMNATHAM S MANTHA	1239	118606	MS. HAMIDA SULTANALI CHARANIA
1204	117243	MR. GAURANG MANAHAR GANDHI	1240	118645	MR. MIHIR PREMCHAND GUPTA
1205	117272	MR. AKHIL RUDOLF D'SOUZA	1241	118676	MR. KAPILGUPTA
1206	117314	MR. MANAN SHARAD JAIN	1242	118724	MR. VIKAS SURESH PANSARI
1207	117318	MR. FIROZ ALAM KHAN	1243	118757	MR. RISHIRATHI
1208	117438	MR. GAUTAM BALKRISHNA TARKUNDE	1244	118764	MR. CHETAK SHESHMAL LALWANI
1209	117447	MS. RADHIKA SANJEEV APTE	1245	118818	MR. VISHAL SHYAMPRAASAD MISHRA
1210	117495	MR. AMIT RADHA KISHAN KHANDELWAL	1246	118839	MS. KHYATI ASHOK DATTANI
1211	117567	MR. ARSADALI	1247	118850	MS. POOJA OMPRAKASH SHARMA
1212	117576	MR. MEHULKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH	1248	118904	MR. KOUSHIKKRISHNAN
1213	117594	MS. SUJATA KRISHNAN	1249	118906	MR. AMOL RAMESH GHONGE
1214	117628	MR. SAWAR MAL AGARWAL	1250	118910	MS. ZEHRA SARDRUDDINBHAI DHAMANI
1215	117635	MR. DIPEN RAMESH SHAH	1251	118944	MR. SUJESH JAGDISH SHARMA
1216	117637	MR. ANKUR VINOD KANWAR	1252	119030	MR. VIKASHJHUNJHUNWALA
1217	117700	MR. ABHIJIT ANIL SONTAKKE	1253	119036	MS. NEHA ASHOK ARORA
1218	117731	MR. SUMEET NAVINCHANDRA MEHTA	1254	119061	MR. HARSHAL NIRANJAN TALATI
1219	117744	MR. ABBAS ASGARALI MASKATI	1255	119089	MR. RAKESH RAMLAL JAGETIYA
1220	117864	MR. ANURAGBHANDARI	1256	119116	MRS. SHRUTI SHIRISH VYAS

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1257	119215	MR. HARIPRASAD SHANTARAM BHAT	1293	205149	MS. VARALAKSHMI B
1258	119220	MR. RAHUL CHANDER MOHAN VEENA KHANNA	1294	205344	MR. SIVARAMAKRISHNAN R
1259	119233	MR. VIVEK PREM PRAKASH MISHRA	1295	205358	MR. SURESH J
1260	119258	MR. DILIP KISHOREKUMAR MAMTA PANJWANI	1296	205373	MR. KAMESHWAR RAO KODAVANTI
1261	119277	MR. VIRESH KANHIALAL BHAGCHANDANI	1297	205788	MR. AJIT KUMARBHANDARI
1262	119278	MR. LALITKUMAR VITHALDAS RAITHATHA	1298	206145	MS. ASHA G
1263	119306	MS. SOUMYA J J	1299	206560	MR. ANIL KUMAR O M
1264	119376	MR. SANJAY JAMANBHAI MANJULABEN SAVALIYA	1300	206686	MR. RAJEEV GOVIND
1265	119397	MR. PRANAV RAJNIKANT THAKKAR	1301	206762	MR. SHANKAR J
1266	119416	MS. PAYAL ARUN KANITKAR	1302	207497	MR. SARANGI RAJENDRA KUMAR
1267	119524	MR. NARAYANBHATHER	1303	208007	MR. AJAI J JOSEPH
1268	119561	MR. YASH VIJAYSINGH SETHIA	1304	208169	MS. KAVITHA SRINIVASAN
1269	119581	MS. DEEPTI GOPINATHAN HILDA MENON	1305	208186	MR. SAMMER AGARWAL
1270	119591	MRS. SWETA AMIT MEHTA	1306	208280	MR. ADITYA NATRAJ
1271	119614	MR. SATCHIT MUKUND SAGADE	1307	208457	MR. SRIRAM NATARAJAN
1272	119637	MR. RAHULMEHTA	1308	209041	MR. RAMAKANTH PONNAPALLI
1273	119661	MR. TANUJMISHRA	1309	209084	MR. ANAND K
1274	119709	MR. JATIN DINESH MERCHANT	1310	209577	MR. BABU K
1275	119723	MR. KETAN GAMBHIRDAS SHAH	1311	209741	MR. JITESH G
1276	119750	MRS. DIMPLE NIKHIL KHETAN	1312	210305	MR. SATHIYA NARAYANAN P
1277	119755	MR. NITIN MADANLAL ZANWAR	1313	210644	MR. ALLURAIHAH SOLLETI
1278	119787	MRS. CYNTHIA VALERIE LOURDESPEREIRA	1314	210898	MS. RUCHITA SANGHAVI
1279	119797	MR. DHAVAL DINESHCHANDRA RADIA	1315	210958	MR. SUNDEEP MEHTA
1280	119971	MRS. AAKANKSHA ABHIJIT DESHPANDE	1316	211069	MR. HARI P N
1281	120003	MR. ANKUR PAWAN KUSUM AGARWAL	1317	211327	MS. PRIYA NAGARAJAN
1282	120112	MS. HARITA ASHWIN SOHINI SHAH	1318	212278	MR. KAUSHIK SIVAKUMAR
1283	200952	MR. JAYAPRAKASH N	1319	213922	MS. NISHA RAMESH
1284	201145	MR. LALIT KUMARTAPADIA	1320	214231	MR. JOSEPH LOURDU XAVIER J S P
1285	201641	MR. BONNIE JOSEPH	1321	400563	MR. MALOO MANISH
1286	202062	MR. G SLAKSHMI NARAYANAN	1322	401126	MR. DHANUKA GUNJAN
1287	202817	MR. PARAG ASHWIN KAPADIA	1323	401204	MR. SHAH RAJENDRA
1288	203918	MR. P K SADAGOPAN	1324	402037	MR. VIJAIVERGIA NITIN
1289	204590	MR. KSENTHIL VEL	1325	402232	MR. MANTRI RISHI PRAKASH
1290	204791	MR. SRIDHAR REDDY B C	1326	402877	MR. RISHABH KUMAR
1291	204908	MS. SONALIBALSE	1327	500232	MR. JHA DHIRENDRA KUMAR
1292	204969	MR. CHALUVADINAGESWAR RAO	1328	500738	MR. SHARMA AERIK

S.No.	MRN	Member Name	S.No.	MRN	Member Name
1329	501087	MR. DOSHI GAUTAM	1332	502829	MR. RAYAMAJHI SUMAN
1330	502084	MS. DUTT JAYA	1333	504693	MR. KHANDELWAL SWETA
1331	502653	MR. SEHDEV AMIT			

**DR. ASHOK HALDIA**  
Secretary

Kolkata-700 071, the 25th June 2007

3ECA/4/2/2005-2006: In Pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from date (s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal dt.	S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal dt.
1	002191	Mr. Das Gupta Ranjan Kumar Kolkata	24/11/2004	6.	006040	Mr. Das Dinobandhu Kolkata	22/04/2005
2	002462	Mr. Singhi Jai Singh Kolkata	14/08/2005	7.	007264	Mr. Gupta Kapur chand Kolkata	31/05/2005
3.	003278	Mr. Ganguly Nikhilesh Kolkata	05/07/2005	8.	010934	Mr. Mukhopadhyay Susanta Pada Kolkata	12/08/2005
4.	004656	Mr. Chanda Ardhendu Shekhar Kolkata	04/10/2005	9.	013715	Mr. Roy Sushit Kolkata	28/09/2005
5.	005669	Mr. Bhattacharjee Jnan Ronjon Kolkata	24/06/2005	10.	052303	Mr. Chattopadhyay Ashish Kolkata	23/05/2005
				11.	053111	Mr. Banthia Rajendra Kumar Kolkata	12/05/2005
				12.	055632	Mr. Jain Pramod Kumar Durgapur	05/06/2005
				13.	059075	Mr. Sikdar Santanu Kolkata	21/06/2005

**DR. ASHOK HALDIA**  
Secretary

3ECA/4/4/2005-2006: In Pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from date (s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal dt.
1.	001875	Mr. Arun Kumar Das Kolkata	15/11/2004
2.	002576	Mr. Das Samir Kumar Kolkata	21/12/2005
3.	004881	Mr. Banerjee Saroj Kumar Kolkata	01/01/2006
4.	008453	Mr. Majumdar Nikhil Mohan Kolkata	03/12/2005
5.	008459	Mr. Das Gupta Pranab Kumar Kolkata	29/11/2005
6.	008814	Ms. Dutta Purabi Kolkata	20/01/2006

7.	010013	Mr. Praveen Kapoor Kolkata	16/03/2005
8.	012752	Mr. Mallik Aniruddha Kolkata	04/10/2005
9.	015764	Mr. Mohata Suraj Mal Kolkata	18/02/2006
10.	015768	Mr. Mukhopadhyay Biplab Behari Kolkata	06/02/2006
11.	050130	Mr. Atal Raghu Nath Jorhat	19/02/2006
12.	050256	Mr. Agrawal Mohan Lal Kolkata	11/12/2005
13.	051068	Mr. Drolia Jugal Kishor Kolkata	27/01/2005
14.	051352	Mr. Ganguli Ramendu Kolkata	30/11/2005
15.	052425	Mr. Amal Kumar Ghosh Kolkata - 700001	09/02/2005
16.	063701	Mr. Dokania Vivek Kolkata	28/07/2005

**Dr. Ashok Haldia**  
( Secretary )

3ECA/4/5/2005-2006 in pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(C) of The Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institution of Chartered Accountants of India has removed from the register of members of this Institute with effect from 01.10.2005 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name & Place
1.	001743	Mr. Banerjee Kishori Mohan Kolkata
2.	001967	Mr. Basu Arun Kumar Kolkata
3.	002126	Mr. Ganguli Gangadhar Kolkata
4.	002812	Mr. Niyogi Salil Kumar Kolkata
5.	003502	Mr. Bhowmick Rama Prasad Kolkata
6.	003840	Mr. Basu Bimal Kumar Kolkata
7.	004145	Mr. Ray Chaudhury, Dharendra Nath Kolkata
8.	004282	Mr. Nandi Bhudeb Chandra Kolkata
9.	004284	Mr. Das Durgesh Chandra Kolkata
10.	004521	Mr. Ghosh Sourangshu Mohan Kolkata
11.	005036	Mr. Jain Mangi Lal Kolkata
12.	006153	Mr. Gangopadhyay Ram Kanai Kolkata
13.	007038	Mr. Chandra Anil Baran New York

14.	007115	Mr. Dhar Sasanka Sekhar Kolkata
15.	007298	Mr. Khaled Mir Md Kolkata
16.	007936	Mr. Biswas Adhip Kumar Kolkata
17.	008432	Mr. Sama Rabindra Chandra New Jersey
18.	008577	Mr. Bandyopadhyay Ullas Kolkata
19.	009215	Mr. Pathak Samarendra Nath Kolkata
20.	009307	Mr. Bhattacharyya Dilip Kolkata
21.	011174	Mr. Shah Praphulla Chandra Shantilal Kolkata
22.	013426	Mr. Chaudhuri Asok Kumar Kolkata
23.	014392	Mr. Banerjee Aditya Mohan Kolkata
24.	014816	Mr. Mukhopadhyay Milan Kumar Uttarpara
25.	015254	Mr. Mukherjee Manash Mohan Kolkata
26.	015367	Mr. Ghosh Subrata Kolkata
27.	016218	Mr. Chakravorti Ashis Kolkata
28.	016539	Mr. Khandelwal Subhash Chandra Kolkata
29.	016877	Mr. Iyer Sitaram Ganesh Kolkata

30.	017153	Mr. Chopra Manoj Nairobi	50.	051095	Mr. Ghosh Surojit Kumar Kolkata
31.	017286	Mr. Mukhopadhyay Pijush Kumar Uttarpara	51.	051335	Mr. Mallick Pradip Kumar Kolkata
32.	017636	Mr. Barik Sukumar Kolkata	52.	051425	Mr. Ajitsaria Shankar Lal Kolkata
33.	021037	Mr. Abbasvali G Visakhapatnam	53.	051460	Mr. Sengupta Sibaji Kolkata
34.	021953	Mr. Venkateswara Rao K Kolkata	54.	051467	Mr. Basu Swapan Durgapur
35.	050082	Mr. Addy Gautam Kolkata	55.	051534	Mr. Banka Mohan Lal Bhubaneswar
36.	050249	Mr. Chattopadhyay Debkisor Kolkata	56.	051552	Mr. Agrawal Binod Kumar Kolkata
37.	050382	Ms. Basu Alakananda Kolkata	57.	051561	Mr. Sinha Ray Kamala Kanta Kolkata
38.	050412	Mr. Bhartia Ashok Kumar Guwahati	58.	051681	Mr. Tewari Somnath Asansol
39.	050415	Mr. Hayat Abul Kolkata	59.	051718	Mr. Biyani Bijay Kumar Kolkata
40.	050475	Mr. Tarun Kumar Banerjee Noida	60.	051761	Mr. Purohit Ashok Kolkata
41.	050532	Mr. Ghosh Sudip Kolkata	61.	051787	Mr. Srinivasan N R Kolkata
42.	050567	Mr. Bafna Madanlal Kolkata	62.	051844	Mr. Ghosh Asis Kumar Kolkata
43.	050606	Mr. Ray Partha Pratim Kolkata	63.	051913	Mr. Panda Bimal Chandra Bhubaneswar
44.	050623	Mr. Dasgupta Asok Kumar Kolkata	64.	052013	Mr. Tibrewal Prem Prakash Kolkata
45.	050716	Mr. Pratyush Kiran Mitra Kolkata	65.	052023	Mr. Chakrabarti Siddhartha Kolkata
46.	050807	Mr. Subramanyan K Kolkata	66.	052024	Mr. Roy Prasanta Kumar Kolkata
47.	050935	Mr. Mukherjee Pabitra Kumar Kolkata	67.	052040	Mr. Banerjee Pradip Kumar Kolkata
48.	050952	Mr. Bose Samar Kolkata			
49.	051057	Mr. Das Sushil Kolkata			



68.	052078	Mr. Kothari Vinod Kumar Kolkata	86.	053101	Mr. Kapoor Anoop Kolkata
69.	052146	Mr. Sarkar Bhaskar Kolkata	87.	053129	Mr. Sen Partha Kamal Kolkata
70.	052188	Mr. Mall Ajay Kumar Kolkata	88.	053167	Mr. Dutta Biswajit Kolkata
71.	052219	Mr. Gopalakrishnan L Kolkata	89.	053337	Mr. Kajaria Ajay Kolkata
72.	052375	Mr. Gupta Chhangoo Lal Kolkata	90.	053374	Mr. Memani Ramesh Kolkata
73.	052391	Mr. Jalan Pawan Kumar Kolkata	91.	053434	Mr. Datta Gautam Balurghat
74.	052498	Mr. Biswas Kalyan Kolkata	92.	053539	Mr. Lunawat Nirmal Kumar Howrah
75.	052549	Mr. Mehta Shekhar Kolkata	93.	053576	Mr. Jain Bijay Raj Kolkata
76.	052570	Mr. Gangopadhyay Partha Kolkata	94.	053668	Mr. Basu Tapas Sultanate of Oman
77.	052679	Mr. Ray Amit Kumar Kolkata	95.	053892	Mr. Sen Biswaroop Kolkata
78.	052697	Mr. Mishra Bhikam Chand Kolkata	96.	054021	Mr. Banthia Bajrang Lal Kolkata
79.	052711	Mr. Balasubrahmanyam J Kolkata	97.	054025	Mr. Saha Ashok Kolkata
80.	052717	Mr. Mohta Krishan Kumar Kolkata	98.	054032	Mr. Baid Sangram Singh Kolkata
81.	052738	Mr. Kathotia Deepak Kumar Kolkata	99.	054051	Mr. Satapathy Muktikanta Kolkata
82.	052825	Mr. Mitra Asish Kumar Kolkata	100.	054148	Mr. Barua Pradyut Kumar Golaghat
83.	052840	Mr. Singh Prabhat Kumar Kolkata	101.	054180	Mr. Mukherjee Gora Kolkata
84.	052904	Mr. Sipani Dilip Kumar Silchar	102.	054185	Mr. Dash Prakash Chandra Bangalore
85.	053017	Mr. Chakrabarti Ashis Canada	103.	054231	Mr. Julasaria Arun Kumar Kolkata

104.	054233	Mr. Agarwal Ajay Howrah	123.	055138	Mr. Roy Chowdhury Joy Kolkata
105.	054277	Mr. Das Ashish Kumar Silchar	124.	055195	Mr. Roy Chowdhury Kolkata
106.	054291	Mr. Agarwal Arun Kumar Kolkata	125.	055215	Mr. Saha Prabir Kolkata
107.	054300	Mr. Bandyopadhyay Taraknath Kolkata	126.	055241	Mr. Hariharan Anand Bahrain
108.	054341	Mr. Kochar Ajit Kolkata	127.	055270	Mr. Lakhotia Subhas Chandra Jakarta
109.	054435	Mr. Mangal Pradeep Kumar Kolkata	128.	055308	Mr. Basu Partha Kolkata
110.	054456	Mr. Halan Sushil Kumar Kolkata	129.	055343	Mr. Parekh Samir Kolkata
111.	054458	Mr. Kedia Pawan Kumar Kolkata	130.	055351	Mr. Sinha Tapas Kumar Kolkata
112.	054612	Mr. Lakhotia Jyoti Prakash Howrah	131.	055361	Mr. Ghosh Aninda Kolkata
113.	054636	Mr. Gupta Rajesh Kumar Kolkata	132.	055365	Mr. Sen Rabindra Narayan Kolkata
114.	054769	Mr. Jajodia Shambhu Nath Kolkata	133.	055447	Mr. Boruah Prasanta Kumar Guwahati
115.	054777	Mr. Mohapatra Sudhendu Kishore Cuttack	134.	055542	Mr. Sen Himansu Kumar North Lakhimpur
116.	054835	Mr. Agarwala Ashok Kumar Kolkata	135.	055547	Mr. Daga Sanjay Kumar Kolkata
117.	054838	Mr. Basu Samik Kolkata	136.	055562	Mr. Das Joydeep Kolkata
118.	054851	Ms. Gupta Anjali Vasvani Singapore	137.	055724	Mr. Chaudhuri Subrata Kolkata
119.	054899	Ms. Agarwal Sangeeta Kolkata	138.	055770	Mr. Daga Devendra Kumar Kolkata
120.	054961	Mr. Acharya Chand Ratan Kolkata	139.	055782	Mr. Luharuka Pradeep Kumar Kolkata
121.	055065	Mr. Chakraborty Ranajit Kolkata	140.	055848	Ms. Dutta Susmita Kolkata
122.	055075	Mr. Agarwal Sanjay Kolkata			

141.	055866	Mr. Sen Sanjoy Kolkata	160.	056723	Ms. Singh Seema Kolkata
142.	055968	Mr. Dakalia Indar Chand Howrah	161.	056741	Mr. Maharaj Pankaj Kumar Kolkata
143.	056083	Mr. Dinesh Chowdhury Kolkata	162.	056830	Mr. Kundu Purnendu Kolkata
144.	056213	Mr. Mahapatra Dhiman Bhubaneswar	163.	056842	Mr. Kar Rahul Kolkata
145.	056321	Ms. Mukherjee Kakali Kolkata	164.	056869	Mr. Santanu Sengupta Bokaro Steel City
146.	056335	Mr. Thakur Arup Kolkata	165.	056962	Mr. Kheratuwala Masood Ali S Dar-Es- Salaam
147.	056361	Mr. Kar Sumit Kolkata	166.	057067	Mr. Biswal Biswa Bhusan Bhubaneswar
148.	056370	Mr. Sahoo Rajesh Kumar Bhubaneswar	167.	057131	Mr. Jhunjhunwala Subhash Kumar Kolkata
149.	056372	Mr. Sahoo Santosh Kumar Angul	168.	057144	Mr. Jaiswal Sunil Kolkata
150.	056382	Mr. Manoj Kumar Sharma Kolkata	169.	057165	Mr. Sharma Rajesh Kolkata
151.	056508	Mr. Ghosh Bhaskar Kolkata	170.	057186	Mr. Dash Sarang Dhar Bhubaneswar
152.	056518	Mr. Swain Ajit Kumar Bhubaneswar	171.	057187	Mr. Deb Basab Kolkata
153.	056523	Mr. Bihari Harihar Berhampur	172.	057256	Mr. Rajkarnikar Rajesh Kathmandu
154.	056536	Mr. Gattani Sarbananda Kolkata	173.	057301	Mr. Ghosh Sibaji Kolkata
155.	056576	Mr. Saraf Bikash Kumar Kolkata	174.	057329	Mr. Sharma Arun Kumar Kolkata
156.	056591	Mr. Prasad Ishwar Dayal Kolkata	175.	057367	Mr. Rajesh Mundhra New Delhi
157.	056598	Mr. Agarwal Abhay Kumar Kolkata	176.	057379	Mr. Thacker Manoj Cuttack
158.	056700	Mr. Sarkar Kaushik Kolkata			
159.	056714	Mr. Sharma Sanjay Mumbai			

177.	057394	Mr. Mishra Yaswant Kumar Kolkata	195.	057824	Mr. Basu Dipan Kolkata
178.	057434	Mr. Beriwalla Manoj Kumar Kolkata	196.	057898	Mr. Mandal Asrujit Kolkata
179.	057465	Mr. Sarda Dinesh Kolkata	197.	057951	Ms. Sengupta Debi Kolkata
180.	057474	Mr. Bajaj Amit Kolkata	198.	057960	Mr. Saikia Pratul Kumar Numaligarh
181.	057567	Mr. Goswami Indranil Kolkata	199.	057961	Mr. Jajodia Sushil Kumar Kolkata
182.	057604	Mr. Rajdip Datta Hyderabad	200.	057978	Ms. Choudhury Rashmi Kolkata
183.	057623	Mr. Khandelwal Vikash Kolkata	201.	058015	Mr. Arsh Deep Singh Bindra Warsaw
184.	057640	Mr. Agarwal Deepak Gangtok	202.	058046	Mr. Agarwal Sundeeep Kolkata
185.	057648	Mr. Patro T Prasanna Kumar Bhubaneswar	203.	058053	Mr. Dasgupta Indrajit Mumbai
186.	057673	Mr. Agarwal Rajendar Kolkata	204.	058071	Ms. Saraf Suchi Howrah
187.	057678	Mr. Poddar Sanjay Kolkata	205.	058073	Mr. Singh Deo Nrupaditya Kolkata
188.	057692	Mr. Banerjee Jayanta Kolkata	206.	058237	Mr. Bhotika Shanbhu Kumar Kolkata
189.	057720	Mr. Sengupta Aniruddha Kolkata	207.	058282	Mr. Nayak Bibekananda Bhubaneswar
190.	057738	Mr. Agarwal Anand Kolkata	208.	058315	Mr. Mitra Saikat Kolkata
191.	057766	Mr. Jalan Anand Kolkata	209.	058353	Mr. Ghosh Shuddhasattwa Kolkata
192.	057775	Mr. Chadha Tarun Kumar Kolkata	210.	058440	Ms. Vidya Padmanabhan Kolkata
193.	057792	Mr. Agarwal Dinesh Kumar Kolkata	211.	058456	Mr. Pattwari Sunil Kumar Kolkata
194.	057806	Mr. Agarwala Ranjan Kolkata	212.	058518	Mr. Jan Md Tanweer Kolkata

213.	058529	Mr. Satnaliwala Manoj Kumar Kolkata	232.	059244	Mr. Jain Vineet Kolkata - 700 046
214.	058583	Mr. Kejriwal Nidhish Kolkata	233.	059274	Mr. Swain Kapilendra Bhubaneswar
215.	058590	Mr. Khairulla Hozaifa T Kolkata	234.	059298	Mr. Roy Chowdhury Prosenjit Kolkata
216.	058591	Mr. Jain Jitendra Kolkata	235.	059317	Mr. Dhanuka Binay Kolkata
217.	058668	Ms. Agarwal Vibha Kolkata	236.	059362	Mr. Mukherjee Arghya Kolkata
218.	058669	Mr. Patni Madhup Kumar Kolkata	237.	059365	Mr. Patawari Vineet Kolkata
219.	058752	Mr. Arora Pankaj Kolkata	238.	059406	Mr. Anil Krishna Prasad Dishegarh
220.	058888	Ms. Tulshan Ranjita Kolkata	239.	059418	Mr. Sharan Amarendra Kolkata
221.	058897	Mr. Jajodia Pratik Kaliyaganj	240.	059496	Mr. Ghosh Sudip Ranjan Kolkata
222.	058904	Mr. Gupta Avik London	241.	059518	Ms. Chitra Aparna Y Los Alamos
223.	058958	Mr. Padhi Dilip Kumar Berhampur	242.	059529	Mr. Datta Sanjib Kolkata
224.	058987	Mr. Dalmia Bikash Kumar Kolkata	243.	059557	Mr. Mishra Sanjeev Kumar Kolkata
225.	059024	Mr. Suva Agarwal Bangalore	244.	059566	Mr. Jhunjhunwala Uttam Kumar Kolkata
226.	059080	Mr. Sengupta Subhadeep Mumbai	245.	059581	Mr. Rehani Suneet Kumar Kolkata
227.	059098	Ms. Dasgupta Swati Kolkata	246.	059592	Mr. Barjatya Alok Guwahati
228.	059099	Mr. Mallick Rajarshi Charan Cuttack	247.	059644	Mr. Siotia Ashwani Kumar Manama
229.	059115	Mr. Jaju Sunil Kumar Rishra	248.	059651	Mr. Panda Premananda Sambalpur
230.	059123	Mr. Mandal Ujjwal Kumar Kolkata	249.	059722	Mr. Modak Sumon Kolkata
231.	059210	Mr. Chamarla Mahesh Kolkata			

250.	059763	Mr. Mukherjee Nilanjan Kolkata	270.	060432	Ms. Agrawal Priti Howrah
251.	059870	Mr. K Murali Prasad Rayagada	271.	060444	Ms. Khatriwal Vinita Salkia
252.	059887	Mr. Mahipal Gautam Manchester	272.	060447	Mr. Sinha Vikram Kolkata
253.	060000	Mr. Sanjay Kumar Agarwal Raniganj	273.	060449	Mr. Singh Shivendra Kolkata
254.	060018	Mr. Chandak Krishan Kolkata	274.	060463	Mr. Gupta Amit Kolkata
255.	060031	Mr. Sarda Bineet Kumar Kolkata	275.	060464	Ms. Goenka Sushma Kolkata
256.	060087	Mr. Sarkar Dhruba Narayan Kolkata	276.	060548	Mr. M V Sunil Muscat
257.	060129	Mr. Mittal Amit Kolkata	277.	060584	Mr. Lodha Manish Kumar Purulia
258.	060174	Mr. Biyani Samir Kolkata	278.	060619	Mr. Arnab Pal Bangalore
259.	060226	Mr. Shah Ajay Kumar Howrah	279.	060626	Mr. Golchha Manish Kumar Kolkata
260.	060237	Mr. Panigrahi Jati Ranjan Kolkata	280.	060636	Mr. Saraogi Ishwari Kolkata
261.	060247	Mr. Poddar Amit Kolkata	281.	060655	Ms. Mehta Nita Kolkata
262.	060258	Mr. Dhawan Rajesh Kumar Kolkata	282.	060696	Mr. Gupta Rajiv Kumar Kolkata
263.	060279	Mr. Teli Anish Kolkata	283.	060716	Mr. Mittal Ajay Kolkata
264.	060293	Ms. Subramanian Aruna Kolkata	284.	060748	Mr. Gupta Amit Kolkata
265.	060311	Mr. Tulsian Vivek Kumar Kolkata	285.	060790	Mr. Rathi Rakesh Howrah
266.	060327	Mr. Agarwal Krishna Kumar Kolkata	286.	060827	Mr. Bandyopadhyay Supriya Sultanate of Oman
267.	060389	Mr. Raychaudhuri Sanjay Kolkata	287.	060832	Mr. Sahal Jay Prakash Kolkata
268.	060419	Ms. Patwari Sushma Kolkata			
269.	060427	Mr. Jain Vineet Kolkata			

288.	060846	Mr. Mitra Phalguni Kolkata	305.	061293	Mr. Soni Lalit Kolkata
289.	060874	Mr. Ghatak Bikramjit Kolkata	306.	061311	Mr. Mishra Amitabh Bhubaneswar
290.	060884	Mr. Bagaria Mukesh Kumar Disergarh	307.	061319	Mr. Sen Shovik Kolkata
291.	060932	Mr. Jain Vikash Kolkata	308.	061329	Ms. Kavita Kumari Kolkata
292.	060942	Mr. Maheshwari Navneet Kolkata	309.	061338	Mr. Khañtan Vikram Howrah
293.	060943	Mr. Rathi Pawan Kumar Howrah	310.	061366	Mr. Jain Manoj Howrah
294.	060944	Mr. Ray Suddhasattwa Kolkata	311.	061372	Mr. Sharma Vikash Guwahati
295.	060985	Mr. Mohanty Bidhu Bhushan Kolkata	312.	061394	Mr. Mahalik Atulya Kumar Bhubaneswar
296.	061017	Mr. Kothari Radhe Shyam Rishra	313.	061405	Mr. Sen Ashish Kolkata
297.	061028	Mr. Poddar Jai Kishan Kolkata	314.	061417	Mr. Agarwalla Sanjay Asansol
298.	061051	Mr. Sharma Rakesh Guwahati	315.	061434	Mr. Tulsyan Vineet Kolkata
299.	061130	Mr. Baheti Manoj Kumar Kolkata	316.	061469	Mr. Saraf Anish Kumar Raniganj
300.	061179	Mr. Sarda Vikash Bhopal	317.	061484	Mr. Khandelwal Gaurav Silchar
301.	061193	Mr. Hussain Hatim Moiz Dubai	318.	061500	Mr. Dinesh Kumar Agarwal Barbil
302.	061198	Mr. Thakur Nilesh Kumar Kolkata	319.	061574	Mr. Agarwal Ravi Kant Sāguri
303.	061226	Ms. Jhalaria Prerna Kolkata	320.	061625	Mr. Mallik Sumanta Kolkata
304.	061266	Mr. Chakraborty Nilanjan Kolkata	321.	061626	Ms. Mukhopadhyay Kaberi Kolkata
			322.	061634	Mr. Agarwal Ritu Howrah

323.	061760	Mr. Pandey Arbind Kumar Asansol	342.	062094	Ms. Krishnan Aparna Kolkata
324.	061774	Mr. Dugar Alok Kolkata – 700 053.	343.	062110	Mr. Sharma Anurag Kolkata
325.	061789	Mr. Gupta Anand Kolkata	344.	062113	Mr. Hashmi Hassan Afroz Kolkata
326.	061817	Mr. Surana Pankaj Kolkata	345.	062122	Ms. Sanyal Bipasha Kolkata
327.	061878	Mr. Panda Raghu Nath Bhubaneswar	346.	062138	Mr. Sahu Manishankar Prasad Rishra
328.	061890	Mr. Rajat Goenka Kolkata	347.	062163	Mr. Siddheswar Pani Kolkata
329.	061891	Mr. Saraf Binit Kolkata	348.	062169	Ms. Roy Choudhury Srabanti Kolkata
330.	061921	Mr. Bajoria Sachin Kolkata	349.	062247	Mr. Ray Arijit Kolkata
331.	061956	Mr. Dugar Ravi Kolkata	350.	062252	Mr. Routray Ashok Kumar Mumbai
332.	061957	Mr. Mukherjee Amit Kolkata	351.	062299.	Mr. Jhunjhunwala Vikash Kolkata
333.	061960	Ms. Dugar Rekha Howrah	352.	062317	Mr. Chowdhury Pritam Kolkata
334.	061961	Mr. Pradhan Harihar Puri	353.	062319	Mr. Mehra Kabir Kolkata
335.	062032	Mr. Makharina Navin Asansol	354.	062324	Mr. Shaw Ritesh Asansol
336.	062048.	Mr. Dugar Pawan Kumar Howrah	355.	062336	Mr. Pradhan Ramesh Chandra Bhubaneswar
337.	062055	Ms. Jain Sangeeta Kolkata	356.	062343	Mr. Abhishek Kolkata
338.	062056	Mr. Agarwal Aman Kolkata	357.	062346	Mr. Jaiswal Sanjay Kumar Kolkata
339.	062059	Mr. Fatehpuria Rahul Kolkata	358.	062362	Mr. Roy Amit Kumar Hindmotor
340.	062078	Mr. Bhansali Pawan Kumar Kolkata	359.	062374	Mr. Jain Mahesh Kumar Titagarh
341.	062080	Mr. Chatterjee Kaushik Kathmandu	360.	062448	Mr. Khowala Lalit Kumar Kolkata



361.	062466	Mr. Agarwal Mukesh Kolkata	380.	063014	Ms. Kothari Dollv Kolkata
362.	062496	Mr. Bandyopadhyay Sudipta Kolkata	381.	063057	Mr. Jasapara Nishant Howrah
363.	062498	Ms. Choudhary Rashmi Kolkata	382.	063082	Mr. Verma Kamalesh Kumar Howrah
364.	062518	Mr. Biswas Prakash Chandra Kolkata	383.	063086	Mr. Mohanty Satyabrata Bhubaneswar
365.	062522	Ms. Tiwary Kumkum Kolkata	384.	063131	Mr. Nahata Niraj Kolkata
366.	062573	Mr. Verma Rajeev Kumar Kolkata	385.	063140	Mr. Manpuria Sanjay Kolkata
367.	062589	Mr. Jaiswal Sunil New Delhi	386.	063153	Mr. Patnaik Amiya Kumar Berhampur
368.	062632	Mr. Berlia Siddhartha Kolkata	387.	063157	Mr. Agarwal Dhiraj Guwahati
369.	062646	Mr. Panigrahi Mihir Ranjan Bhubaneswar	388.	063186	Mr. Goenka Sumit Kolkata
370.	062787	Mr. Somani Vikash Raniganj	389.	063256	Mr. Upadhaya Anil Kumar Kolkata
371.	062801	Mr. Agrawal Bishnu Prasad Mayurbhanj	390.	063266	Mr. Rao N Phani Kishor Kolkata
372.	062806	Mr. Mishra Bijan Kumar Dhenkanal	391.	063267	Mr. Dash Santosh Kumar Kolkata
373.	062818	Mr. Mahawar Pravin Kolkata	392.	063269	Ms. Modi Megha Gurgaon
374.	062865	Mr. Agarwalla Pintu Kumar Kolkata	393.	063274	Mr. Pachisia Vishal Kolkata
375.	062869	Mr. Acharya Shailesh Kolkata	394.	063287	Mr. Agarwal Gopal Kolkata
376.	062872	Mr. Losalka Rahul Raniganj	395.	063296	Mr. Nanda Udaya Narayan Bhubaneswar
377.	062890	Mr. Poddar Vikash Kolkata	396.	063327	Ms. Baheti Sugandha Kolkata
378.	062962	Mr. Varanasi Rajesh Jeypore	397.	063342	Mr. Agarwal Rajesh Barakar
379.	063003	Mr. Agarwal Bikash Kumar Kolkata	398.	063343	Mr. Choubey Navin Kumar Howrah

399.	063344	Mr. Bajoria Manish Kolkata	419.	063868	Ms. Gupta Sunita Kolkata
400.	063352	Mr. Khaitan Vikas Kumar Durgapur	420.	063869	Ms. Garg Neha Rourkela
401.	063371	Mr. Kalyani Urna Shankar Kolkata	421.	063877	Mr. Agarwal Vikash Kolkata
402.	063418	Mr. Singh Ram Nath Kolkata	422.	063903	Mr. Mittal Rakesh Howrah
403.	063427	Mr. Jaiswal Anup Kumar Jharsuguda	423.	070042	Mr. Choudhary Suresh Kumar Kolkata
404.	063458	Mr. Manna Ananda Kumar Hooghly	424.	070986	Mr. Sharma Ramesh Chandra Kolkata
405.	063471	Mr. Sett Abhishek Kolkata	425.	075637	Mr. Modi Dipak Kumar Kolkata
406.	063567	Mr. Joshi Balwant Kolkata	426.	080430	Mr. Bhutoria Bimal Singh Kolkata
407.	063568	Mr. Manu Kumar Kolkata	427.	084565	Mr. Subramanian SP KN Talcher
408.	063590	Mr. Agarwal Nitesh Vijay Kolkata	428.	086242	Mr. Panda Trilochan Bhubaneswar
409.	063600	Mr. Pradhan Sudhansu Ranjan Bhubaneswar	429.	090885	Mr. Balaji M Kolkata
410.	063627	Ms. Purnima Chabria Kolkata	430.	090952	Mr. Maheshwari Sudhir Rayagada
411.	063631	Ms. Mukherjee Indrani Howrah	431.	091194	Mr. Jain Binod Kolkata
412.	063642	Mr. Loyalka Manish Raniganj	432.	092236	Mr. Chopra Rupesh New Delhi
413.	063645	Mr. Agarwal Amit Kumar Kolkata	433.	093665	Mr. Jhunjhunwala Aditya Kolkata
414.	063648	Mr. Jain Pramod Kolkata	434.	095652	Mr. Das Biresh Bhubaneswar
415.	063696	Mr. Yagnik Rohit Bhadrakali	435.	096627	Mr. Gyanendra Kumar Panda Cuttack
416.	063708	Mr. Datta Partha Budge Budge			
417.	063807	Mr. Agarwal Ashish Kolkata			
418.	063861	Mr. Saraf Pankaj Kolkata			

436.	098526	Mr. Gupta Ashok Kumar Siliguri	445.	206286	Mr. Jegadesan K Car Nicobar
437.	099307	Mr. Mohapatra Parakash Chandra Bhubaneswar	446.	208856	Mr. Mukhopadhyav Debasish Kolkata
438.	103628	Mr. Choudhary Suresh Kumar Dubai	447.	210621	Mr. Ramesh M Jorhat
439.	105800	Mr. Sahu Rajendra Kumar Bhubaneswar	448.	212511	Mr. Tripathy Ganeswar Bhubaneswar
440.	109861	Mr. Panda Manoj Kumar Bhubaneswar	449.	213826	Mr. Jhunjhunwaia Abhishek Kolkata
441.	110874	Mr. Dash Manas Nayagarh	450.	215244	Mr. Vikas Lal Patel Port Blair
442.	116639	Mr. Mandal Sarbajit Ruwi	451.	401903	Mr. Gupta Manish Bongaigaon
443.	201879	Mr. Bhandwat Vinod Kolkata	452.	500031	Mr. Jain Praveen Sujangarh
444.	204986	Mr. Kaushik N Kolkata			

ASHOK HALDIA  
Secretary

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th July 2007

No. U-16/53/2000-Med.II/(M.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Madhya Pradesh for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. K.P. Shukla	1/9/2007 to 31/8/2008	Bhopal Sagar Mandideep Itarsi.

DR. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner